

श्रीलब्धिसूरीश्वर - जैनग्रन्थमालायाः त्रिशत्तमो मणिः [३०]

आत्म - कमल - लब्धि - लक्ष्मण - सूरीश्वरेभ्यो नम

श्रीश्रुतस्यविराचार्यदेव - श्रीलिनसुदरसूरीश्वरेण विरचित.

॥ श्रीदीपालिका - कल्पः ॥

ॐ नव-स्मरणानि गौतमस्वामिरासश्च ॐ

ॐ एतस्य ग्रन्थस्य सयोजक सशोधकश्च पू. मुनिराज - श्रीहिमेन्द्रविजयजी - महाराज. ॐ

श्रीसघप्रदत्त - द्रव्यसाहाय्येन प्रकाशिका, श्रीलब्धिसूरीश्वर - जैनग्रन्थमाला, मु० छापी (जीला - वडोदरा)

संचालक - चटुलाल जमनादास शाह

विक्रम - सं० २००९

ॐ मूल्यममूल्यम् ॐ

काइस्टाब्द - १९५२

पीर - सं० २४७९,

Printed by Laxmibai Narayan Chaudhari, at the Nirnaya Sagar Press, 26-28 Kolbhat Street, Bombay 2.

Published by Chandulal Jamnadas Shah, Cheni, Baroda.

અન્યકારનો-પરિચય અને પ્રાકટન.

અથ શ્રુતભક્ત વિદ્વન્જનોના હસ્તકમલમાં આ અન્ય સુકતા સહર્ષ થાય છે કે, દરાપુરા, છાણી, સુરત, આદિ જુદા જુદા જ્ઞાનભાડાસોમાથી હસ્તાધીપીત પ્રતો ઉપરથી આ અન્ય તૈયાર કરી છપાવવા ઉદ્દેશથી બનતા લલિતન્યતાના કારણે ફેટલા વર્ષો થયા વચમાં અટકી ગયો હતો તે આને પૂર્ણ થઈ બહાર આવે છે

અન્યકારનો-પરિચય—આ અન્યકારની જન્મભૂમિ, ભતિ, દીક્ષાસમય, પરિવાર, પ્રશસ્તિના અભાવમાં વિશેષ બાણી શકવું નથી પરન્તુ ગુરુયોગ, ગુરુપરંપરા, આચાર્યપદ, અન્ય અન્યોવી તથા અન્તમા આવતા શ્લો ૪૩૬ થી કર્તાનો સમય ૧૪૮૩ અને ગુરુ-શ્રીતપાગચ્છાધિપતિ પૂં ૩૧ સોમમુદરશ્રી-ધરજી માં ના શિષ્ય પૂં ૩૧ જિનમુદરશ્રી-ધરજી માં આ વસ્તુ માલમ પડે છે

હવે અન્ય અન્યમાથી—શ્રીસોમમુદરશ્રીજી માં વિં સં ૧૪૩૭ માં શ્રીજ્ઞાનદસૂરિ પાસે દીક્ષા લીધી, વિં સં ૧૪૫૦ માં શ્રી ઉપાધ્યાય થયા, અને વિં સં ૧૪૫૭ માં શ્રીદેવમુદરશ્રીજીએ તેમને આચાર્યપદ પદવી આપી પોતાના પદ ઉપર સ્થાપન કર્યા, વિં સં ૧૪૬૬ માં તેઓ સ્વર્ગવાસી થયા, તેઓશ્રીના વિકાન વણા શિષ્ય પૈત્રીના આ શ્રીદીપાલિકા-કટપના કર્તા શ્રીજિનમુદરશ્રીજી માં પણ હતા, હવે તેન સાહિત્યનો સક્ષિપ્ત ઇતિહાસમાથી પાને-૪૫૫ પરથી “ગુણરાજ નામના શ્રાવકે પ્રથમ સં ૧૪૫૭ થીજી સં ૧૪૬૨ માં શ્રીગરુડન્ય ર-તાયત્ત મહાતીર્થ યાત્રા કરી અને ત્રીજી ૧૪૭૭ માં દશ-દેનાલય સહિત પૂં ૩૧ શ્રીસોમમુદરશ્રીજી માં ને સાથે લઈ પાતશાહના ફરમાન મેળવી એક મોટા સંઘપતિ તરીકે શ્રીવિમલાચલ-તીર્થની યાત્રા કરી મધુમતિ પુરિ (મહુવા) માં આ મઘપતિએ ઉત્સવપૂર્વક શ્રીજિનમુદર વાયકને સૂરિપદ અપાન્યું” વળી શ્રાહ્નવિધિ પ્રકરણના ભાષાન્તરની પ્રશસ્તિમાં પણ પૂં ૩૧ શ્રીરત્નશેખરશ્રીજી માં લખે છે કે—“એકાન્ત મપ્યેકા દલાક્ષિત્ય જિનમુદરરાચાર્યા ! અર્થ-તપશ્ચર્યા કરવાથી એકાગી (એક વડીયા શરીરવાળા) છે છતાં પણ અગીર અગના પાડી યોથા શિષ્ય શ્રીજિનમુદરશ્રીજી થયા ”

श्लोक ८ नी टिप्पणीમાં बिष्णु-द्रમકને સોપાનકરુનગરમાં દીક્ષા આપી એ લખાણુ-છાણીમાં શ્રીકાન્તિ વિં માં ના હસ્તલિખીત દીપાલિકાકલ્પમાંથી લીધેલ છે, બ્યારે પૂંશ્રીહિમચંદ્રસૂરિ માં ના પરિશિષ્ટ-પર્વ સર્ગ ૧૧ પાને ૬૩ માં કૌશામ્બી નગરીમાં દ્રમક-લિહુકને દીક્ષા આપીને સંપ્રતિ-રાજ થયા. તત્ત્વબહુશ્રુતગમ્ય.

અનાદ્યંત કાલથી શુભાશુભ કર્મના યોગ ચતુર્ગતિમાં પરિભ્રમણ કરતા હવેને સર્વથા કર્મનો ક્ષય અને મોક્ષ-સુખની પ્રાપ્તિને માટે જ્ઞાન દર્શન-ચરિત્ર એ પરમ આલબન છે, આત્મા અઘાપિ લવાંત કરી શક્યો નથી. એમાં જે કોઈ કારણ હોય તો તે સમ્યક્-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો અભાવ છે, તેથી તે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને લક્ષિ માટે આ શ્રીદીપાલિકા-કલ્પનો પ્રારંભ કરેલ છે. વિશેષ કુટુંબનોટાદિમાં આવતાં હચારા, અહોતેર ખીલો, દશપ્રકારના કલ્પવૃક્ષો, શ્રીવીરલગવાનથી લેઈ લાવી તીર્થકરદેવોના જન્મ-આન્તર, તથા હવેના મતાન્તરો, ગન્ધાન્તરોથી ઉપલબ્ધ કરતાં અનેક મતાન્તરોને લેઈ નિશ્ચય પૂર્વના મહાન પુરુષો પણ જે વસ્તુને નિર્ણય-રૂપ કરી શક્યા નથી, તો મારા જેવા અસ-આલ-પંચુ મેરુપર્વતના ઉદ્ધનનું કાર્ય શીરીતે કરી શકે? અર્થાત્ નજ કરી શકે. છતાં શુભ કાર્યમાં યથાશક્તિ ઉદમ કરવો બેઈએ એ ન્યાયે તદ્ કાર્યને કરતાં સુશક્ત્ય અને લભ્ય વિશેષ અન્યો આદિના અભાવમાં વસ્તુ તૈયાર કરી કરવા છતાં અનેક તુટીઓ રહેલ છે, અને મારે પણ આ કાર્ય પ્રાથમિક હોવાથી શુદ્ધ સ્ખલનાદિને સુસન્નનો હંસ ચંચુ-ક્ષીર ન્યાયે ગુણ ગ્રહણ કરે. મારા જેવા અલ્પમતિ-છન્નસ્થ પ્રેસક્ષોપ અને શ્રીવીરરાગદેવની આજ્ઞા વિરુદ્ધ લખાયેલ હોય તેનો હું મિચ્છામિ દુઃકડં દેઈ અનેક અન્યનિર્માતા કવિદુલ્કારીટ વ્યાં વાં પૂં આચાર્ય દેવેશ શ્રીમદ્ વિગ્ન્ય લખિન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનો મારા ઉપર ઉપકાર સ્મૃતિપથમાં લેઈ આ તૈયાર કરેલ શ્રીદીપાલિકા-કલ્પરૂપ-અન્ય હરતકમલમાં સમર્પી દૃતાર્થ ગાઉં એજ.

શ્રીકૃત્થનાથ સ્વામિપ્રાસાદસ્ય પ્રતિધાનદિને

સુ. સીસોદરા (નવશારી)

વિં સં. ૨૦૦૮ મહા-શુદ-૬ શુક્રવાર

તા. ૧-૨-૧૯૫૨

લી. ૦
મુનિ-હુમેન્દ્રવિગ્ન્ય

પ્રસાવના
પ્રત્યકારનો
સામાન્ય
પરિચય
સંપ્રતિ-
પૂર્વલિગ્ન્ય
મતાન્તર
પ્રકાશનનું
નિમિત્ત

पू० सुनिराज श्रीहिमैन्द्रविजय भा० तथा पू० सुनिराज श्रीगुणसुद्रवि० भा० ना अभ्यक्षतामां शा० लालचंद्र अनराजल्ल-छुलेड,
नाण्णोपेठ पूना-सीटी (भारवाड-शीवगंज) वाळाञ्जे वि० सं० २००६ ना भागशर महीनामां पूना-दाशकर-सोलापुर-यन्तरमां श्रीडिधान-तप
करावेळ ते वणते थयेळ आदि रकमोनी शुभ-नामावली

नाम	गाम	नाम	गाम
१२४) श्रीडिधान तपमां ज्ञान पूजननां	सोलापुर-यन्तर	१२) गुलाभयेन	भारवाड-मुंडारा
५०) शा० वालचंद्र लण्णभीचंद्र	पूना-सीटी	१०) शा० पोपटलाल शाकरचंद्र	कोळवडा
३५) शा० लालचंद्र अनराजल्ल	छाळेड - नाण्णोपेठ-पूना-सीटी	५) शा० देवीचंद्र परतापल्ल	सदाशीवपेठ पूना-सीटी
१५) शा० मीस्त्रीमल भगनीरामल्ल	लवानीपेठ-पूना-सीटी	५) शा० छुडमीचंद्र ल्वाल्ल	नारायणपेठ-पूना सीटी
१५) शा० लीण्णामाई मोतीचंद्र	भीदीसोरा	५) शा० प्रेमचंद्र सरीचंद्र	भारवाड-वांणोड
११) शा० जेचंद्र करशनल्ल	पूना-हेम्भ	५) छुस्तुयेन	"
११) शा० अदराज पुनमचंद्रल्ल	"	५) भोळुनाभाई	"
११) शा० जेज्जमल वरधीचंद्रल्ल	(भारवाड-हॅडा)	५) मेनाणेन	पूना-सीटी
११) मेता-रंगराज जेताराजल्ल	(भारवाड-व्याणोड)		

સુખ્યતયા ભવિષ્યમા થનારા તીર્થંકર-દેવોના નામો સૂત્રાદિમા ફેરફાર દેખાતા નથી, છતાં શ્રીસમવાયાગસૂત્રના મૂલમાં તથા શ્રીપ્રવચન-
 સારોક્ષારમાં શ્રીસમવાયાગસૂત્રના આવતા સાક્ષીપાઠમાં-૧૯ માં અનિચ્છી, (અનિવર્તિ) ૨૧-મા વિભવ લીધા છે, અને ચોવીશમા ભદ્રલિંગ
 લીધા નથી, એટલે ત્રેવીશ તીર્થંકર-દેવોના નામ થાય છે હવે શ્રીસમવાયાગસૂત્રના મૂલમાં તથા-ભાષાન્તરના મૂલાર્થમાં-“મર્મમાવલિદ્ વિનેશ્વર ૧૨”
 માં લીધા તેમ શ્રીપ્રવચનસારોક્ષારમાં આવતા શ્રીસમવાયાગસૂત્રનો સાક્ષીપાઠમાં પણુ-“યયા-મહાપતમે ૧ સુગદેવે, ૨ સુગસે ૩ ય સપપમે ૪ ।
 સ-વાણુમ્હૈ ૫ અરહા, દેવગુત્તે ૬ ય હોક્ષ્વદ્ ॥ ૧ ॥ ઉદ્ગ ૭ પેઠાલપુત્તે ૮ ય પોટિલે ૯ સયણુ ૧૦ ઇય । મુણિસુગ્વણુ ૧૧ અરહા, સ્વસ્માગવિક ૧૨ નિણે ॥ ૨ ॥
 અમમે ૧૩ નિક્ષ્માણુ ૧૪ ય નિષ્ણુલાણ ૧૫ ય નિમ્મમે ૧૬ । ચિત્તગુત્તે ૧૭ સમાહી ૧૮ ય આગમસ્સેણ હોક્ષ્વદ્ ॥ ૩ ॥ સવરે ૧૯ અતિચ્છી ૨૦ ય વિવાણ
 (વિજ્ઞ) ૨૧ વિમ્લે ૨૨ ય દેવોચ્ચાણુ ૨૩ અરિહા અણતવિજ્ઞુ ૨૪ ઇય ॥ ૪ ॥” “સ્વમાવલિક” આરમાં લેઈ ચોવીશનો મેલ કરેલ છે હવે-
 “સ્વમાવલિક” એ સ્વતત્ર તીર્થંકર તરીકે નામ નથી પરન્તુ “નિણે” શબ્દનુ વિશેષણુ છે, અને “સ્વમાવલિક” સ્વતત્ર તીર્થંકર-નામ લઈએ
 તો “અમમ” એ તેરમા તીર્થંકર થાય છે અને આમ “અમમ” એ આરમાં તીર્થંકર તરીકે બધામાં મલી બધા છે

વલી ભાવનોક-પ્રકાશમાં શ્રીમમ-નાયાગસૂત્રના આવતા સાક્ષી પાઠમાં-“સમવાયાગસૂત્રે તુ-મહાપતમે ૧ સુગદેવે ૨ સુગસે ૩ સપપમે ૪ ।
 સ-ગાણુમ્હી ૫ અરહા, ત્રેયગુત્તે ૬ વિણુત્તમે ॥ ૨ (૧) ॥ ઉદ્ગ ૭ પેઠાલપુત્તે ૮, પોટિલે ૯ સત્પુતિ ય ૧૦ । મુણિસુગ્વતે ય અરહા ૧૧, મ્લમાવલિદ્ નિણે
 ॥ ૩ (૨) ॥ અમમે ૧૨ નિક્ષ્માણુ ય ૧૩, નિષ્ણુલાણુ ય ૧૪ નિમ્મમે ૧૫ । ચિત્તગુત્તે ૧૬ સમાહી ય ૧૭, આગમેસ્સણુ હોક્ષ્વદ્ ॥ ૪ (૩) ॥ સવરે ૧૮
 અણિચ્છી ય ૧૯, વિણુ ૨૦ વિમ્લેતિ ય ૨૧ દેવોચ્ચાણુ ૨૨ અરહા, અણતવિરિણુ ૨૩ મ્લેતિ ય ૨૪ ॥ ૫ (૪) ॥” મ્લેતિ આ શબ્દથી ભદ્રલિંગ ૨૪ માં
 અહીં લીધા છે, અને ચોવીશનો મેલ કરેલ છે, અને અત્રે પણુ “સ્વમાવલિક” શબ્દથી આરમાં લિંગ તરીકે લીધેલ નથી તેમજ શ્રીપ્રવચનસારો-
 ક્ષારે પણુ મ્લવિન આવે છે જેમકે-“દેવવિણુ ૨૨ અણતવિરિય ૨૩ મ્લવિણુ ૨૪ માવિમ્લરહમિ ॥ ૨૧૫ ॥”

હવે-પાછળના કોષ્ટકમાં ૧૯ માં યશોધર, ૨૧ માં મહા, અને ૨૪ માં ભદ્રલિંગ લીધા છે, બીજા બધા અરાબર છે વિશેષ કોષ્ટકથી બહી શકાય છે

बाविष्यमां थनारा तीर्थकर-७वो संगन्धी-श्रीसभवायांगसूत्रना भूदमां आम सामान्यथी तीर्थकर लवोनी संख्या गणुतां २५ थाथ छे, अने श्रीनैनंधर्भ्रप्रसारकसलाना तरइथी यडार पडेव श्रीसभवायांगसूत्र-भूद अने टीडाना बाधांतरनां भूदमां २५ तीर्थकर लवोना नामनिर्देश छे, ज्यारे बाधांतरना भूदार्थमां-२०मां तीर्थकर-७व “कृष्णु-द्वीपायन २०” लेगा वरि अने २३मां “दारुभृत २३” जुंदा वरि योवीशतो मेव डरेव छे.

श्रीसभवायांगसूत्रनो भूद पाठ, सूत्र-१५८ भूद-गाथा. तथा बाधांतरना भूदमां, आभ्रभाणु छे. साक्षी. पाठ—

“एणुसि णं चउव्वीसाए तित्थकराणं पुव्वभविद्या चउवीसं नामधेज्जा भविस्संति, तंजहा-सेणिय सुपास उदए पोट्टिल अणणार तह दढाऊ य । कत्तिय संखे य तथा नंद सुनंदे य सतए य ॥ ७७ ॥ बोद्धव्वा देवई य सच्चइ तह वासुदेव बलदेवे । रोहिणी सुलसा चैव तत्तो खलु रेवई चैव ॥ ७८ ॥ ततो हवइ सयाली बोद्धव्वे खलु तथा भयाली य । दीवायणे य कण्हे तत्तो खलु नारए चैव ॥ ७९ ॥ अंबड दारुमडे य साईडुद्धे य होइ बोद्धव्वे । भावी तीत्थगराणं णामाई पुव्वभविद्याइ ॥ ८० ॥”

डवे बावडोडप्रअशश्रन्थमां श्रीसभवायांगसूत्रनो उद्धृत साक्षीपाठमां २० अने २१ मां द्वीपायन अने कृष्णु थे जुंदा लीधा छे, अने २३ मां दाइभउ श७८ नथी अने २४ नो मेव डरेव छे. साक्षीपाठ—

“सेणिभ १ सुपास २ उदए ३ पोट्टिल अणणार ४ तह दढाऊ ५ अ । कत्तिअ ६ संखे अ ७ तथा नंद ८ सुनंदे ९ अ सयए अ १० ॥ १ ॥ बोद्धव्वा देवई चैव ११ सच्चइ १२ तह वासुदेव १३ वलदेवे १४ । रोहिणी १५ सुलसा १६ चैव तत्तो खलु रेवती १७ चैव ॥ २ ॥ ततो हवइ सयाली १८ बोद्धव्वे खलु तथा भयाली य १९ दीवायणे अ २० कण्हो २१ तत्तो खलु नारए चैव २२ ॥ ३ ॥ अंबडे अ २३ तथा साईडुद्धे (चरमे) अ २४ होइ बोद्धव्वे । उस्सप्पिणि आगमेस्साए तित्थयराणं तु पुव्वभवा ॥ ४ ॥” इति, प्रवचनसारोद्धरेऽप्येवं इत्यते, किं चात्र वासुदेवजीवलयोदशजिनः प्रोक्तः, अंतकृतसूत्रे तु द्वादशस्त-दुक्तं—“आगमेस्साए उस्सप्पिणीए पुंडेसु जणवएसु सतटुवारे नयरे वारसतो अममो णाम भरहा भविस्सइ” ति, अत्र द्वादशतीर्थकरोत्पत्तिः साधिक-पोडशाब्धिबन्धनिक्रमे स्यात्, विमलजिनस्थानीयत्वात्तस्य, ईयांश्च कालो नारक भवाद्यैश्चतुर्भिर्भैवः पूर्वोक्तैः सुपुरः स्यात्, त्रयोदशजिनस्तु वासुपूज्यस्थानीयः, तदुत्पत्तिस्तु साधिकवदचत्वारिंशदब्धिबन्धनिक्रमे, तावाच् कालस्तु पूर्वोक्तैर्भवेदुत्पुरो वासुदेवजीवस्येति ध्येयं ॥ अत्र चैतेषां पक्षाणां विसंवादे बहुश्रुताः सर्वविदो वा प्रमाणमिति ज्ञेयम् ॥ ये च नोक्ता न्यतिकरा जिनानां भाविनामिह । केचित्तेऽत्यन्तविदित्ताः केचिच्चाविदित्ता इति ॥ ६ ॥”

અરે શ્રીનિમગ્નુસ્વમૂરીશ્વરજી માં ના બનાવેલ શ્રીદીપાલિકાકલ્પમા આવતા ભવિષ્યમાં થનારા શ્રીતીર્થંકર દેવોના નામો તથા ભવોના નામોને અનુક્રમશીને ઉપર કોષક્રમાં તથા અનુક્રમશીક્રમાં પ્રથમ આણેલ છે અને અન્થાન્તરોમાં આવતા મતાન્તરો પલ્લુ કોષક્રાદિમા આપેલ છે, છતાં તત્સંગી નેકાઈ વિશેષ સમ્બન્ધ તથા માહિતી ઉપલબ્ધ થયેલ છે તે અહીં નીચે આપવામા આવે છે

શ્રીવી.ભગવાનના શાસનમા આધેન તીર્થંકર નામ કર્મ-જીવોના નામો શ્રીશણ્ણાગમૂત્રજી નવમા ઠાણુનો પાક-૧
મગ્ગસત્ત ણ મગ્ગલો મહાવીરસ્સ તિલ્લસિ ણયહિં જીવહિં તિલ્લગ્ગરામાગ્ગોસે કમ્મે તિલ્લવ્વસિત્તે સેજ્જિત્થેણ સુપાસેણ ઉદ્ધાતિણા પોદ્ધિલેણ મ્મણ્ણરેણ વ્હાહાહાણા

મરોગ મરોળે મુલમાપ્પ સ્સાવિત્તે રેવ્વનીતે ૧ (સુ. ૬૯૧)
દીક્કમાધી-૧-૧-ત્રેલ્લિક-રાન પ્રસિક્ક, ૨-સુપાર્શ્વ-વીરપ્રભુના કાકાનો ભવ, ૩-ઉદાયી-કોણીક પુત્ર, ૪-પોદ્ધિલ-આણુગાર અપ્રસિક્ક છે, ૫-દહા-યુપ-અપ્રસિક્ક છે, ૬-૭-શખ-શતકશ્રાવસ્તીનગરીના શ્રાવક છે, શતકનુ અપરનામ પુકટી છે, ૮-સુલસા-નાગરશિક્કાભાર્યા, ૯-રૈવતી-શ્રીવીરપ્રભુને

રેલ્લિક માને ઐરોધ (ખીજોરાપાક) દેવાવાની

શ્રાવહિનકુલ્ય માં ૨ પાને ૧૮ મેં પાક-૨

તરાદ-સેળિય ૧ સુપાસ ૨ પોદ્ધિલ ૩ ઉદાહ ૪ સલે ૫ દહાયુ ૬ સયને ૭ ય । સુલસા ૮ રેવ્વે ૯ શીરસ્સ વ્હવ્વતિલ્લયત્તણા નવપ્પ ॥ ૨૧૨ ॥
શ્રેણિક-પ્રલીત, સુપાર્શ્વ-મગ્ગવત પિતૃલ્લ, ઉદાયી-કુળિકપુત્ર, શાસ્ત-દાતકી-શ્રાવતી શ્રાવકો, શતકસ્તુ-પુલ્લકીલ્પપરણ્ણ, સુલસા-નાગરવિક્રમાર્ચા, રૈવતી-નંદકમ્પસે સગ્ગઝ ઐય્વદ્ધાત્તો, રોયો તુ મ્મપ્પત્તીવો

૧ શ્રીપન્નનામ-શ્રેણિકઆત્મા, શ્રીવીરપ્રભુના નિર્વાણુથી ૮૪૦૦૭ વર્ષને પાચમાસનુ જન્માતર સમજવું, હાલ તેઓ પહેલી નરકમા છે

૨ શ્રીસૂરવેવ-સુપાર્શ્વઆત્મા, તે શ્રીવીરપ્રભુના કાકાનો ભવ શ્રીસ્થાં સૂત્ર-૬૯૧, નવમે ઠાણુ, પાને-૪૩૨, શ્રીપ્રાં સાં રે, ભાવં પ્રકાશે, તથા ઉં પ્રાં ભાં ભાં ૩ જે ત્યા પાણુ આ પ્રમાણે છે નિં વિં ભાં ૫ મેં ભુવનપતિમા ગયા છે, અન્ય મતે ધીભ દેવલોકમા, ધીભ દેવલોકમા એકપલ્લોપમથી અધિક જથ્થન આણુબ્ધ સ્થિતિ છે

૩ શ્રીસુપાર્શ્વ-ઉદાયી આત્મા, કોણિક-પુત્ર હવે શ્રીસ્થાં સૂત્રે નવમે ઠાણુ, શ્રીપ્રાં સાં રે પલ્લુ કોણિક પુત્ર કહેલ છે, તથા ઉં પ્રાં

લાં ૭૦ ૩ ને શ્રેણિકરાબના પૌત્ર અને કોણિક પુત્ર કહેલ છે. વિં ૭૦ વિં ૭૦ માં ભુવનપતિમાં ગયા છે, મતાન્તરે ત્રીજા દેવલોકમાં. ત્યાં જઘન્ય આયુષ્ય સ્થિતિ એ સાગરોપમની છે.

(ઉદાયી-એકદા ચ નિશિ દેરાનિર્દીપ્તિરિપુરાજપુત્રે દ્વાદશવાર્ષિકદ્રવ્યસાધુના કૃતપૌષ્યોપવાસઃ સુલપ્રસુસઃ કક્ષાયઃકર્તિકાકળકર્તેન વિનાશિત ઇતિ-સ્થાનાઙ્કે) ધ-સ્વયંપ્રમ-પોદ્ધિલ અણુગાર (સાધુ) અપ્રસિદ્ધ છે. વિં ૭૦ વિં ૭૦ માં તથા અન્યમતે ચોથા દેવલોકે, ચોથા દેવલોકમાં જઘન્ય આયુષ્ય સ્થિતિ એ સાગરોપમ અધિક છે.

૫-શ્રીસર્વાનુમૂતિ-દહાયુઆત્મા, શ્રીમદ્દિનાથના કાકાનો જીવ કહે છે. અને દીવાળિકદ્ય લાપાન્તરે શ્રાવકનો જીવ કહેલ છે, જ્યારે શ્રીસ્થાન સૂત્રે-અપ્રસિદ્ધ છે. વિં ૭૦ વિં ૭૦ માં તથા અન્યમતે યીજ્ઞ-દેવલોકે ગયા છે, જ્યાં જઘન્ય આયુષ્ય સ્થિતિ પદ્યોપમથી અધિક છે.

૬-શ્રીદેવશ્રુત-કીર્તિઆત્મા, કાર્તિકશેઠ-આનંદગાથાપતિના પિતાનો જીવ. વિં ૭૦ વિં ૭૦ માં તથા અન્યમતે પ્રથમ-દેવલોક.

૭-શ્રીઉદય-શંખ-શતક, ભાવલોક પ્રકાશમાં આ નામના શ્રાવકો શ્રાવસ્તી નગરીમાં વસે છે, શ્રીવર્દ્ધમાનસ્વામિએ પર્વદામાં શંખની સ્તુતિ કરેલ છે, અને વિદેહે મોક્ષ જશે, શ્રીભગવતીજમાં પણ કહેલ છે, કે એમનું આયુષ્ય ચાર પદ્યોપમનું છે. અને છઠ્ઠા તીર્થધરનું માન સંખ્યાતુ છે. માટે અન્ય દેવા, વહી સ્થાનાંગસૂત્રે-દીકામાં આજ શંખને કહેલ છે,

અસ શક્ત્ય-—એવં ચો વર્દ્ધમાનેન, સ્તુતસ્તાદશર્પદિ । વિદેહે સેત્યમાનોઙ્સૌ, પદ્મમાઙ્ગ ડરીરિતઃ ॥ ૩૮ ॥ સ્વૌંડસ્યાસુરપિ પ્રોક્તં, શ્રુતે પલ્યચતુષ્ટયમ્ । પછો જિનસ્તુ શ્રીમલ્હિજિનસ્થાને મલ્હિવ્યતિ ॥ ૩૯ ॥ તત્તશ્ચ—સંલ્યેય એવ કાલઃ સ્નાન્નાવિપષ્ઠજિનોદયે । ત્વ પષ્ઠજિનજીવો યઃ શક્ષ્ણોઙ્ન્યઃ સેતિ કુખ્યતે ॥ ૪૦ ॥ સ્થાનાઙ્ગવૃત્તૌ ત્વયમેવ શક્ષ્ણો માવિતીર્થકૃતયા પ્રોક્તસ્તદાશંયં ન વેમીતિ । જીવઃ શક્ષ્ણસ્ય ષષ્ઠોઙ્ગર, માવી દેવશ્રુતામિધઃ । મલ્હિવ્યત્યુદયાલ્યોઙ્ગરન્દીજીવશ્ચ સસમઃ ॥ ૪૧ ॥

કુટનોટમાં-આપ્રમાણે—શ્રીસ્થાનાઙ્ગવૃત્તૌ હિ શક્ષ્ણસ માવિતીર્થકૃત્વોક્તાવપિ ન પષ્ઠજિનત્યોક્તિઃ તત્તો નામાન્તરેણાન્યજિનપૂર્વમવઃ સ્વાચ્ ॥ ૭૦ પ્રાં ૭૦ લાં ૩ માં પણ યીજ્ઞા શંખને લીધેલા છે. વિં ૭૦ વિં ૭૦ માં તથા અન્યમતે ચારમાં દેવલોકમાં ગયેલ છે, ત્યાં જઘન્ય આયુષ્ય સ્થિતિ ૨૧ સાગરોપમની છે.

૮-શ્રીપેટાલ-આનંદશ્રાવક, તે શ્રીવીરપ્રભુના દશ શ્રાવક પૈકીનો ન દેવો કારણ કે તે આણુંદ પ્રથમ દેવલોકે ચારપદ્યોપમ આયુષ્ય, મહા-વિદેહે જન્મ અને મોક્ષ કથન છે, માટે અન્ય દેવા. વિં ૭૦ વિં ૭૦ માં પ્રથમ દેવલોક કહેલ છે.

શ્રીવીર-
મગવાનના
શાસનમાં
ચાંદેલ
તીર્થકર-
નામકર્મ-
જીવોના
નામો, સા-
ક્ષીપાઠ અને
વિશેષ
સંબંધ.
॥ ૬ ॥

૧-શ્રીપોટિલ-સુન્દરઆત્મા, ઉં પ્રાં ભાં ૩ ને તથા વિં વિં ભાં ૫ માં પણ સુન્દર-શ્રાવિકા કહેલ છે વિં વિં ભાં ૬ માં તથા અન્યમતે પાચમે દેવલોક ગયેલ છે, જ્યાં જ્ઞાન્ય આયુષ્ય સ્થિતિ ૭ સાગરોપમની છે

૧૦-શ્રીરાત્નસિદ્ધિ-શતક શ્રાવક, ભાવં પ્રાં ૩ માં પણ કહેલ છે કે-શતક-શબ્દનો સહચાર હતો અપરનામ પુંકવી, શ્રીહૈમવીરચરિત્ર-૬ માં કેકરી-લવ, અને ૧૦ માં દેવતીલવ કહેલ છે ઉં પ્રાં ભાં ૩ માં શતકનું અપર નામ પુંકવી, તથા શ્રીભગવતીમા પથુ આ પ્રમાણે કહેલ શ્રાવકનો લવ સમન્વો વિં વિં ભાં ૫ મેં તથા અન્યમતે ત્રીલ નરકે

૧૧-શ્રીપુનિસુવત્ત-દેવપ્રીઆત્મા, શ્રીકૃષ્ણલત્ની માતા-ઉં પ્રાં ભાં ૩ ને કહેલ છે વિં વિં ભાં ૫ મેં તથા અન્ય મતે આહમ્ દેવલોકે, હવે ત્યાં જ્ઞાન્ય આયુષ્ય સ્થિતિ ૧૭ સાગરોપમની છે

૧૨-શ્રીત્રમમ-કૃષ્ણમહારાજનો આત્મા, કૃષ્ણ-૧-મુદેવલિણ્ડો પુ-“કળ્હો વઘ્યપુલ્કીઓ વચ્ચહિતા મારદે વાલે સયદુવારે નયરે પત્તમહચિયમાવો વચ્ચમ્ પદિવચિય તિલયપનામ્ ૫ (૨) ઘજિતા વેમાણિણ્ડુ વચ્ચજિલા દુવાલસસો મમમનામણિયયરો મવિસ્સદ્” દુપુકમિતિ ઘેપ ॥ ઉં પ્રાં ભાં ૩ માં પણ શ્રીકૃષ્ણ બારમાં લીધા છે અને ત્યાં કનુ છે કે સમવાયોગસૂત્રમા કહેલું છે કે, કૃષ્ણુ બાપી ચોવીશીમા તેરમાં (હવે-આને ઉત્કમથી વર્ણવે તો આવી શકે છે નેમકે ૨૪-૨૩-૨૨ ધલ્યાહિ ૧૩ માં અમમ નામે થાય છે) તીર્થકર થયે તત્તવળહુશ્રુતગમ્ય શ્રીકાલ્યાણસૂત્રલ આહમા શણુમા સૂત્ર ૧૨૭ ની ટીકામાં શ્રીકૃષ્ણમહારાજ અમમ નામે બારમાં તીર્થકર થયે હાલ તેઓ ત્રીલ નરકમા છે

૧૩-શ્રીનિસ્કપાય-સલ્કી-વિદ્યાધર આત્મા, ચોડામહારાજની પુત્રી સુન્દરેષા સાધ્વીનો પુત્ર, અન્ધારમો-રુદ્ર (લોકમા મહાદેવ તરીકે પ્રસિદ્ધ) પેઠાવ-પુત્ર છે કોઈ હરસલ્કી-રાવકુનો પુરોહિત કહે છે

૧૪-નિપુલાક-બલદેવ આત્મા, છા દેવલોકે ભાવ પ્રાં મા કનુ છે કે શ્રીકૃષ્ણમહારાજના લાઈનો લવ ન લેવો. કારણ કે તે શ્રીહૈમ-ચદ્રસૂરિદ્ધત શ્રીનિભાયાચરિત્રમાં તથા શ્રીઆવશ્યક નિયુક્તિમાં શ્રીઅમમનાથ તીર્થે મોક્ષ જયે, અને તેઓ પાચમાં દેવ લોકમા ગયા છે

૧૫-શ્રીનિર્મમ-સુલસા શ્રાવિકા, નાગરથિક લાર્યા, અબડ પગીશીત સુલસા-ને શ્રીવીરપ્રભુએ અબડદારા ધર્મ-લાલ કહેવડાવ્યો હતો તે પાચમો દેવલોક

૧૬-શ્રીચિન્નગુપ્ત-રોહિણીઆત્મા, બીલ દેવલોકે ઉં પ્રાં ભાં ૩ માં બલભદ્રની માતા રોહિણી લવ થયે, એમ કહેલ છે ભાવં પ્રકાશે કનુ છે કે,

श्रीजिनप्रभसूरि-दृत्प्राकृतगद्यदीवादीद्वयमां अलिप्राय आग्रभाणे छे. विशेष-१६मां-रोहिणी-केई भणति-“कक्किपुत्तो सिचुंले उद्धारं करित्ता सिणभणमंडियं पुहविं काळं मज्जियत्तिययरनामो सगं गंतुं चित्तगुत्तो जिणवरो होही; इत्थं य बहुसुयमयं पमाणं ॥”

१७-श्रीसमाधि-देवती-वीरप्रभुने औषध आपवावादी (भीजेरापाड). लरतेश्वर थाहुअदी वृत्तिमां पणु डहुं छे डे सतरमां समाधि नामे तीर्थकर शंशे. आरमो देवलोड. १८-श्रीसंवर-शतादी श्रावडने एव, आडमो देवलोड.

१९-श्रीयशोधर-द्वीपायन ऋषीनो एव जे हारीडा नगरीनो दाड करनार, लुवनपतिमां अशिक्षुभारदेव थया छे. हुवे ७० प्रा० ला० ला० नामे ३ मां आ द्वीपायन लोडमां वेदव्यास अेवा नामे प्रसिद्ध छे, ते समजवा. सिद्धअक्ष-वर्ष-१ अंड १८ मां पाने ४२४, “अश्र-४३७-द्वारीडानो दाड करनार द्वीपायन ऋषी ओगणीसमो तीर्थकर समजवो डे डेम? ७०-तीर्थकर थवाना छे ते उपर्युक्त द्वीपायन नहि पणु भील द्वीपायन छे, प्रायः तीर्थकरो तेवा पाप करवावाणा होता नथी.” हुवे सूयगडंगसूत्रे-“दीवायणे य कण्हे तत्तो खलु नारए चैव ॥ ७९ ॥ आ वाअथी द्वीपायन-दृणुमहारजना वप्रतना देभाय छे, तरवणहुश्रुतगम्य

२०-श्रीविजय-कर्णु (कोण्डिक) एव. अन्यमते आरमो देवलोड, वि० वि० ला० प मे छठी नरडे. ७० प्र० ला० ला० ३ मां डहे छे डे “डेटला ओड आ कर्णुने पांडव डौरवनो बाध डहे छे, अने डेटला ओड तेने चंपानगरीना पति वासुपूज्यना वंशने डहे छे, तरवडेवणी न्णै.”

२१-श्रीमह्य-नारदआत्मा, पांयमो देवलोड. हुवे ७० प्रा० ला० ला० ३ मां डहे छे डे-“आ नारदने लगवतीसूत्रमां वणुवेव. निर्यथ डहे छे अने डेटलाओड रामलक्ष्मणना समयमां थयेवा नारद डहे छे.”

२२-श्रीदेवजिन-अंभडआत्मा, आरमो देवलोड. लाव० प्रडाशमां डहेल छे डे “अंभड-सुदासा-परीक्षित, श्रीवीरप्रभुओ जेना द्वारा धर्म-दास डहेवडाव्यो हुतो ते न्णवो, “यस्त्वम्बडो महाविदेहे सेत्सन्नौपपातिके कभिहितः सोऽन्य एव सम्मान्यत-इति स्थानाङ्गवृत्तौ ॥” हुवे ७० प्रा० ला० ला० ३ मां “औपपातिकसूत्रमां जे अंभडने वणुव्यो छे ते तो महाविदेहमां सिद्धि पांमशे जेम डहेलुं छे तेथी आ अंभड सुदासानी परीक्षा करनार न्णथातो नथी. तरव डेवणी न्णै.”

२३-श्रीअनन्तवीर्य-अभरआत्मा, नवमा जेवेयडे. २४-श्रीमद्रजिन-स्वातिथुड (अथवा-स्वयंथुड) आत्मा, सर्वार्थसिद्धे.

श्रीगु प्रधातोला साधना नाम निर्देशादि

क्रमा संख्या	पुत्रप्रधान संख्या	पदेला पुन प्रधान गरो	उला पुन प्रधान गरो	वसे व्यावरो	उदय-२३ नामा सं.	कोटी भाषा सनव्यायीय
१	१०	गुपभास्वामि	पुष्पमित्र	६१७	१०	कोटा कोटीय
२	३३	वज्रसेन गुरि	अर्द्धमित्र	१३८०	१०	"
३	६८	पाणिपनरि	नेशाप मित्र	१५००	११	कोटिवशा
४	७८	वरिसिद्ध	गुप्राप्ति	१५४५	८	"
५	७५	नन्दिमित्र	रथानर	१६००	३	"
६	८६	गुरगेन	रथभुत	१६५०	६	"
७	१००	रामिभित्र	अथम भा	१७७०	७	"
८	८७	शीप्रभ	शिक्षार्थ	१०१०	१०	"
९	६५	भक्तिराय	ध्यान	८८०	१	"
१०	८७	गणोमित्र	रथमित्र	८५०	२	"
११	७६	पन्निगु	भरलीमित्र	८००	३	"
१२	७८	गलामित्र	ददमित्र	४६५	४	"

१३	६४	शक्तिमह	संगतिमित्र	५१०	७	”
१४	१०८	विजयानन्द	श्रीधर	५६२	५	”
१५	१०३	सुसंगल	भागध	६६५	६	कोटिशत
१६	१०७	धर्मशिख	अभर	७१०	५	”
१७	१०४	ज्योत्स्ना	देवतीमित्र	६५५	६	”
१८	११५	सुरदिन	सत्पति	४६०	६	”
१९	१३३	वैशाख	सुरमित्र	३५६	१	”
२०	१००	कौशिक्य	देवगुमित्र	४०८	४	”
२१	६५	श्रीभाथुर	इत्याद्युमित्र	५७२	३	”
२२	६६	वसिष्ठपुत्र	देवमित्र	५६०	५	”
२३	४०	श्रीदत्त	दुग्धसहस्ररि	४४०	११	”
	२००४					

मतान्तर—वर्ष आलशे-२-१३४६ । ३-१६६४-१२६४ १४६४ । १६-३१५ । २०-४८६ ।

॥ श्रीआत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मण-सूरीश्वरेभ्यो नमः ॥
 -ॐ- श्रुतस्थविराचार्यदेव-श्रीजिनसुंदरसूरीश्वरविरचितः -ॐ-

ॐ श्रीदीपालिका-कल्पः ॐ



श्रीचर्धमान-माङ्गल्य-ग्रदीपः पीतरद्युतिः । देयादतुल्यकल्याण-विलासं विपुलं सताम् ॥ १ ॥ श्रीवर्धमानतीर्थेश-
 कल्याणकमहोत्सवम् । वक्ष्ये दीपालिकाकल्पं पुण्यलक्ष्मीफलद्रुमम् ॥ २ ॥ स्वश्रिया स्वर्गजयिनी नाभ्रास्त्युज्जयिनी पुरी ।
 'सप्रतिभूपतिस्तत्र प्रतापतपनोपमः ॥ ३ ॥ तस्यामार्यसुहृत्स्याहाः द्वयो गुणभूरयः । जीवतः स्वामिनो मूर्तिं ननुं वीरविभो-
 र्गताः ॥ ४ ॥ जिनेश्वरययात्रार्थ-मन्यदा तत्र द्वयः । सहाजनेन संघेन प्रस्थिता राजवर्त्मनि ॥ ५ ॥ सूरीनालोक्य सजात-
 ज्ञातिस्मृतिरिलापतिः । आगत्य संमतिर्नत्वा मक्या चेति व्यजिज्ञपत् ॥ ६ ॥ युयं जानीथ मा फूल्या इत्युक्ते क्षितिपेन ते ।
 वदन्ति स्म गुरुचसाः कस्त्वा वेत्ति न संमते ! ॥ ७ ॥ पृच्छामि ज्ञानपारीणा ! विशेषेणोपलक्षणम् । इति राज्ञोदिते ज्ञात्वा श्रुतेन

१-धेपिइपदे-श्लेषिक, सप्तदे-उवाई, सप्तदे-नवर्नदा, सप्तदे-चग्नगुप्त, सप्तदे-विन्दुसार, सप्तदे-अशोकश्री, सप्तदे-दुणाल-नदनः संमति ।

२-सुरिभि धुलोपयोगेन ज्ञात्वा बोधवान्, दे समते ! पूर्वमेवे सोपारके दुर्भिक्षे द्रमको रक्ष इत्यपुन सप्तदेन-उमुक्षिमे मम शिष्याणां विविधां शिक्षां दीपमानो वीक्ष्य उपासयद्गुरे मिच्छां प्रायंयत् वक्ति, अहो गुरो ! सप्तदेन यावत् धुनुक्षिलोऽहम् ।

सूरयोऽभ्यधुः ॥ ८ ॥ शिष्योऽस्माकं सुसंवेगो भूप ! पूर्वभवेऽभवः । दक्षदीक्षानुभावेन त्वमभूत्र भूपतिः ॥ ९ ॥ एवं गुरुक्त-
 माकर्ण्य स्वकर्णाभ्यां सकर्णधीः । ह्यरीन्भूरीकृतपीति-ह्वाच वचनं नृपः ॥ १० ॥ द्रमकेण वराकेण मया राज्यमिदं मुने ।
 भवदीयप्रसादेनाऽप पापेतरालमना ॥ ११ ॥ राज्यं तदिह गृहीध्व-मनुगृहीत मां विभो ! । इत्युदन्तं वदन्तं तमाचार्या
 नृपमूर्चिरे ॥ १२ ॥ नेच्छामः स्वच्छधि ! राज्यं वयं देहेऽपि निस्पृहाः । पुण्यादाप्तं यतो राज्यं तत्पुण्ये प्रवणो भव ॥ १३ ॥ सम्यक्त्वं
 निर्मलं धार्य पूजनीया जिनेश्वराः । सेव्याः सुसाधवः कार्यो धर्मो दानादिकः सदा ॥ १४ ॥ धर्मश्चैप विशेषेण कर्तव्यः सर्वपर्वसु ।
 एवं गुरुदिते ग्राह संप्रतिजात-संशयः ॥ १५ ॥ वार्षिकादीनि पर्वाणि विख्यातानि जिनागमे । ख्यातं दीपालिकापर्व-लोके लोको-
 तरे कुतः ? ॥ १६ ॥ चींघराणि वराणीह भूषणानि जनः कुतः । परिधत्ते विभूष्यन्ते पशुगेहद्रुमादयः ॥ १७ ॥ ह्यरयोऽथ वदन्ति
 स दीपालिपर्वं विश्रुतम् । जज्ञे येन प्रवन्देन शृणु तद्वरणीधव ! ॥ १८ ॥ श्रीवीरः प्राणतस्वर्ग-पुण्योत्तरविमानतः । च्युत्याऽऽयाढे
 सिते पक्षे पथ्यां हस्तोत्तरोडुनि ॥ १९ ॥ कुण्डग्रामेश-सिद्धार्थ-त्रिशला-कुशिकंदरे । उत्पेदे त्रिशलादेवी स्वमानेतान्व्यलोक-
 यत् ॥ २० ॥ गुग्मम् ॥ 'सिंहो-गजो-वृषः-श्रीः-सैक-शंशी-भानु-ध्वजो-धंष्टः । संरो-''-ऽभोधि-''-विमानं-च रत्नौघो-''-ऽग्निरिति
 क्रमात् ॥ २१ ॥ एवं चतुर्दशसमह्यचितस्य जिनेशितुः । चैत्रमासे त्रयोदश्यां जन्म पक्षे सितेऽजनि ॥ २२ ॥ जिनेशजन्म विज्ञायाऽ-
 वधिज्ञानेन तोषतः । समग्रदिक्कुमारीभिर्जन्मकृत्यानि चक्रिरे ॥ २३ ॥ अवधिज्ञानतो ज्ञात्वा विदधे विदुधाधिपैः । कल्याणाचल-

१२-विमानं-देवसम्बन्धि, भवनं-गृहं, तत्र यः स्वर्गादवतरति तन्माता विमानं पश्यति, यस्तु नरकावायाति तन्माता भवनमिति द्वयोरैकतर-
 दर्शनात्तुर्दशैव स्वप्ताः ।

चूलायां जन्मलात्रोत्सवः प्रभोः ॥ २४ ॥ यथार्थं पितरौ राज्य-लक्ष्मीभोगादिवृद्धितः । नामधेयं विधत्तः स वर्द्धमान इति प्रभोः ॥ २५ ॥ अनन्तसच्चरीरत्व-चमस्कृतर्बलद्विषा । अवर्धत विभुर्दत्त-महावीरापराह्वयः ॥ २६ ॥ भोगयोग्यं विभु मत्वा पिता-
 मुदितमानसः । राजकन्या यशोमत्या पाणिग्रहमचीकृत ॥ २७ ॥ सुपार्वकः पितृव्योऽधू-दग्रजो नन्दिवर्द्धनः । स्वसा सुद-
 र्शना जज्ञे पत्नीत्वे तु यशोमती ॥ २८ ॥ म्रियदर्शनया साकं कुटुम्बं सुतयाऽभगन् । वीरस्य वसतो वेगम-न्यष्टात्रिंशतिर्वत्सराः ॥ २९ ॥ ध्रुलोक प्राप्तयोः पित्रोः संपूर्णाऽभिग्रहः प्रभुः । नदिवर्द्धनभूपेन स्थापितो वत्सरद्वयम् ॥ ३० ॥ तीर्थं प्रवर्तयेत्युक्तस्तन-
 'लोकान्तिकामरैः । दानं प्रवर्तयामास यावत्संवत्सरं प्रभुः ॥ ३१ ॥ तप्तपृष्ठपा देव-कृतनिक्रमणोत्सवः । ज्ञातखडवने प्राप-
 शिवीचन्द्रप्रभाश्रितः ॥ ३२ ॥ मार्गशीर्षेऽसिते स्वामी तपसा दशमी तिथौ । तुर्ययामेऽग्नीदहृच्चतुर्थज्ञानमाप च ॥ ३३ ॥
 कोल्लागाह्वरग्रामे द्वितीयदिवसेऽजनि । वीरस्य वैहुलानासे परमात्मेन पारणम् ॥ ३४ ॥ गोपाल-कौशिक-शूलपाणि-संगमकामरैः ।
 नैकथा क्षोभ्यमाणोऽपि न ध्यानात्प्रसुरह्युत्त ॥ ३५ ॥ एवं च तप्यमानस्य तपो वीरस्य दुस्तपम् । पक्षाधिकानि सार्द्धानि वर्षाणि
 द्वादशान्यगुः ॥ ३६ ॥ उपर्जुवालिकातीरे श्यामाकस्य कुटुम्बिनः । अवशालतरोः क्षेत्र-सीम्नि वीरजिनेशितुः ॥ ३७ ॥ गोदोहि-
 कासनस्यस्य पृष्ठभक्ततपस्विनः । वशाखशुक्लदशम्यां घातिकर्मक्षये सति ॥ ३८ ॥ केवलज्ञानमुत्पन्न शान्तरथयमण्डितम् । समवसरणं

१-शम्भेण । २-समरवीराराजपुत्री । ३-पांचमां प्रह्लादेवलोकमां वसता लोकात्पिक देवो होय छे, कने जेओ नव प्रकारना होय छे-१-सारस्वत
 २-आदित्य, ३-वह्नि, ४-वसु, ५-गर्दतोयक, ६-तुषित, ७-अग्न्यावाध, ८-अग्नेय, कने ९-रिष्ट । ४-सूर्योदययी मध्याह्न पर्यंत प्रतिदिन-पूक कोड
 भाठ लासुं (कने एक वर्ष सुधीमां ग्रण भवज भख्यासी कोड कने पेंदी लाख सांवत्सरिक) दान सुवर्णतु, कने अन्य हाथी-घोडा-रथ-वस्त्र आदि शुद्धा
 समजया । ५-बहुल प्राक्षणगृहे । ६-क्षरिण ।

तस्य चक्रुः शक्रादयः सुराः ॥ ३९ ॥ इन्द्रभूति १ रश्मिभूति २ वायुभूति ३ अश्विभूति ४ सुधर्मा ५ मण्डित-मौर्यपुत्रा
 ६-७ वक्रपितः ८ ॥ ४० ॥ अचलभ्राता ९ मेतार्यः १० प्रभासश्च ११ पृथक्कुलाः । एकादशैते वीरस्य जज्ञिरे गणनायकाः ॥ ४१ ॥
 यतीनां जज्ञिरे नेतुः सहस्राणि चतुर्दश । चन्दनाद्याश्च पट्टत्रिंशत्सहस्राणि तपोधनाः ॥ ४२ ॥ लक्षमेकोनपष्टिश्च श्रावकाः
 शतक्रादयः । अष्टादश सहस्राणि लक्षास्तिस्र उपासिकाः ॥ ४३ ॥ चतुर्मासकसंख्याऽभू-द्रतादेवं जिनेशितुः । तदाद्यममस्थिके
 १ त्रीण्या ३ (४) संश्रम्पापृष्ठचम्पयोः ॥ ४४ ॥ वाणिज्यग्राम-वैशाली-निश्रया द्वादशाऽभवन १२ (१६) । राजगृहस्य
 नालंदा-पाटके च चतुर्दश १४ (३०) ॥ ४५ ॥ षडभूवन ६ (३६) मिथिलायां भद्रिकायां द्वयं २ (३८) पुनः एक १
 (३९) मालंभिकापूर्वा-मेकं १ (४०) प्रैणीतशुव्यभूत् ॥ ४६ ॥ श्रावस्त्यामेक १ (४१) मेकं १ (४२) तु पापापुर्यां जिने-
 शितुः । हस्तिपाल-नरेशस्य संजातं रज्जुसंसदि ॥ ४७ ॥ चतुर्मासां तदा तस्यां स्वायुः खल्यं विशुर्विदन् । लोकानुकम्पया धर्म
 पोडंश प्रहरान् जगौ ॥ ४८ ॥ पुण्यपालस्तदा नन्तुं भूपः प्राप्तो व्यजिज्ञपत् । अष्टौ दृष्टा मया स्वप्ना नाथ तेषामयं क्रमः ॥ ४९ ॥
 जीर्णशालारतो हस्ती कपिश्रापल्यकारकः । क्षीरदुः कंटकैर्व्याप्तो न काका दीर्घिका प्रियाः ॥ ५० ॥ शव-सिंहः पराधृष्यः

१-१४००० । २-३६००० । ३-१५९००० । ४-३१८००० । अन्ये-चतुर्दशपूर्विणां-३०० । अवधिज्ञातिनां-१३००, मोक्षकेवलिनोः-७००,
 वैक्रियाणां-७००, विपुलमतीनां-५००, वादिनां-४०० अनुत्तरोपपातिनां-८०० । ५-अनार्यदेशे । ६-कारकुनसभा इति-लोके । ७-प्रभुः पोट्टशप्रहरदेशान
 द्वदौ, त्रयोदशीमध्यरात्रितः मारब्धः, त्रयोदशीदिवसस्य प्रहरद्वयं, चतुर्दशीदिवसस्य प्रहराष्टकं, अमावास्यायाः प्रहरपट्टं पृते पोट्टशप्रहराः । अमावास्यादिने
 पुण्यपालः सामन्त-दृपो नन्तुं स्वामिनं समागतः, पृष्टवान् हे स्वामिन्, कथं मया रात्रि-दृषीयप्रहरति भट्टो स्वप्ना दृष्टाः, सिद्धा च मे गता, तेषामयं क्रमः ॥

पद्मोत्पत्तिरनास्पदे । ऊपरे श्रीजयापथ हेमकुंभा मलाविलाः ॥ ५१ ॥ तदेया फलमाख्याहि ज्ञानज्ञातजगत्रयः । बीरो राज्ञेति
 विज्ञतो भावि तत्फलमादिशत् ॥ ५२ ॥ दुःखदर्शित्यदीनत्व-पीडारोगभयाश्रयः । जीर्णशालासमो भावी समयेन गृहाश्रमः ॥ ५३ ॥
 गृही गजो रत्नत्रय दुःखेऽपि नादरिष्यति । त्रतशाला सुखासेव्यामादृतामपि मोक्षयति ॥ ५४ ॥ कपिवच्चपलात्मान-स्तुच्छसत्सया
 र्जनाश्रवाः । यतयो भाविनो ज्ञान-क्रियासु शिथिलादराः ॥ ५५ ॥ धर्मकृत्येषु ये शिक्षा प्रदास्यन्ति दृढव्रताः । ते तानुपहसिष्यन्ति
 ग्राम्या ग्रामस्थपारवत् ॥ ५६ ॥ सम्यग्ज्ञानक्रियामक्ताः शासनस्य प्रभावकाः । सप्तक्षेत्रेषु दातारः सचारित्रयतिप्रियाः ॥ ५७ ॥
 क्षीरदृक्षसमाः श्राद्धाः लिङ्निर्भिवञ्चनारैः । वन्दूलुल्यै रोत्स्यन्ते सर्वतोऽनुच्छमत्सरैः ॥ ५८ ॥ युग्मम् ॥ लिङ्गिनो न सहिष्यन्ते
 महत्तमनगारिणाम् । उपास्ति वारयिष्यन्ति रोत्स्यन्ति क्षेत्रपद्धतिम् ॥ ५९ ॥ अनुच्छस्वच्छतोयाया दीर्घिकायामिव द्विकाः । गच्छे
 ज्ञानक्रियायुक्ते न स्यास्यन्ति तपोधनाः ॥ ६० ॥ ततस्ते परगच्छेषु श्रयाचारेषु सस्पृहाः । यास्यन्ति पण्डितमन्या मूढा धर्मार्थि-
 नोऽपि हि ॥ ६१ ॥ न युक्तं भवतामेवं विधानमिति 'नोदिताः । साधुभिर्धर्मयिष्यन्ति रुष्टा दुष्टाशया जडाः ॥ ६२ ॥ जातिस्मृति-
 तपोलब्धि-ज्ञानातिशयवर्जितम् । निष्प्रभावं मतं सर्वं भावि सिंहशवोपमम् ॥ ६३ ॥ प्राक् प्रभावानुभावेन श्यापदाभाः कुलीर्थिकाः ।
 एतत्परा भविष्यन्ति न जालु कृततुद्वयः ॥ ६४ ॥ किन्तु मध्ये समुत्पन्ना नानामतप्ररूपणैः । भेत्स्यन्ति भिक्षवः श्वैव-त्सिहस्यसफलं
 हृदः ॥ ६५ ॥ पद्माकरेषु पद्माना युक्तोत्पत्तिर्यथा तथा । धार्मिकाणामपि प्रौढ-कुलोत्पत्तिः प्रशस्यते ॥ ६६ ॥ पर कालानुभावेन
 भाविनस्तेऽवमे कुले । अग्राहवचसो हीन-गोत्रत्वेन विगर्हिताः ॥ ६७ ॥ यथा कौऽप्युपरक्षेत्रे सुग्धतुद्धिः कृपीवलः । धान्ययीजानि

१-शाक्यनकारिण । २-शेरिका । ३-द्वैपयिष्यन्ति । ४-सर्वशम् । ५-पण्डिता । ६-क्षेत्रम् ।

वावसि शस्यसंपत्तिहेतवे ॥ ६८ ॥ तथा मूढधियो लोकाः पात्रापात्रापरीक्षकाः । अपात्रेषु प्रदास्यन्ति पात्रबुद्ध्या धनं मुदा ॥ ६९ ॥
 प्रायः ग्रीतिरपात्रेषु दानबुद्धिश्च भाविनी । साधूनुपहसिष्यन्ति भिक्षादोषविवर्जकान् ॥ ७० ॥ ज्ञानादिगुणमाणिक्य-पूर्णाः स्वर्णघटो-
 पमाः । भाविनः साधवः स्वल्पाः कालुष्याऽदूषिताशयाः ॥ ७१ ॥ श्लथज्ञानक्रियाऽऽचाराः कलशा मलिना इव । स्थाने स्थाने भवि-
 ष्यन्ति बहवो लिङ्गिनः पुनः ॥ ७२ ॥ कलहं ते करिष्यन्ति मत्सरेण महर्षिभिः । उभयेपामपि तेषां साम्यं लोके भविष्यति ॥ ७३ ॥
 साम्येन व्यवहर्तारो गीतार्था लिङ्गिभिः समम् । जलेन ग्रथिलेनेवाऽ—ग्रहिलो ग्रहिलो जनः ॥ ७४ ॥ तथाहि पृथिवीपुट्यर्था
 पूर्णो नाम महीपतिः । सुबुद्धिस्तस्य चामाल्यो निधानं बुद्धिसंपदः ॥ ७५ ॥ कालं तेनागमिष्यन्तं पृष्टोऽन्येद्युः सुबुद्धिना ।
 लोकदेव इति ख्यातो नैमित्तिकवरोऽवदत् ॥ ७६ ॥ मासादनन्तरं मेघा वर्षिता तज्जलं जनः । यः पास्यति स सर्वोऽपि ग्रहग्रस्तो
 भविष्यति ॥ ७७ ॥ कियत्यपि गते काले सुबुद्धिर्भाविनी पुनः । सद्यः सजीभविष्यन्ति तत्पयःपानतो जनाः ॥ ७८ ॥ राज्ञो मन्त्री
 तदाचख्यौ भेरीताडनपूर्वकम् । जनानां भूपतिर्वारि-संग्रहार्थमथादिशत् ॥ ७९ ॥ जनः सर्वस्तथा चक्रे वर्षोक्तदिनेऽम्बुदः ।
 कियत्यपि गते काले संगृहीताम्बु निष्ठितम् ॥ ८० ॥ अक्षीणसंगृहीताम्बु-राजामाल्यौ विना परे । सामन्ताद्याः पपुर्नव्यं वारि वैकल्य-
 कारकम् ॥ ८१ ॥ तत्पीत्वा ग्रथिलाः सर्वे ननुर्जहसुर्जगुः । खैरं विचेष्टिरे मुग्धा विना तौ राजमन्त्रिणौ ॥ ८२ ॥ राजामाल्यौ
 विसदृशौ सामन्ताद्या निरीक्ष्य ते । मंत्रयांचकिरे नूनं ग्रथिलौ राजमन्त्रिणौ ॥ ८३ ॥ अस्मद्विलक्षणाऽऽचारा-विमकावपसार्यं तत् ।
 अपरौ स्थापयिष्यामः खोचितौ राजमन्त्रिणौ ॥ ८४ ॥ मन्त्री ज्ञात्वेति तन्मन्त्रं नृपायाख्यज्जगद सः । आत्मरक्षा कथं कार्या तेभ्यो

ईदं हि राजवत् ॥ ८५ ॥ मञ्जुचे ग्रहिलीभूय स्यात्ब्यं ग्रहिलैः सह । प्राणोपायो न कोऽप्यन् ईदं हि समयोचितम् ॥ ८६ ॥
 कृत्रिमं ग्रहिलीभूय ततस्तौ राजमन्त्रिणौ । तेषां मध्ये वृताते रक्षन्तौ निजसम्पदौ ॥ ८७ ॥ ततः सुसमये जाते शुभदृष्टौ नवोदके ।
 पीते सर्वेऽभवन् स्वस्था मूलप्रकृतिघारिणः ॥ ८८ ॥ एवं च दुष्यमाकाले गीतार्था लिङ्गिभिः सह । सद्यशीभूय वर्त्यन्ति भाविसुसमये-
 च्छनः ॥ ८९ ॥ एव स्वप्नफलं श्रुत्वा गृहवासे विरागवान् । स्वाम्यन्ते व्रतमादाय पुण्यपालो गतो दिवम् ॥ ९० ॥ श्रुत्वा विस्मित-
 खान्तः स्वामिन गौतमप्रभुः । भाविस्वरूप पप्रच्छ केवलाऽलोकमास्तरम् ॥ ९१ ॥ स्वाम्याह मम निर्वाणा-त्पंचमारोऽत्र
 गौतम । एकोनवतिपक्षे-ष्वतीतेषु ८९ लगिष्यति ॥ ९२ ॥ वर्षैर्द्वादशभिर्मुक्तिं गौतमो मम निर्दतेः । सुधर्माऽपि तथा गन्ता
 शिव विश्रितवत्सरैः ॥ ९३ ॥ तथा वर्षैश्चतुष्यस्या जम्बूसुक्तिं गमिष्यति । भावी दशानामर्थानां विच्छेदोऽत्र ततो यथा ॥ ९४ ॥
 आहारक-मनोज्ञाने-पुलाकः-परमानधिः । क्षपको-पशुमश्रेण्यौ-केनल संयमत्रिकम् ॥ ९५ ॥ सिद्धिगति-जिनकल्पो जम्बूनाम्ना समं
 तदा । सह विच्छेदमेव्यन्ति दुष्यमाद्भानुभानतः ॥ ९६ ॥ युगम् ॥ चतुर्दशपूर्वधारी तस्य पट्टे प्रभावकः । जम्बूप्रवोधिः शिष्यो भविता
 प्रभवप्रभुः ॥ ९७ ॥ सद्यं भवस्तु तत्पट्टे भविता द्वादशांगमृत । दशैकालिकोद्धारी यशोभद्रश्च पूर्वमृत ॥ ९८ ॥ संभृति-
 भद्रयाद्दृश्य तच्छिष्यौ सर्वपूर्विणौ । निर्दतेर्मम सप्तसाधिके वर्षशते १७० गते ॥ ९९ ॥ भद्रवाहुर्वहुग्रन्थ-कर्ता स्वर्गं गमि-
 ष्यति । स्थूलभद्रोऽथ संभृते-र्नियः सर्वपूर्वमृत ॥ १०० ॥ मोक्षतो मे पंचदशा-धिके वर्षे शतद्वये २१५ । व्यतीते त्रिदिवं प्राप्ते
 स्थूलभद्रमुनीश्वरे ॥ १०१ ॥ प्राक् संहननसंस्थाने पूर्वार्थकथन तथा । ध्यानं स्रष्टुम महाप्राण यास्यन्ति युगपत्क्षयम् ॥ १०२ ॥ युगम् ॥

वैश्वत्तरशीत्यभ्य-धिकैः पंचशतैर्गतैः ५८४ । व्युच्छेत्सन्ते गते वज्रे दशपूर्वर्द्धकीलिके ॥ १०३ ॥ वर्षणोडशभिर्युक्तैः पट्टशतैः ६१६ पुण्यमित्रकः । साद्धाणि नवपूर्वाणि यास्यन्ति विलयं पुनः ॥ १०४ ॥ पद्भिर्यशतैर्विश-त्यधिकै ६२० मम मोक्षतः । ग्राममध्ये विधास्यन्ति वसतिं चाऽऽर्यसूर्यः ॥ १०५ ॥ नवोत्तरैः शतैः पद्भिर्यशतैर्विश-त्यधिकैः ६०९ दिगम्बराः । पावण्डिनो भविष्यन्ति रथवीरपुरे ॥ १०६ ॥ दिनतो मम मोक्षस्य गते वर्षशतत्रये ३०० । उज्जयिन्यां महापुर्यां भावी संप्रतिभूपतिः ॥ १०७ ॥ श्रीमदार्यसुहस्त्याह्व-सूरीणामुपदेशतः । जातिस्मरणमासाद्य जैनधर्मं विधास्यति ॥ १०८ ॥ दोर्दण्डमण्डलाक्रान्त-त्रिखण्डक्षोणिमण्डलः । ज्ञाता-दाता-नयी-धर्मी-विनयी-सपराक्रमी ॥ १०९ ॥ मुक्ताहारैरिव श्वेत-विहारैरर्हतां वरैः । महीं महीयसीमेतामखण्डां मण्डयिष्यति ॥ ११० ॥ युग्मम् ॥ स नृपोऽनार्यदेशेषु लोकोपकारहेतवे । सम्यक्तपोपासकाचार-शिक्षादक्षैर्विचक्षणैः ॥ १११ ॥ जिनागमविचारज्ञै-रुपदेशविशारदैः । प्रहितैः सेवकैर्लोकान् श्रावकान् कारयिष्यति ॥ ११२ ॥ युग्मम् ॥ प्रतिबोधविधानार्थं नृणां तत्र पवित्रधीः । गीतार्थानां विहारं स गुरुभिः कारयिष्यति ॥ ११३ ॥ एवं जिनोदितं धर्मं सर्वदेशेषु शक्तिः । प्रवर्यं दृढधर्मास्थक्रमेण त्रिदिवं गमी ॥ ११४ ॥ मोक्षतो मम सप्तत्या युते वर्षचतुश्शते ४७० । व्यतीते विक्रमादित्य उज्जयिन्यां भविष्यति ॥ ११५ ॥ श्रीसिद्धसेनसूरीणा-मुपदेशं निशम्य सः । सर्वज्ञशराने भक्त्या प्राप्तसम्यक्तचनिश्चयः ॥ ११६ ॥ सत्त्व-सिद्धाग्निवेताल-प्रमुखानेकदेवतः । विद्यासिद्धो-मंत्रसिद्धः-सिद्धसौवर्णपूरुषः ॥ ११७ ॥ धैर्यादि-गुणविख्यातः स्थाने स्थाने नरामरैः । परीक्षाकफपापाण-निघृष्टसत्त्वकांचनः ॥ ११८ ॥ ससन्मानैः श्रियां दानै-रनृणामखिलामिलाम् । कृत्वा संवत्सरं स्वस्य वर्तयिष्यति भूतले ॥ ११९ ॥ चतुर्भिः कलापकम् ॥ गीर्वाणगणकुल्याध्वा ध्वजीभूतगुणव्रजः । पालयिता नयोपेतः प्राप्तपापरजाः प्रजाः ॥ १२० ॥ पंचत्रिंशद्युते

तस्मा-द्वत्सराणा शते १३५ गते । वर्तयिष्यत्युज्जयिन्या शकः सवत्सर निर्जं ॥ १२१ ॥ शुग्मम् ॥ पंचाशीत्या समधिकै-र्वर्षाणां
 पंचभिः शतैः ५८५ । विक्रमानेहसः क्षरि-रिभद्रो भविष्यति ॥ १२२ ॥ मत्तोऽधिकैस्त्रिनवत्या नववर्षशतैर्गतैः ९९३ । सूरयः
 कालिकाह्वया माविनः शक्र-वन्दिताः ॥ १२३ ॥ ते श्रीपर्युपणापर्व चतुर्थ्यां पंचमीदिनात् । सर्वाचार्यानुमत्यैव समाने-
 व्यन्ति हेतुतः ॥ १२४ ॥ द्वादशशतैर्वर्षाणा सप्ततौ १२७० मम मोक्षतः । यत्पमट्टिगुरुर्भावी सर्वविद्याविशारदः ॥ १२५ ॥
 तद्वाक्यादाऽऽमराजा मे प्रतिमा गौपर्वते । कारयिष्यति सौर्द्ध-त्रिकोटिस्वर्णमयीं युदा ॥ १२६ ॥ त्रयोदशशतै १३०० वर्षै-
 प्रयातैर्मम मोक्षतः । मत्तभेदा भविष्यन्ति बहवो मोहेहतवः ॥ १२७ ॥ विक्रमानेहसो जाते-ज्वेकादशशतेऽप्यथ ११५९ । एकोन-
 पृथधिकेषु राकापक्षो भविष्यति ॥ १२८ ॥ वत्सरैर्द्वादशशतै-श्चतुर्भिरधिकैर्गतैः १२०४ । भावी विक्रमतो गच्छः ख्यातः खरत-
 राख्यया ॥ १२९ ॥ शरच्छतैर्द्वादशभि-र्गतैस्त्रयोदशोत्तरैः १२१३ । राकापक्षात्पृथग्भूतोऽंचलपक्षो भविष्यति ॥ १३० ॥ पट्ट-
 त्रिंशदधिकैर्षे-र्गतैर्द्वादशभिः शतैः १२३६ । सौर्द्धराकाभिधो गच्छो महाशयो भविष्यति ॥ १३१ ॥ पंचाशताधिकैर्षे-र्गतैर्द्वा-
 दशभिः शतैः १२५० । विक्रमानेहसो भावी गच्छ आगमसंज्ञकः ॥ १३२ ॥ नैकधामतमेदेन दुष्यमाद्बालुभावतः । चतुरशीति-
 संरथेया गणभेदा हि माविनः ॥ १३३ ॥ केचित्तयोगैरविताः केऽपि धर्मक्रियाश्रयाः । क्रियावन्तो भविष्यन्ति परस्परसम-

१-मत्तो-मम तिवाणात् (विरनिर्वाणात्) । २-ग्यालियरले विषे । ३-साढा त्रण क्रोड सुवण खर्चं थाय तेवी एक प्रतिमा । ४-दोढ पुनमीओ-सृणिमा
 भने चतुर्दशी सधी माय । ५-साढ पुनमीया नामे गच्छ थरो । ६-त्रिस्तुतिक । ७-चतुरशीति-१-नागेन्द्र, २-चन्द्र, ३-निर्दृष्टि, ४-विष्वाधर आ नामना
 चार आचार्यं थाय, ते मध्ये एक एक आचार्यना एकवीश गच्छ नीकळरो पूर्व ८४ गच्छ थाय,

त्सराः ॥ १३४ ॥ हुंढायामवसर्पिण्या-मेतस्यामभवन् दश । तीर्थकरोपसर्गादी-न्याश्रयार्थाणिह तद्यथा ॥ १३५ ॥ उर्वसगा-गंढमह-
रणं-ईत्थीतिथ्यं-अंभाविद्या परिसा । केणहस्स अवरकंका अवयरणं चंदह्वराणं ॥ १३६ ॥ हंरिवंसकुलुप्पत्ती चंमरुष्पाओ अ अंडुसय-
सिद्धा । अंस्संजयाण पूआ दसविहा णंतेण कालेण ॥ १३७ ॥ कपायवहुला लोका दुष्पमायामतः परम् । भाविनस्यत्कमर्यादा
नपथर्मधियो जडाः ॥ १३८ ॥ कालेन हीयमानेन कुतीर्थमतिमोहिताः । परोपकारसत्यादि-वर्जिता भाविनो जनाः ॥ १३९ ॥
पुराणि ग्रामरूपाणि ग्रामाः प्रेतवनोपमाः । यमदण्डसमा भूपा महेभ्या भृत्यसन्निभाः ॥ १४० ॥ न दृश्या भाविनो देवा न जातिस-
रणं नृणाम् । जना विगतमर्यादाः क्षुद्रसत्त्वाकुलाचलाः ॥ १४१ ॥ परविघ्नेन संतुष्टाः पापारंभे चतुर्भुजाः । निजाथेन जनोऽन्येषां
नखमध्ये प्रवेशकः ॥ १४२ ॥ प्रमादी पुण्यकृत्येषु परतृप्तिषु तत्परः । वंचनाचतुरस्तुच्छः प्रचण्डो दीर्घरोपणः ॥ १४३ ॥ लोभी
मिथ्याभिमानी च राजद्वीं पौदमोचकः । पाखण्डिनो भविष्यन्ति बहवो विप्रतारकाः ॥ १४४ ॥ धूर्त्वाः पापकरा मूर्त्वाः स्फुरिष्यन्ति
पदे पदे । त्रपात्यक्ताऽपमर्यादा वेश्यावत्कुलयोपितः ॥ १४५ ॥ भूपा भृत्याञ्जनान् भृत्या लोकास्तान् द्वितयानपि । भ्रोक्ष्यन्तीह
महीपीठे मत्स्यधर्मः प्रवर्त्यति ॥ १४६ ॥ चौराश्रयैर्विधानेन करैर्भूमिथाराः पुनः । जनं दरिद्रयिष्यन्ति बह्वयोऽपि प्रदीपनैः
॥ १४७ ॥ बधो धेन्वादिजन्तूनां पातनं देवसन्नानां । मर्त्यगुण्डकरो दण्डो भाव्येवं दुःखितो जनः ॥ १४८ ॥ दुर्भिक्षैर्दमरैर्दोःस्थै-
रसौम्यैर्जनमारिभिः । भाविनी मेदिनी शून्या देशभंगादिविप्लवैः ॥ १४९ ॥ प्रेतलोकासमाः श्रेण्यो लञ्चालुब्धानियोगिनः । अवि

१-मति-मत । २-क्षुद्रसत्त्वते करी आकुलचित्तना धणी । ३-राजद्वारसेवी । ४-मच्छगलागलन्याय-दृष्टन्मच्छो-कथोगिलति, लघु-लंघुतरस्य,
लघुतरो-लघुतमस्येत्यादि । ५-कुटुंबीलोक्ती श्रेणी ।

देवी जतो मूर्धो निष्कलो निर्दिनो रुजी ॥ १५० ॥ दासिध्रधन्त्वो दातारः सधनाः कृपणाः पुनः । पापात्मानधिरायुक्ताः कृतिन-
 खल्पजीविनः ॥ १५१ ॥ अहलीना महीपालाः कुलीना नृपसेवकाः । दुःखिनो माविनः सन्तो दुर्जनाः सुखिनः पुनः ॥ १५२ ॥
 एव च दुष्णमाकाले स्वरूपं लौकिका अपि । व्याहरन्ति कलिद्युगे व्यपदेशेन तद्यथा ॥ १५३ ॥ द्वापरराख्ययुगे जज्ञे युधिष्ठिरमही-
 पतिः । राजपाठ्यान्वदा सोऽय जगाम विपिने क्वचित् ॥ १५४ ॥ तत्राऽधोभूय वत्सायाः स्तन्यपानं वितन्वतीम् । गां निरीक्ष्य
 द्विजाः पृष्टा राज्ञा किमिदमद्भुतम् ॥ १५५ ॥ तैर्विज्ञायोदितं राज-ज्ञागामिनि कलौ युगे । हीनसन्नाः श्रिया दुःश्या मातरः पितर-
 स्त्वथा ॥ १५६ ॥ कस्यापि धनिनः कन्या दत्त्वा लोत्वा ततो धनम् । त्वक्षन्ति निर्माहीतिजं गोमन्माधीतिजं फलम् ॥ १५७ ॥
 ततोऽग्रतो गतेनाऽथ युधिष्ठिरमहीसुजा । समथ्रेणिस्यितं दृष्ट जलपूर्णसरस्वयम् ॥ १५८ ॥ तदाकादेकतस्तत्रोत्सुत्य त्यक्त्यान्वरा
 सरः । दृष्टाऽस्वतीपकासारे पतन्तो भ्रूयुतोर्मपः ॥ १५९ ॥ तद्वीक्ष्य विस्रतः ग्राह विप्रान् किमिदमद्भुतम् । ते वियुश्य जगुर्भावि-
 स्वरूप ज्ञापयत्यदः ॥ १६० ॥ यथासन्नं सरस्वत्त्वा दृतीयं वीचयः श्रिताः । निर्जांस्त्यक्त्वा तथाऽन्येषु लोकः प्रीतिं करिष्यति
 ॥ १६१ ॥ नृयेणाऽग्रतेनाऽथ जलाद्रवालुकोत्करैः । मानवैरञ्जनो व्यूता दृष्टा भग्नाः प्रभञ्जनैः ॥ १६२ ॥ निरीक्ष्येदं द्विजाः पृष्टाः
 फलमाहुर्नरा धनम् । कृष्यादिभिर्महाक्लेश-रलिष्यन्ति कलौ युगे ॥ १६३ ॥ तदग्नि-चोर-दायाद-राजदण्ड-करादिभिः । नरैर्य-
 तेन सरक्ष्य-मार्ण क्षिप्रं विनश्यति ॥ १६४ ॥ पुनरग्रे प्रयातेन धर्मपुत्रेण वीक्षितम् । प्रवाहोऽस्तुठित नीर निपतन् कूपकन्दरे ॥ १६५ ॥
 फलं तस्य द्विजैरुच्ये कृष्यादिक्लेशतो नराः । यदर्लिष्यन्ति तद्द्रव्यं ग्रहीष्यन्त्यखिलं नृपाः ॥ १६६ ॥ युगेऽन्येषु राजानो धनं दत्त्वा

१-राज्य वेतलती वाद्यद्वीपी । २-पानज-धात्रीने जीवे तेवु फल । ३-कृषि १, सेवा ३, वाणित्य ३, पशुपाल ४ । ४-कृतनेत्रगुणने विषे ।

निजं बहु । जगतीं ग्रीणयामासु-र्जनतैकान्तवत्सलाः ॥ १६७ ॥ राज्ञा पुनर्गतिनाश्रे सश्रीकश्चम्पकस्तलः । शमीशाखी चैकदेशे
वनमध्ये निरीक्षितौ ॥ १६८ ॥ जनैः शमीतिरोस्तत्र गन्धमाल्यविलेपनम् । मण्डनं गीतनृत्यादि-क्रियमाणं व्यलोक्यत ॥ १६९ ॥
पत्रपुष्पफलाढ्यस्य छत्राकारस्य शाखिनः । अन्यस्यैव न पूजादि-द्विजास्तत्फलमूर्चिरे ॥ १७० ॥ न श्रीः पूजा गुणवतां सजनानां
महात्मनां । पापिष्ठानां खलानां च पूजालक्ष्म्यौ भविष्यतः ॥ १७१ ॥ पुनः शिलैका बालाग्र-लम्बिता नभसि स्थिता । निरीक्षिता
क्षितीशेनाऽऽ-चख्युस्तस्य फलं द्विजाः ॥ १७२ ॥ पापं कलौ शिलाकल्पं खल्पधर्मण भूपते ! । बालाञ्चलम्बतुल्येन जनोऽयं निस्तरी-
ष्यति ॥ १७३ ॥ बालाग्रञ्चुटिते धर्मे ऋडिष्यन्ति जनाः समे । फलार्थं तरुवधस्य तदृष्टस्य फलं त्विदम् ॥ १७४ ॥ पितुर्दृक्षेण तुल्यस्य
फलेन सदृशः सुतः । धनाद्यर्थं वधप्राय-सुद्वेगं जनयिष्यति ॥ १७५ ॥ वर्यान्निपचनार्हायां क्षितीशेन समीक्षितः । लोहमय्यां कट-
द्यां च पाको मांसादिवस्तुनः ॥ १७६ ॥ ग्राहुस्तस्य फलं विप्राः खज्ञातिपरिहारतः । परवर्गे नरेशार्थ-दानं पीतिश्च भाचिनि ॥ १७७ ॥
सर्पसर्पद्विपोः पूजाऽ-पूजे वीक्ष्य फलं त्वदः । निर्दयेष्वप्यधर्मेषु सर्पतुल्येषु सत्कृतिः ॥ १७८ ॥ सुपर्णामेषु पूज्येषु सत्क्रियाधर्मशा-
लिषु । गुणज्ञेष्वप्यसत्कारोऽ-नादरश्च भविष्यति ॥ १७९ ॥ गजबाह्यं खरबाह्यं शकटं यत्समीक्षितम् । फलं तस्येदमुच्चेषु कुलेषु
गजशालिषु ॥ १८० ॥ मर्यादास्यन्दनोद्वाह-योग्येषु कलहोऽनियमम् । नीतिलोपस्तथाऽन्योन्यं मत्सरश्च भविष्यति ॥ १८१ ॥
कुलेष्वन्येषु नीचेषु खरतुल्येषु भूपते ! । मर्यादानीतिधारित्वं खेहोऽन्योऽन्यं भविष्यति ॥ १८२ ॥ खेहभावो बालुकासु त्वया भूप !
विलोकितः । कृपिसेवादिकारम्भा-त्तत्फलं भावि नो धनम् ॥ १८३ ॥ अग्रे गतेन भूपेन काकं हंसैर्निर्पेवितम् । दृष्ट्वा पृष्टैर्द्विजैः

श्रोत्रे तत्फलं भाविष्यत्यरुम् ॥ १८४ ॥ कारुरूप्या महीपालाः प्रायो नीचकुलोद्भवाः । हंसतुल्यैर्जनिः शुद्धैः सेविष्यन्ते कलौ युगे
 ॥ १८५ ॥ अन्यदा पाण्डवाः पच वनवासस्थिताः क्रमात् । युधिष्ठिरेण भीमाद्या निधि रक्षाकृतः कृताः ॥ १८६ ॥ भीमस्य जाप्रतः ।
 पूर्व-यामे सुप्ते युधिष्ठिरे । वन्धुत्रययुतोऽम्भगात् प्रेतरूपधरः कलिः ॥ १८७ ॥ आगत्य तमुवाचाय वन्धून् ते हन्मि पश्यतः ।
 तदाऽऽकर्ण्य क्रुधा भीम-सूद्वधायाम्भधावत ॥ १८८ ॥ विदधानो युधं भीमः क्रुधाऽरुणितलोचनः । लीलया प्रेतरूपेण कलिना
 बलिना जितः ॥ १८९ ॥ युद्धमानो जितस्तेन द्वितीयग्रहरेऽर्जुनः । वृत्तिये नकुलसूदत् सहदेवस्तुरीयके ॥ १९० ॥ ततः सुप्तेषु
 श्रेषु निशाशेषे युधिष्ठिरः । जजागार कलिस्तस्याऽ-प्यूचे प्रेतः समुत्थितः ॥ १९१ ॥ हन्मि ते पश्यतो वन्धू-नित्याऽऽकर्ण्य सक-
 र्णधीः । न युक्तोप न चोवाच ह्या रूधाऽश्चर वचः ॥ १९२ ॥ सर्वाभ्युदयजननीं सर्वसच्चप्रियकरीम् । सारा समग्रधर्मस्य क्षमा-
 मंगीचकार सः ॥ १९३ ॥ तस्योपशममालोक्य कलिः शान्तमनास्ततः । प्रेतरूपं व्यपास्यास्य मुष्टिमञ्चे समागतः ॥ १९४ ॥ उत्थि-
 ताना स्रगन्धूना प्रातस्तेन प्रदर्शितः । वशीभूतः कलिः प्रेतः क्षमाया अनुभावतः ॥ १९५ ॥ इत्याद्यद्योचरशतै १०८-ईष्टान्तैर्लौकिका
 अपि । पुराणादिषु व्याख्यान्ति भावितुर्न्यस्थितियुगम् ॥ १९६ ॥ सुखोपस्थग्रहो नैव न च लज्जा भविष्यति । नाऽरुलङ्कं कुलं भावि-
 सावस्तुषतिः क्षितौ ॥ १९७ ॥ सुते मृते पिता जीवी पितरौ विनयोद्भिताः । सुताः पराभविष्यन्ति श्वश्रुश्चाऽविनयाः लुपाः
 ॥ १९८ ॥ विप्राः शक्यभृतो वेद-पाठपटुर्भवंजिताः । अपूज्या भाविनः पूज्या न पूज्याः पूजनोचिताः ॥ १९९ ॥ गुरुचाराधयि
 व्यन्ति विनेयास्तेषु ते पुनः । हिताचारोपदेशेन प्रदास्यन्ति कथंचन ॥ २०० ॥ मन्त्र-तन्त्रौ-पथ-ज्ञान-रत्न-विद्या-धना-युषाम् ।

१-सुर्य-कलियुग । २-हिताचारोपदेशं न ।


फल-पुष्प-रसादीनां रूप-सौभाग्य-संपदाम् ॥ २०१ ॥ सत्व-संहनन-शाम्नां यशः-कीर्ति-गुण-श्रियाम् । हानिः क्रमेण भावानां भाविनीपंचमारके ॥ २०२ ॥ युगम् ॥ दान-शील-तपो-भाव-रूपधर्मस्य संक्षयः । कुटतुला कूटमानं शाल्यं धर्मेषु भावी च ॥ २०३ ॥ देवत्वं नैव देवेषु सतीत्वं न सतीष्वपि । निःसंज्ञेषु न वैराग्यं निःस्पृहं न तपोऽपि हि ॥ २०४ ॥ सत्यशौचतपः शान्त्यादीनां हानिर्दिने दिने । भूमिः स्वल्पफला मेघा कालेऽप्यल्पजलप्रदाः ॥ २०५ ॥ स्वाम्याख्याति सुसौराष्ट्र-लाट-गुर्जर-सीमनि । क्रमेण नगरं भावि-नाम्नाऽणहिल्लपाटकम् ॥ २०६ ॥ अस्मिन्निर्वाणतो वर्ष-शतानि वत्स ! षोडश १६६९ । नवषट्त्रिंशत्स्यन्ति यदा तत्र पुरे तदा ॥ २०७ ॥ कुमारपाल-भूपालश्चौलुक्यकुलचन्द्रमाः । भविष्यति महाबाहुः प्रचण्डाखण्डशासनः ॥ २०८ ॥ युगम् ॥ पराक्रमेण-धर्मेण-दानेन-दययाऽऽज्ञया । कीर्त्या-गुणानुरागेण-नयेन-विनयेन च ॥ २०९ ॥ विज्ञानेन-विवेकेन-धैर्येण-राज्यलीलया । सोऽद्वितीयो नृपो भावी महासत्वोचितैर्गुणैः ॥ २१० ॥ युगम् ॥ 'कौवेरीमातुरुष्कं स ग्रीचीमा-त्रिदशापगाम् । याम्यामाविन्ध्यमावाद्धि-पथिमां साधयिष्यति ॥ २११ ॥ एकादशशता ११०० नीभा रथास्तस्यायुत १०००० प्रमाः । एकादशहया लक्षाः ११०००० पत्स्यष्टादशलक्षकाः १८०००० ॥ २१२ ॥ सोऽन्यदा वज्रशाखायां मुनिचन्द्रकुलोद्भवम् । श्रीहेमचन्द्रमाचार्यं वन्दिता मेदिनीपतिः ॥ २१३ ॥ निशम्य रम्यश्रीधर्मो-पदेशं तन्मुखानृपः । श्राद्धव्रतानि सम्यक्त्व-सहितानि प्रपत्स्यते ॥ २१४ ॥ अपूजितेषु देवेषु गुरुष्वप्रणतेषु च । न भोक्ष्यते स धर्मज्ञः प्रपन्नोपासकव्रतः ॥ २१५ ॥ प्रतिद्वगं प्रतिग्रामं प्रायेण स प्रभावकः । निर्मास्यति महीमेतां जिनप्रासादमण्डिताम् ॥ २१६ ॥ सैकदा श्रीहेमसूरि-मुखात्तीर्थकथाश्रणे ।

१-तु । २-उत्तमां शीकारस उत्पत्तिस्थान सुधी । ३-पूर्वमां गगा नदी सुधी ।

जीवतः स्वामिनो मूर्तेः सम्बन्धं निशमिष्यति ॥ २१७ ॥ ततो 'वीत'भयस्थाने धूलिदुर्गं खनयन् ॥ नरैराप्तैः प्रतिमां तां स
 प्रादुर्कारयिष्यति ॥ २१८ ॥ प्रतिमा पत्तने नीत्वा प्रासादस्था विधाय सः । मन्यते पुण्यधीर्धरः साक्षाद्बीरजिनेश्वरम् ॥ २१९ ॥
 तदा तस्यै प्रतिमायै यदुदायनभूषुजा । ग्रामाणां शासनं दत्तं तदप्याविर्भविष्यति ॥ २२० ॥ शासनं तादृजं तस्यै सोऽपि भूषः
 प्रदास्यति । वन्दिष्यते च तां नित्यं महापूजापुरस्सरम् ॥ २२१ ॥ सदा स्वदारासंतोषी त्रिधा वर्षाशुशीलयान् । शीलस्य मनसा भङ्गे
 सोपवासं करिष्यति ॥ २२२ ॥ पुरा भरत-नाभाङ्क-श्रीरामैर्यदकारि न । तद्विधाता विपुत्राय धनलाभं कृपापरः ॥ २२३ ॥
 अष्टादशसु देशेषु मारिव्यसनवारकः । सेनोभिषेपनत्यागं वर्षासु च करिष्यति ॥ २२४ ॥ प्राणित्राणप्रवीणानां शान्ति-जीमूत-
 नेमीनां । कुमारपालभूषाल-स्तुरीयः पंचमारके ॥ २२५ ॥ आर्हतः क्षमापतिः शुद्धः नतसम्यक्त्वपालकः । कुंमार इव भावी कः
 शासनस्य प्रभावकः ॥ २२६ ॥ कलहकरा डंभरकरा असमाहिकरा अनिबुद्धकरा य । होहिति इत्य समणा दत्तसु वि स्थितेषु सप-
 राहं ॥ २२७ ॥ ववहारसंचतंचाइएसु निबुज्जुआण य मुणीणं । गलिहंति आगमत्या अत्यलुद्धाण तंदिअहं ॥ २२८ ॥ उवगरणवर्य-
 पचाइ-आणवसहीण सट्टयाणं च । जुल्लिस्सति कएणं जह नरवइणो कुंडूवीणं ॥ २२९ ॥ वहवे सुण्ढा अप्पे समणा होहिंति
 गुणसयाइन्ना । वलवता मिच्छनिवा अप्पमलाहिंदुअनरिंदा ॥ २३० ॥ मन्निद्वैतेगतेव्वब्द-शतेव्वफोनेनविंशतौ । चतुईशसु १९१४
 चाब्देपु चैनशुक्काटमीदिने ॥ २३१ ॥ विधीं म्लेच्छकुले कल्की पाटलीपुत्रपत्तने । रुद्रश्चतुर्मुखश्चेति धृतापाराह्वयद्वयः ॥ २३२ ॥

१-वर्तमान मेरा नामधी सिंधुसौवीरदेशमां । २-पुरा भरत-नाभेय-श्रीरामे-वैदकारि च, छाणीप्रते । ३-सेनया शत्रोरसिमुखासनम् । ४-स वर्षासु
 करिष्यति । ५-कुमारस्वामी कार्तिक इय बलिष्ठ । ६ मांहीमाहे विरोध करनारा । ७-पइदिवाई । ८-विष्टिकर्णे-मद्रायोमे ।

अथ-कल्की-जन्म-पत्रिका-लिख्यते,



दीपालिका-

॥ ८ ॥

यशोगृहे यशोदायाः कुक्षौ स्थित्वा त्रयोदशान् । मासान् मंधोः सिताष्टम्यां जयश्रीवासरं निशि
 ॥ २३३ ॥ षष्ठे मकरलशंशे वहमाने महीसुते । वारे कर्कस्थिते चन्द्रे चन्द्रयोगे शुभावहे
 ॥ २३४ ॥ प्रथमे पादेऽश्लेषायाः कल्किजन्म भविष्यति । त्रिहस्तोचः स कपिल-शीर्षकुन्तल-
 लोचनः ॥ २३५ ॥ त्रिभिविंशेषकम् ॥ तीक्ष्णस्वरोऽदृष्टपृष्ठ-लाञ्छनश्छन्नतल्परः । महाविद्यो-
 दुरो दीर्घ-हृदयो गुणवर्जितः ॥ २३६ ॥ जन्मतः पञ्चमे वर्षे जठरापङ्गुविष्यति ।
 सप्तमेऽभ्यापदस्यैका-दशे द्रव्यस्य सम्भवः ॥ २३७ ॥ तस्यैवष्टादशे वर्षे कार्तिके मासि निर्भले । पक्षे च प्रतिपद् घस्ये शनौ चन्द्रे
 तुलास्थिते ॥ २३८ ॥ स्वातौ नन्दिदिने सिद्ध-वेलायां करणे ववे । मुहूर्त्ते रावणे राज्या-भिषेको हि भविष्यति ॥ २३९ ॥ युग्मम् ॥
 अदन्तस्तरुगतस्य कुन्तो दूर्वासकस्तथा । मृगाङ्गनाम किरीटं खड्गश्च दैत्यसूदनः ॥ २४० ॥ तस्यांहिकटके चन्द्र-सूर्यौ
 त्रैलोक्यसुन्दरौ । चारुसौधं तथा भावि-द्रव्यसंख्या न भाविनी ॥ २४१ ॥ संवत्सरं विक्रमस्यो-त्थाप्य स्वर्णप्रदानतः । संवत्सरं
 स्वकीयं स स्थापयिष्यति भूतले ॥ २४२ ॥ एकोनविंशवर्षेऽर्द्ध-भरतं विग्रहाकुलम् । दोर्दण्डमण्डलाक्रान्तं करिष्यति महाबलः ॥ २४३ ॥
 सार्द्धविंशतमे वर्षेऽ-र्द्धदक्षिणतः सुतां । परिणीय बहुराज्ञीः विधाताऽज्ञां महीतले ॥ २४४ ॥ सुजानस्य महाभोगान् तस्य पौढ-
 पराक्रमाः । चत्वारो दत्त-विजय-सुजाऽ-पराजिताः सुताः ॥ २४५ ॥ कल्किनः पाटलीपुत्रे राजधानी भविष्यति । तस्य

१-मङ्गले । २-पूर्वाह्णे । ३-वाससौधम् ।

कल्किपुर नाम द्वितीयं विस्तरिष्यति ॥ २४६ ॥ दक्षपुरं दत्तराज-धानी राजगृहस्य तु । विजयस्य राजधान्य-गह्विष्ठपाटकस्य च ॥ २४७ ॥ विजयपुराभिधानं भावि-मुजस्य दास्यति । अवन्तिदेशमपरा-जितस्यापरमण्डलम् ॥ २४८ ॥ युगम् ॥ कल्किनो राज्यसमये स्लेच्छघत्रियभूर्भुजाम् । रुधिरैर्मिस्तुतैर्विष्वक् पृथ्वीत्वानं करिष्यति ॥ २४९ ॥ तत्कोशे नमनन्ति-खर्णकोट्यथतुर्दशाः । सहस्रा गजा हस्तिन्यः सार्द्धचतुश्शतीमिताः ॥ २५० ॥ सप्ताशीतिलक्षा अश्वाः पञ्चकोटिपदातयः । दासकर्मकरादीना तस्य संख्या न विद्यते ॥ २५१ ॥ नमःखेलित्रिचूलासः पापणहयवाहनः । क्रूरात्माऽतिकपायोगः स्वभावेन भविष्यति ॥ २५२ ॥ मयुरायां तदा कृष्ण-सीरिधात्री पतिष्यतः । भृशं डंमदुर्भिक्ष-रोगैः पीडिष्यते जनः ॥ २५३ ॥ ज्ञात्वा जनयुगाच्चत्र नन्दभूपविनिर्मितान् । पंचैष कनकस्तूपान् खनित्वा हेम लासति ॥ २५४ ॥ ग्रनष्टाऽष्टादशाब्दानि कल्की भावी ततो नृपः । पट्टविंशद्वर्षयस्क-स्त्रिपुण्ड्रभरताधिपः ॥ २५५ ॥ कल्की ततोऽतिलोभेन खानयित्वा निजं पुरम् । सर्वतोऽपि निधानानि ग्रहीष्यति धनाग्रही ॥ २५६ ॥ जनानां खनतां तत्र निर्गमिष्यति भूमितः । धेनुर्लवणदेव्याद्वा सप्रभाना द्यपन्मयी ॥ २५७ ॥ भिक्षार्थमट्टः साधून् स्थापिता सा चतुष्पथे । वीक्ष्य दिव्यानुभावेन शृंगैरुद्धृष्टयिष्यति ॥ २५८ ॥ गीतार्थानां विचारेणो-पसर्गं भाविनं जवात् । विज्ञाय विहरिष्यन्ति साधवः संसमर्थिनः ॥ २५९ ॥ भक्तवत्त्वादिलुब्धास्तु गीतार्थाना तथोदितम् । अवमत्याविवेकेन तत्र स्थासन्ति केचन ॥ २६० ॥ सप्त-दशाऽथाऽहोरात्रान् वर्षिष्यति पयोधरः । अतिवृष्ट्या तया कल्कि-नगरं प्राविष्यति ॥ २६१ ॥ कल्की नष्टा पुनः कापि स्थास्यति खलभूर्द्धेनि । गते जलोपसर्गोऽसिन् करिष्यति नमं पुरम् ॥ २६२ ॥ नीरग्रसरतो हेम-गिरीन् नन्दविनिर्मितान् । निरीक्ष्य मूढधीरर्थ-

लोलुपो भविता भुशम् ॥ २६३ ॥ पुराकरमदावृणां करकर्ता महाकरम् । सकराणां करं नट्यं महाकरवतामपि ॥ २६४ ॥ वृथैव दोषस्तुपाद्य लाता धनवतां धनम् । छलं वदति भूपानां हलं नेति नयं वदन् ॥ २६५ ॥ लोकात्तथाऽग्रहीतार्थं यथा भाव्यधनो जनः । पृथ्व्यामूर्णाद्युधीर्णायां प्राप्यते न यतस्तृणम् ॥ २६६ ॥ लोके तेन सुवर्णादि-नाणकं नाशयिष्यति । चर्मणो नाणकैस्तेन व्यवहारः प्रवर्त्सति ॥ २६७ ॥ वेद्याः पाखण्डिनः सर्वे कल्किना याचितं करम् । तस्मै दास्यन्ति सारंभाः सावधाः सपरिश्रहाः ॥ २६८ ॥ पर्णादौ भोजनं कुर्वन्नाक्रोशांस्तस्य पश्यतः । जनो दास्यति निःस्वःसं भयं भवति भाजने ॥ २६९ ॥ भाविनि जिनसद्धानि विहरिष्यन्ति साधवः । वर्षिष्यन्ति च कालेऽब्दा द्रोणो द्रुम्मेण लप्स्यते ॥ २७० ॥ कल्की त्यक्तधनान् साधू-न्नन्यदा राजवत्स्र्मनि । विलोक्य लोभतो भिक्षा-पष्टांशमर्थयिष्यति ॥ २७१ ॥ ततः साधुकृतोत्सर्गा-हृता शासनदेवता । याचमानान्यतीन् भिक्षां कल्किनं वारयिष्यति ॥ २७२ ॥ ततः सर्वप्रकारेण धनं लास्यति लोकतः । त्याजयिष्यति लिंगानि लिंगिभिः स दुराशयः ॥ २७३ ॥ वाम-जंघासव्यकुक्ष्योः सप्रहारौ भविष्यतः । पंचाशत्तमवर्षस्य तस्य दुष्कर्मयोगतः ॥ २७४ ॥ अन्ते कल्की पुनः स्मृत्वा भिक्षापष्टांशहेतवे । गोवाटके प्रातिपदा-चार्यसाधून्निरोत्स्यते ॥ २७५ ॥ तदा प्रातिपदाचार्य-मुख्यसंघोऽखिलोपि हि । शासनदेवतां स्मृत्वा कायोत्सर्गं विधास्यति ॥ २७६ ॥ कायोत्सर्गेण संघस्य प्राप्ताः शासनदेवताः । युक्तिभिर्वोधयिष्यन्ति यावत्कल्की न भोत्स्यते ॥ २७७ ॥ तावदासनकम्पेन तत्रागन्ता समुत्सुकः । वृद्धद्विजवपुः कृत्वा शक्रः शासनभक्तिः ॥ २७८ ॥ तं च सिंहासनासीनं वदिष्यति दिवस्पतिः । निरागसः किमेतेऽत्र निरुद्धाः साधवस्त्वया ॥ २७९ ॥ स ग्राह जह्निरे सर्वे पाखण्डाः करदा मम । भिक्षांशं

ददते नैते निरुद्धालेन वाटके ॥ २८० ॥ वदिष्यति ततः शक्र-स्तमेपां नास्ति किंचन । भिक्षाशमपि दास्यति न कस्य कथमप्यमी
 ॥२८१॥ याचमानस्तदेतेभ्यो भिक्षांशं लज्जसे न किम् । अमृन्मुचान्यथा भावी तवानर्थो महानिह ॥२८२॥ इत्युदित्वा स क्रमेण मम
 निर्माणतो गते । वर्षसहस्रद्वितये माद्रशुक्लाष्टमीदिने ॥२८३॥ ज्येष्ठे रविवारे च चपेटाग्रहतो रुपा । पडशीति-समायुष्कः कल्किराट्ट
 नरक गमी ॥ २८४ ॥ शिक्षयित्वाऽऽहन्तं धर्मं दत्तं तस्यांगं हरिः । राज्ये न्यस्य गुरुकृत्वा सचे सौख्ये गमी दिवम् ॥ २८५ ॥
 पितुः पापफलं ज्ञात्वा दत्तः पुण्यैकतत्परः । प्रत्यहं कारितैर्जनै-श्चैत्यैर्मण्डयिता महीम् ॥ २८६ ॥ एकोनविंशति वर्ष-सहस्राणि
 ततः परम् । भस्मोचरात् श्रितप्रौढि-जिनधर्मः प्रवर्त्यति ॥ २८७ ॥ उक्तं च-जिणभचनिचा इगारलक्खसोलसयसहस्सा होहिति ।
 इगकोडिभित्तसासण-पभावगा दुसमसमयग्मि ॥ २८८ ॥ इह संबोदयजुगपवर-द्धरिणो चरणसंजुए वंदे । चउरुत्तरदुसहस्से
 २००४ दुप्पसहते सुहग्माई ॥ २८९ ॥ इह सुहम्म-जम्भू तन्भवसिद्धा एगावयारिणा सेसा २००२ । सट्टुदुजोअणमज्जे जयतु
 दुब्भिमक्खडमरहरा ॥ २९० ॥ जुगपवरसरिसर्द्धरी दूरीकयभविममोहतमपसरो वंदामि सोलसुत्तर-इगदसलक्खे सहस्से य ॥२९१॥
 युग्मम् ॥ पंचमथरमि पणपन्नलक्खसु-पणपन्नसहस्स-कोडिकोडीणं । पंचसय-कोडिपण्णा नमामि सुचरणसयलद्धरी ॥२९२॥ तिचीस-
 लक्खसाओ चउ-रसहस्सा चउसयाइ च इगनवई दुसमाए सूरिणं मज्झिमगुणाणं ॥ २९३ ॥ पंचावन्नाकोडी पंचावन्नाइं सयसहस्साइं ।
 पचावन्नं सहस्सं पचसय चैव पणपन्ना ॥ २९४ ॥ एते अधर्माचार्याः ॥ पंचावन्नाकोडि-लक्खणं हुंति तह सहस्साणं । चउवन्न-

३-१११६०० शासन प्रभावड-राजा । २-सबोदय । ३-१११६०० युगप्रधान सदेश सुरि । ४-५५ दाप कोड, ५५ हत्तर कोड, ५०० कोड
 बुद्धिमान सुथारिने धारणा इरनारा-सूर्य । ५-३३०४४८९-मध्यम गुणवाणा-भाचार्यो । ६-५५ कोड, ५५ दाप कोड, ५५ हत्तर, पावशोने पचावने
 ओते-कथमोचार्यो । ७-५५ दाप कोड, ५५ हत्तर कोड, ४४ से कोड, ४४ कोड ओते-उपाध्याया-वाचनाचार्यो ।

कोडिसया चउआलीसाउ कोडीओ ॥ २९५ ॥ एते उपाध्यायाः-वाचनाचार्याः ॥ सतरसकोडिलकखा नवकोडिसहस्र-कोडिसयमेगं ।
 इगवीसकोडि-इगलकख-सद्विसहस्रा सुंसाहूणं ॥ २९६ ॥ सैमणीण कोडिसहस्रा दस नवसयकोडि-चार (स) कोडीओ ।
 छप्पन्नलकख-छत्तीस-सहस्र-एगुणदुनिसया ॥ २९७ ॥ एता आर्याः ॥ तह सोलकोडिलकखा तिकोडिसहस्रा य तिनिकोडिसया ।
 सतरसकोडि-चुलसीलकखा सुंसाविद्या कोडिसहस्रत्राणडई । पणकोडिसया
 वत्तीसकोडी तह वारसव्महिया ॥ २९९ ॥ इति-दुसम समय-संघप्रमाणम् ॥ पंचमारकर्पन्ते दीक्षा द्वादशवार्षिकः ।
 दुःप्रसहो द्विहस्तांगो ग्रहीता शुद्धवासनः ॥ ३०० ॥ पौडशाब्दो महाचार्यो दशैकालिकागमः । युगप्रधानो भवितो-स्कृष्टः
 पृष्ठतपोऽन्वितः ॥ ३०१ ॥ व्रतं समाः प्रमाल्याष्टौ विंशत्यब्दः कृताष्टमः । एकावतारः सौधर्मं देवो भाव्येव्विधजीवितः ॥ ३०२ ॥
 फल्गुश्रीः नामतः साध्वी नागिलः श्रावकत्तथा । सत्यश्रीः श्राविका संघः पूर्वोक्ते धयमेव्व्यति ॥ ३०३ ॥ मध्याह्ने सुमुखो
 मञ्जी वृषो विमलवाहनः । विगंक्षयत्यपराक्ते तु वैद्विर्विध्यासति क्षितौ ॥ ३०४ ॥ वासाणवीससहस्रा नवसय-तिम्मास-पंचदिण-

१-१७ वाण कोड, ८ उलर कोड, १०० कोड, २१ कोड, १ वाण ६० उलर अते-सुताषमः । २-१० उलर कोड, ६०० कोड, १२ कोड, ५६
 वाण, ३६ उलर, १६८ ओडसोने नव्वाणुं ओटली साध्वीओनी संख्या थशे. ३-१६ वाण कोड, ३ उलर कोड, १७ कोड ८४ वाण
 ओटला सुशानक संख्या थशे. ४-२५ वाण कोड, ६२ उलर कोड, ५०० कोड, १२ अण्डि ओटली शुश्राविधानी संख्या थशे.
 ५ श्राद्धदीनकृत्ये-सागरोपनुं आयुष्य उडेस छे. स्वर्गशी अयेवा-१२ वर्षा शुद्धस्थानुं २ही, ४ वर्षा सामान्य साधु याने ४ वर्षा श्रीआचार्य युगप्रधानपद
 धारी यतः-“पुगो साहू पुगा य साहुणी सत्रओ य सट्टीया । मणानुतो संजो सेमो पुण मट्टिसंधो उ ॥” ५-“व्रतं समाः प्रमाल्यष्टौ विंशत्यब्दः कृताष्टमः ।
 एकावतारः सौधर्मं पल्यायुर्भविता सुतः ॥ दीपालिकाकल्प-को. १८० ॥” ६-अतिश्लिष्येऽति रुद्धे न धाते वन्दिउरेयो न लयति, भादर वन्दि उलय न थाथ ।

પહરા । ફકા ઘડિઆ દોપલ-અક્ષર-અહ્યાલ-'જિણઘમ્મો ॥ ૩૦૫ ॥ વતાઃ ક્ષયાય વાસ્યન્તિ પરુપા વહુપાંસવઃ । ઉગ્રં શીતં
 વિઘાતેન્દુ-રુગ્રં દ્યૌં જ્વલિષ્યતિ ॥ ૩૦૬ ॥ અત્યુગ્રશીતાપામ્યાં ક્ષય લોકો ગમિષ્યતિ । અંગારમર્મરામા શૂ-ર્મસરુપા
 મવિષ્યતિ ॥ ૩૦૭ ॥ મસ્માડ્ડ-મ્લ-મુર્ચ-ધાર-વિપા-મ્ય-શનિ-તોયવાઃ । વર્ષિષ્યન્તિ સત્-સત્-દિવસાનિ પૃથગ્ પૃથક્ ॥ ૩૦૮ ॥
 ક્રાસ-કુટ-જ્વર-શ્વાસૈઃ ક્ષય લોકઃ પ્રપાસ્યતિ । મવિષ્યતિ સમં સર્વં ગિરિગર્ત્તોડ્ડપગાદિક્રમ્ ॥ ૩૦૯ ॥ વૈતાહ્ય-મૂલે તસ્યૈવ
 દ્રાસસતિ-વિલેપુ ચ । ગગા-સિન્ધુવિલેખેવં સ્થાસ્યન્તિ પશુ-માનવાઃ ॥ ૩૧૦ ॥ સ્થાંગમખ્યતુલ્યૌષ-ગંગા-સિન્ધુજલોદ્ભવૈઃ ।

૧-વીસ હંભર વર્ષ, અને નવસો વર્ષ ઉપર, ત્રણમાસ પાયદીન પાચપ્રહર એક ઘડી એ પલ અડતાલીસ અક્ષર સુધી છનેચૈરદેવનો ધર્મ રહેશે

૨-પચમારાનુ-સ્વરૂપ તથા બોતેર ધીલ અને પદારાનુ વર્ણન.

પચમ આશે ૨૧૦૦૦ હંભર વર્ષનો પૂર્ણ થતા, પહેલાં ૧૦૦ વર્ષ બાકી રહે ત્યારે, ચંદ્ર-પ્રચડ શીત, સૂર્ય-પ્રચડ ઉષ્ણતાને આપે છે, સ્થાને સ્થાને
 નાશને કરનાર અતિ પ્રચડ વાયુ, કઠોર ધૂળને ઉડાડતો, તેના વડે અધકારમય બનાવતો, લયકર-કુ સહ-મનુષ્ય-તિર્યચ-વનસ્પતિ-મકાનાહિને ઉદાડીને
 ફેંકી દે તેવો, તથા વિદ્યુત્ આદિ ગર્ભરવને કરતો મેઘ પણ લાસમ-આમ્લ-સુર્ચર-ક્ષાર-વિષ-અગ્નિ-ઉટકાપાત આદિની વૃદ્ધિઓથી ભગતના પ્રાણીઓનો
 સંહાર અને કુખિત બનાવતો પક્ષી-બીજ વૈતાહ્યને વિષે, અને મનુષ્ય-બીજ ગંગા-સિન્ધુના ઉત્તર-દક્ષિણ ૭૨ બીલો (બીલ-એટલે નદીઓની
 લેખણ, તથા શુક્રાઓ, પોલાણુ સ્થાનો બાણુવા) તેને વિષે રહેશે ભરત-લેનની સીમાને કરનાર બે લઘુહિમવત નામનો પર્વત છે, તે પર્વત ઉપર મધ્યભાગે
 પદ્મદહુ નામનું સરોવર છે (જેના મધ્યભાગમાં પૃથ્વીકાયમય-કમલ છે, તેમા શ્રીદેવી રહે છે, વિશેષ વર્ણુન અન્ય અન્યથી) આ સરોવરમાથી ગંગા
 અને સિન્ધુ નામની બે શાશ્વતી નદીઓ, પૂર્વ-પશ્ચિમ નીકળે છે, તે નદીઓ ભરતના બે વિભાગ (ઉત્તર-દક્ષિણ) ને કરનાર વૈતાહ્ય નામના પર્વતને
 બેદીને પૂર્વ અને પશ્ચિમ ભાગમાં વહી લવણુ સમુદ્રને મળે છે એ બે નદીઓના એક એક કંઠા ઉપર નવ નવ બીનો આવેલ છે, દક્ષિણ તરફના ભાગના
 ચાર કંઠા ઉપર ૩૬ બીલો આવેલ છે, અને તેવી જ રીતે ઉત્તર તરફના પચ ૩૬ બીલો આવેલ છે, બેથી ઉત્તર-દક્ષિણ બેઉ મહી દૂલ ૭૨ બીલો

निशि कृष्टैः सूर्यपङ्कै-स्तेषां मत्स्यादिभिर्घसिः ॥ ३११ ॥ निर्लेजा बल्लरहिता-रत्निमाना नराः स्त्रियः । नृणां विंशतिरद्भानि स्त्रीणां
 षोडशजीवितम् ॥ ३१२ ॥ गर्भं धास्यन्ति पद्भ्याः स्त्रियो दुध्रसवास्तदा । द्रक्ष्यन्ति पुत्रपुत्रादीन् विशत्यद्भ्यायुषो नराः ॥ ३१३ ॥ कृपा-
 योशाः पितृमातृ-विवेकविकला नराः । पृष्ठारे भाविनी वर्ष-सहस्राण्येकविंशतिः ॥ ३१४ ॥ भरतेष्वैरवतेषु देशसु दुःपमाः समाः ।
 उत्सर्पिण्यां प्रथमाऽऽ-एतलुल्यो भविष्यति ॥ ३१५ ॥ उत्सर्पिण्यां प्रथमाऽरे षष्ठुल्ये गते सति । प्रशान्तोपप्लवावर्तो द्वितीयाऽरो
 लनिष्यति ॥ ३१६ ॥ लघ्ने तत्राम्बुदाः पंच वर्षिष्यन्ति क्रमादमी । तेष्वाद्यः पुष्करावर्तो भूतापमपनेष्यति ॥ ३१७ ॥ क्षीरोदः
 सस्यनिर्माता लेहकर्त्ता घृतोदकः । शुद्धोद औषधीहेतू-रसोदो रसकृत् क्षितौ ॥ ३१८ ॥ पंचत्रिंशद्दिनान्यन्व-दृष्टिरेवं भविष्यति ।

थाय છે, જે છઠ્ઠા આરાના પ્રાણીઓ આ ખીલોમાં રહી પોતાના જીવનને દુઃખ-દુઃખમમય પસાર કરશે. તે વખતના મનુષ્યની આકૃતિ પણ
 દુરૂપ-દુર્વર્ણ-દુર્ગંધ-દુષ્ટલક્ષણ-દીન-હીન-સ્વર નિર્મયાદા-કાળા-બધિર-ન્યૂનચંચુલી-આદ્યકાળે કામઠાર્તા, હુસંસ્થાન, શાસ્ત્ર અને સંસ્કાર રહિત, ચૂર્ણતા
 નિકૃત ચેષ્ટિત બહુ અહાર આદિ આતિ ખરાબ હોય છે. સ્ત્રી, બેન, માતા, પિતા આદિના વિચાર વિવેક મર્યાદા બ્યવહાર રહિત, મનુષ્યના માંસને
 ખાનારા, અત્યંત ક્રૂર અધ્યવસાયવાળા ચોરા આયુષ્યમાં પણ અનેકાનેક પુત્ર પૌત્રાદિને જોનારા હોય છે.

૧-વજ્રસુદિરસૌ-રશ્મિઃ । ૨-પંચમસા-પંચૈરત્તર્યૌઃ સિદ્ધિલા દગ્ધેત્રેષુ ।

૩-હવે ઉત્સર્પિણીનો પહેલો આરો અવઠના છઠ્ઠા આરા જેવો અને ઉત્સઠનો બીજો આરો અવઠના પાંચમાં આરા જેવો પસાર થતાં,
 વિશેષ ઉત્સઠ ના બીજા આરાની શરૂઆતમાં, પૂર્વ સમુદ્રથી પશ્ચિમ સમુદ્રસુધી, પુષ્કરવર્તાદિ પાંચ પાંચ મેઘા ઉત્પન્ન થાય છે, જેના
 નામો પુષ્કરવર્ત ૧,-ક્ષીરોદ ૨,-ધૃતોદ ૩,-શુદ્ધોદ ૪,-રસોદ ૫,-આ નામના ઓક ઓક મેઘો લગાતાર સાત સાત દિવસ અને રાત્રી અનુક્રમથી
 વર્ષ ૧-પુષ્કરવર્ત-પૃથ્વીની અશુભા આવસ્થા તાપાદિને દૂર કરી જગત્સ્વસ્થતાને પેદા કરે છે. ૨-ક્ષીરોદ-ગોક્ષીર તુલ્ય વર્ણુ વાહુ અશુભ
 વર્ણુદિ દૂર કરી વર્ણુ-ગન્ધ-રસ-સ્પર્શ શુભને પેદા કરે છે. ૩-ધૃતોદ :-સ્નેહને પેદા કરે છે. ૪-શુદ્ધોદ :-સર્વ ભતિની વનસ્પતિને પેદા કરે છે.
 ૫-રસોદ :-તદ્વત રસોને પેદા કરે છે.

દુર્મા-પથી-લતા-વહી-સસ ઉત્પત્યતે સ્વયમ્ ॥ ૩૧૯ ॥ તદ્વીક્ષ્ય નિસ્સરિવ્યન્તિ વિલેમ્પો વિલવાસિનઃ । વર્દ્ધમાન-વપૂ-રૂપ-ચલ-
 જીવિતસમ્પદઃ ॥ ૩૨૦ ॥ પુષ્પ-ધાન્ય-ફલા-હારા-સ્લ્યક્ષ્યન્યમક્ષ્યમક્ષણમ્ । ગતરોગા મવિવ્યન્તિ સુસા-વાતા-જલ-તૈવઃ
 ॥ ૩૨૧ ॥ દ્વિતીયારકર્પર્યન્તે મઘ્યદેશેજ્વનીતલે । મવિવ્યન્તિ કુંલકરાઃ સપ્તામી ક્રમતો યથા ॥ ૩૨૨ ॥ વિમલવાહનાહ્વાનઃ

પાચે પ્રકારના મેઘો, પોત પોતાના કાર્યને કરી ઉતરોત્તર વર્ષુ-ગન્ધ-રસ-સ્પર્શે છ-સવયલુ-સંસ્થાન (આકૃતિ) બલ શાન શરીરની ઉચ્ચાઈ
 વૃદ્ધિને પામે છે તે બેડલાં બીલોમાથી બહાર નીકળી વનસ્પતિ આદિને બોઈ માંસાદિનો નિષેધ કરશે એમ કરતા બીજા આરાના અન્ત ભાગમા
 સાત કુલકરો થશે જેના નામો વિમલવાહન ૧, સુદામ ૨, સંગમ ૩, સુપાર્ધ ૪, દત્ત ૫, સુસુખ ૬, સસુચિ ૭, હવે ત્રીજા આરાના ૮૯ પક્ષ
 ગયે પ્રથમ તીર્થકર શ્રેણિક રત્નનો છવ શ્રીપદ્મનાભ તરીકે જન્મ દેશે, જે ત્રીજા આરા સુધીમાં ૬૧ શલાકા પુરુષો થશે, અને ચોથા આરાના
 ૮૯ પક્ષ ગયે ૨૪ માં તીર્થકરની ઉત્પત્તિ અને ૧૨ માં ચક્રવર્તી થશે, આઠ ચોથા આરાના બીજા અને ત્રીજા ભાગમા કદંપ-વૃક્ષ અને યુગલિક
 ધર્મ વ્યાબશે, જે પાંચમા અને છઠ્ઠા આરા સુધી તથા અવસર્પિણીનો ૧, ૨, અને ત્રીજા આરાના અત પહેલા યુગલિકપાત્રુ આદિ વ્યાબશે, એમ ૬૩
 કોડા કોડી સાગરોપમની ઉત્સર્પિણી પૂર્ણ થતાં, પાછો અવસરર્પિણીનો પ્રથમ દ્વિતીય-વૃત્તીયાદિ આરાની શરૂઆત થશે, એમ એક અવસર્પિણી અને એક
 ઉત્સર્પિણી મલીને વીથ કોડા કોડી સાગરોપમે એક કાલ-ન્યક થાય, એમ અર્નતા કાલ-ન્યકે એક પુદ્ગલ-પરાવર્તન થાય, એમ સંસારની અદર છવે
 સમ્યકત્વ વિના અર્નતા પુદ્ગલ પરાવર્તન કર્યાં, અને ન્યાં સુધી સમ્યકત્વને નહિ પામે ત્યાં સુધી આત્મા અર્નતાનંત પુદ્ગલ પરાવર્તન સંસારમાં કરશે

૧-૭-કુલકરોની શરૂઆત, અવસર્પિણીના ત્રીજા આરાનો છેલ્લો પલ્લોપગનો આઠમો ભાગ બાકી રહે ત્યારે થાય છે
 કુલકર-એટલે લોક-મર્યાદાને કરનારા એક વર્ગ, આ અવસર્પિણી કાલમાં થયેલ હલકરોના નામો વિમળવાહન ૧ ચક્ષુઃમાન ૨ યશસ્વી
 ૩ અભિચદ્ર ૪ પ્રસેનજિન ૫ મરુદેવ ૬ અને નાલિ ૭ છેલા નાલિ હલકરનું સખ્યાત પૂર્વનુ આયુષ્ય અને ઋષભદેવ ભગવાનનું ૮૪ લાખ
 પૂર્વનુ આયુષ્ય, હલકરોના વખતમા ત્રણ પ્રકારની દડનીતિ થઈ-હ-કાર મ-કાર અને ધિ-કાર, પ્રથમ બેના સંમયમા હ-કાર, ૩-૪ મા મ-કાર,

सुदामा संगमस्तथा । सुपार्श्वो दत्त-सुसुखौ संसुचिथेति नामतः ॥ ३२३ ॥ जातजातिस्मृतित्वेषु राजा विमलत्राहनः ।
राज्यस्थितिकृते ग्राम-पुरादीन् स्थापयिष्यति ॥ ३२४ ॥ गजाश्वरयपस्यादीन् ग्राहयिष्यति सेवकैः । अन्नपाकविधिं वद्वा-बुत्पन्ने
सोपदेक्ष्यति ॥ ३२५ ॥ व्यवहारप्रवृत्त्यर्थं द्वासप्ततिकला लिपीः । शतशिल्पानि लोकानां स भूप उपदेक्ष्यति ॥ ३२६ ॥ सैकोन-

५-६-७ मां हुलङ्करनी वपतमां धि-ङ्कार, गुन्डो यतां हुङ्कार उडे ओटले भरखु तुल्य शिक्षाने समजतां, इरीणी गुनो न थाय ते भाटे अतिसावध
रहेता, ओवी रीते मङ्कारने धिङ्कारमां यखु समजवुं क्रमे क्रमे पतन क्रले नखे नीति प्रवर्तन थर्ष, नेभडे अल्प आपराधि हुङ्कार मध्यमे गङ्कार,
अधिङ्कार धिङ्कार.

श्रीनिन्दधर्मप्रारंभ—अवसर्पिणीना नील आराना अन्ते, श्रीनिन्दधर्मतो-आरंभ (तेम उत्सर्पिणीना नील आराना आरंभमां श्रीछन्दधर्मतो
प्रारंभ,) नील आराना ८४ लाण पूर्व अने ८८ पणवाडीया गाथी रहे सारे श्रीभ्रमवादेवतो जन्म थयो. २० लाण पूर्व दुभारावस्था ६३ लाण
पूर्व राब्थावस्था, १ लाण पूर्व श्रमणावस्था, हुल ८४ लाण पूर्वनुं आयुथ्य, अने नील आराना हुल ८८ पणवाडीया गाथी रहे मौक्ष-गमन.

१—अवसर्पिणीना नील आराना ८८ पक्ष गाथी रहे सारे प्रथम निनेन्द्र-गोश्र.

२—अवसर्पिणीना योथा आराना ८८ पक्ष गाथी रहे सारे अन्तिम निनेन्द्र-मोक्ष.

३—उत्सर्पिणीना नील आराना ८८ पक्ष गये छते प्रथम निनेन्द्र-जन्म.

४—उत्सर्पिणीना योथा आराना ८८ पक्ष गये छते अन्तिम निनेन्द्र-जन्म.

६३-शलाका पुरयोनी उत्पत्ती-अवसर्पिणीना नील आराना अन्ते, प्रथम तिर्यङ्कर अने प्रथम-यात्रीनी उत्पत्ति थाय छे, यात्रीना
(६१) योथा आरामां २३ तीर्थङ्कर ११ मङ्कर्त्ती ८ वासुदेव ८ प्रतिवासुदेव गती हुल ६३ शलाका पुरयोनी उत्पत्ती थाय छे. तीर्थङ्करो
पांथ वर्णवावा होय छे, मङ्कर्त्त सुवर्ण वर्ण वावा, वासुदेव श्याम वर्ण वावा, अणदेव उन्नयव वर्ण वावा होय छे; सर्वे गोत्र गागी छत्रो होय छे.

नवतिपञ्चोत्सर्पिण्ययुगे गते । शतद्वारपुरे रम्ये संसुचेरवनीपतेः ॥ ३२७ ॥ भद्रादेव्याश्चतुर्दश-सप्तस्रचितः सुतः । कृत-
 जन्मोत्सवो देवैः पद्मनाभाऽभियो जिनः ॥ ३२८ ॥ सप्तहस्ततनुः स्वर्ण-दीधितिः सिंहलाञ्छनः । द्वासप्ततिसमायुक्तः श्रेणिकात्मा
 भविष्यति ॥ ३२९ ॥ त्रिभिर्विशेषकम् ॥ पद्मनाभजिनाधीशा-दनन्तरजिनेश्वरः । सूरदेवाभिधः ख्यातः सुपार्श्वोऽस्मा निरजनः
 ॥ ३३० ॥ उदायिजीवस्तृतीयः सुपान्धोऽथ जिनेश्वरः । भविता पोडिलो जीव-सूर्यः स्वयंप्रभो जिनः ॥ ३३१ ॥ जीवो-
 द्वायुषो भावी सर्वानुभृतिः पंचमः । कीर्तिजीवो जिनः षष्ठ-स्तथा देवश्रुताह्वयः ॥ ३३२ ॥ सप्तमः शयजीवस्तु तथा नाम्नो-
 दयो जिनः । आनदात्मा जिनो भावी पेठालसञ्चितोऽष्टमः ॥ ३३३ ॥ भावी सुनंदजीवस्तु नरमः पोडिलाह्वयः । शतकाल्मा
 दयमस्तु शतकीर्तिजिनाधिपः ॥ ३३४ ॥ देवस्या भविता चाल्मै-कादशो मुनिसुव्रतः । जीवस्तु वासुदेवस्य तीर्थकृद्वादशोऽ-
 ममः ॥ ३३५ ॥ सत्यकेभवितात्सार्हन् निष्कृपायत्तयोदशः । जीवस्तु वलदेवस्य निष्पुलाकश्चतुर्दशः ॥ ३३६ ॥ पंचदशो जिनो
 भावी मुलसात्मास्य निर्ममः । तीर्थकृद्रोहिणी जीवः पोडयश्चित्रयुक्तकः ॥ ३३७ ॥ खेयात्मा समाधिस्तु भावी सप्तदशो जिनः ।
 जिनः शतालिनो जीवोऽ-यादशः संवराह्वयः ॥ ३३८ ॥ द्वीपायनस्य जीवश्चै-कोनविंशो यशोधरः । कर्ण-जीवो जिनो विंशो
 विजयाख्यो भविष्यति ॥ ३३९ ॥ नारदात्मा पुनर्मह्य एकविंशो जिनोत्तमः । अमडात्मा जिनो भावी द्वाविंशो देवनामतः ॥ ३४० ॥
 अमरात्मा त्रयोविंशोऽ-नन्तर्वीर्याभिघोजिनः । स्वातिबुद्धजीवो भद्र-श्चतुर्विंशो भविष्यति ॥ ३४१ ॥ आयुः-प्रमाण-कल्याणा-
 न्तर-लाञ्छन-वर्णिकाः । एते पञ्चानुपूर्व्या स्यु-र्वर्चमानजिनैः समाः ॥ ३४२ ॥ दीर्घदन्तो-गृहदन्तः-शुद्धदन्त-स्वृतीयकः ।

१-महावीर ममुना काका । २-कोणीक पुत्र ।

श्रीचन्द्र-नामः श्रीभूतिः-श्रीसोमः-पद्म-संहितः ॥ ३४३ ॥ महापद्मो-दर्शनाख्यो-विमलोऽं-भलवाहनः^३ ।
 गरतेऽरिष्ट^४-नामा च भाविनश्चक्रवर्तिनः ॥ ३४४ ॥ नन्दिश्च नन्दिमित्राख्यो-नाम्ना सुन्दरबाहुकः । महाबाहू-रतिबलो-
 महाबलो-बलस्तथा ॥ ३४५ ॥ द्विष्टश्च-त्रिष्टश्च विष्णवो भाविनी नव । तिलको-लोहजंघश्च-वज्रजंघश्च-केशरी ॥ ३४६ ॥
 बलि-पह्लादनामाना-वपराजित-भीमकौ । सुग्रीवश्च त्रिकृष्णाः स्वचक्रेण हता नव ॥ ३४७ ॥ जयन्तो व्याजितो-धर्मः-
 सुप्रभाहः-सुदर्शनः । आनन्दो-नन्दनः-पद्मः संकर्षणो-बला नव ॥ ३४८ ॥ एकपष्टिस्तृतीयादरे शलाकापुरवास्तथा ।
 उत्सर्पिण्यास्तुरीये तु जिनश्चक्री च भाविनौ ॥ ३४९ ॥ कल्पद्रुमे समुत्पन्ने युग्मिनो भाविनस्ततः । अष्टादशकोटिकोटी-
 रैतराणि निरन्तरम् ॥ ३५० ॥ उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ कालचक्रं निगद्यते । तान्यतीतान्यनन्तानि पुनर्भाविनि भारते ॥ ३५१ ॥

१-श्रीदन्तः-भावलोकप्रकाशे । २-प्रतिवास्तुदेवाः ३-सागराणि ।

*-ते ते आरामां मनुष्य तथा तिर्यम-पंचेन्द्रिय-युगलिङ्ग लोचोनुं, सामान्य-स्वरूप, वर्तन, अने परिस्थिति.

आ अन्वसर्पिण्डिना-प्रथम भिले अने त्रीन (अने उत्सर्पिण्डिना-योथो पांचमो अने छ्ठा) आरामां अधात्थे गर्बज मनुष्य तथा तिर्यय
 पंचेन्द्रिय युगलिङ्गप (श्री-पुत्रप युग्मरूप) जन्म पाभे छे. ओटवे ते युगलिङ्गात्थो उडेवाय छे, अने ते तद्वथु अवस्थात्थे पति-पत्नीरूप
 व्यवहारथी संक्षणाथ छे. अधात्थे युगलिङ्गात्थो नैसर्गिङ्ग लावथी श्रेष्ठ सदैव प्रसन्न मनवाला, अल्प-रोग द्वेष मोह माया उपायाहि वाणा होय तेने
 लधने श्रेष्ठनेत्थे श्रेष्ठनिर्तनुं संघर्षणु शवानी उद्वपना रडेती नथी. ते वपतना हस्ती सिद्ध व्याघ्राहि हिंसक होवा छतां युगल-धर्मि तिर्यय-पंचेन्द्रिय
 प्राणिन्थो उद-प्रभावे पशु शिखाराहि (मांस-लक्षणु) करता नथी, अने ह्याई लार्था ह्येथी वतें छे, किन्तु उद्वपक्षना पत्र पुष्पादिनुं लक्षणु उरी
 स्वलवण निर्वाह करे छे. अने ते युगलङ्गात्थो मरीने देवगतिमां लय छे. तो मनुष्य-युगलिङ्गात्थो मरीने देवगतिमां लय तेमां आश्चर्य थुं ?

છ આરા અવસાપણી તથા ઉત્ક્રમથી (ઉત્સર્પિણી) કાલ-આયુષ્ય-પ્રમાણાદિ શોધક

ક્રમ	છ આરાના નામ	ફલ	કાલ-પ્રમાણ	આયુષ્ય	શરીર ઉચ્ચાઈ	આહારે-અથા	અહાર પ્રમાણ	પાસળી	અપલ્ય પાલન	જ્યોત્ષિપમાં આવેલ સાત ક્ષેત્રમાં એક સરખા કાલનું પ્રમાણ
૧	સુપમ-સુપમ (૬)	જેમાં સુખ ઘણું થઈ શકે છે	૪ કોડીકોડિ સામરોપમ	૩ પસ્યોપમ	૩ ગાઉ	દિવસ ૩ આદ	૫૧૨ પ્રમાણ	૨૫૬	૪૬ દિવસ	દેવકી તથા ઉત્તરકી આ બે ક્ષેત્રમાં મહેવ અવસર્પિણીના પ્રથમ આરા સદૃશ કાળ છે
૨	સુપમ (૫)	જેમાં ઘણું સુખ છે	૩-૧૧	૨ પસ્યોપમ	૨ ગાઉ	દિવસ ૨ આદ	જોર પ્રમાણ	૧૨૮	૬૪ દિવસ	હરિવર્ષ તથા રમ્યકમાં-આ બે ક્ષેત્રમાં સર્વદા અવસર્પિણીના બીજા આરા સદૃશ કાળ છે
૩	સુપમ-કૃપમ (૪)	જેમાં ઘણું સુખ અને શોડુ કૃપ	૨-૧૧	૧ પસ્યોપમ	૧ ગાઉ	દિવસ ૧ આદ	આમળા પ્રમાણ	૬૪	૭૮ દિવસ	કૃમવત તથા હેરણ્યવત આ બે ક્ષેત્રોમાં નિલ્ય અવસર્પિણીના ત્રીજા આરા સદૃશ કાળ છે
૪	કૃપમ-સુપમ (૩)	જેમાં કૃપ ઘણું ક્રિપી સુખ થોડું	૧-૧૧ માં (૪૨૦૦૦ વર્ષન્યૂન)	પૂર્વકોડ વર્ષ	૫૦૦ ધનુષ્ય	અનિયત	અનિયત		અનિયત	મહાવિદેહ-આ ક્ષેત્રમાં હમેશા અવસર્પિણીના ચોથા આરા સદૃશ કાળ છે
૫	કૃપમ (૨)	જેમાં ઘણું કૃપ હોય, પણ ઘણું કૃપ ન હોય તે કાલ	૨૧૦૦૦ વર્ષ	૧૩૦ વર્ષ	૭ હાથ	"	"		અનિયત	
૬	કૃપમ-કૃપમ (૧)	જેમાં ઘણું કૃપ	૨૧૦૦૦ વર્ષ	૨૦ વર્ષ	૨ હાથ	"	"		અનિયત	

સુપમ-કૃપમ-આ બે શબ્દોમાં પ્રથમ શબ્દ અધિકતા વાળો છે બન્યારે દ્વિતીય શબ્દ વિપરીત અટપ-વાચક બંધવો, અને જ્યાં દ્વિતીય શબ્દ ન હોય ત્યાં પ્રથમ શબ્દની અપેક્ષાએ ન્યૂનતા બંધવો

દરેક યુગદીક-મનુષ્યો વજ્રમ્બલનારાચંદ્રચણ વાળા, શ્મીષ્વજ્ઞનીહરરૂપ અને લાવણ્ય-સેવધિ જેવું હોય છે. જે સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં કહેલ અંગભૂષણરૂપ લક્ષણ વાળા, પુરૂષો કાંઈકે જિંચા સ્ત્રીઓ કાંઈકે નીચી, હસ્તિ-અશ્વ-વૃષભાદિ પશુઓ હોવા છતાં ઉપયોગ નહિ કરનારા, કિન્તુ ગમનાગ-મનાહિમાં પાદચારી, જ્વરાદિરોગ તથા સ્વામિ સેવક લાવથી રહિત, હુદરતે ભૂમિયર પાંચેલ વિદ્યમાન ધાન્યાદિ હોવા છતાં તેનો આહાર નહિ કરનારા અને કલ્પવૃક્ષથી ધમ્બીત વસ્તુને મેળવીને મનોરથોને પૂર્ણ કરી સદૈવ સુખમય રહે છે.

તે વખતે યુગલિક-ક્ષેત્રની ભૂમિઓ તથા વનસ્પતિઓ પણ ચક્રવર્તીના-માટે અનેલ અલ્યન્ત મનોહર મધુર સુસ્વાદિષ્ટ સ્નિગ્ધાદિ અતિઉત્તમ ક્ષિરાદિ ભોજ્ય પદાર્થો પણ અતીવ-નિરસ રૂપ લાગે છે. ક્ષેત્ર સ્વભાવથી કાંસ-મરુછર-માંકડ-જૂ નાના પ્રકારના શુદ્ર જંતુઓ અને આકાશ સંબન્ધી ઉપદ્રવો પણ તે કાલમાં હોતા નથી.

શ્રી છવાલિગમસૂત્રમાં આવે છે કે-“છમ્માસાવસેસાઝા જુગલં પસવંતિ” યુગલિકના માતા-પિતાનું છ માસ આયુષ્ય યાકી રહે ત્યારે યુગલિકનો જન્મ આપે, પ્રથમ અવં ના પ્રથમ આરે ૪૮ દિવસ, દ્વિતીયારે ૬૪ દિવસ તૃતીયારે ૭૯ દિવસ અપલ્ય-પાલન (આટલા દિવસોમાં તેઓ તરુણાવસ્થાને પાસ કરે છે. આજના કાલની જેમ ખાલવયાદિ માફક નહિ) કરે, શેષ છ માસ આયુષ્ય યાકી રહે ત્યારે યગ્નાસું-છીંક અને ખાંસી આદિ પૂર્વક અનુક્રમથી તે તે આરામાં મરણ થાય, એટલે પ્રથમારે-યગ્નાસું, દ્વિતીયારે-છીંક, તૃતીયારે-ખાંસી, અર્થાત્ તેઓને લાંબો કાલ વેદના વેદવી પડતી નથી, વધી અપલ્ય-પાલન આદ વુર્ત મરણ પામે એમ ન સમજવું (કલ્પિત્ છ માસ અધિક પશુ થાય) મરુ પામેલ યુગલિકાનો અગ્નિ-સંસ્કાર હોતો નથી, અગ્નિને અલાવ છે. જેથી તે યુગલમૃત કલેવરને ભારું-આદિ પક્ષીઓ ઉપડી સમુદ્ર-ગંગા-સિન્ધુ આદિ નદીમાં નાંખે છે. શ્રીકેમન્યન્દ્રસૂત્રિમાં પણ આદિનાથ ચરિત્રમાં કહેલું છે. કે-પુત્રા હિ મૃતપિયુત્ન-શરીરાણિ મહાનવાઃ નીઝ્કાણ્મિવોત્પાવ્ય સચધિક્ષિપુરસ્તુથૌ ॥ ૧ ॥

દશ પ્રકારના કલ્પ-વૃક્ષના નામો, તથા ફળો અને પ્રત્યેકના કાર્યો.

૧-મત્સાંગ-(મદાંગ) આ પ્રથમ કલ્પ-વૃક્ષનું નામ છે, મદ ઉપબલવવામાં કારણ હોવા આ કલ્પવૃક્ષોના ફળો છે, આ લોકમાં દ્રાક્ષાસવ, ચંદ્રહાસ, સુપકલ્પક્ષુ અતિસ્વાદિષ્ટ-દ્રાક્ષાદિ મધુરતાયુક્ત વિગેરે, માદક પદાર્થોના સદૃશ સુંદર રસ જેવા સ્નિગ્ધ આનંદદાયક તેવા રસો આ વૃક્ષોના પુષ્પોના ફળોમાં સ્વભાષિક-ઉત્પન્ન દ્રવ્યથી નિષ્પન્ન વાર્ણ-ગન્ધ અને રસથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે ફળો આદિના લક્ષણથી આરોગ્ય વિશિષ્ટ ઘલ-વીર્ય કાન્તિ મદાદિના હેતુ

અલ્પ પ્રસવતા આનંદ પેદા કરનાર, સુખવાસ વૃષ્ટિ આહ્વાદ પાનાહિની ગરજ સારે છે. અવસર્પિણીના પહેલા ત્રણ આરામાં કૃત્ય-વૃક્ષો હોય છે કાલ અને ભૂતોના પ્રભાવે ઉગે છે તે કૃત્ય-વૃક્ષો સ્વાભાવિક ફળો આપે છે અને યુગલિકોના મનોરથ પ્રમાણે પૂર્ણ કરે છે

૨-હૃદયતાગ-ભરવામાં કારણ એવા આ કૃત્ય-વૃક્ષોથી વટ કનથ થાળી વાટકા આદિ નાના પ્રકારના ફળરૂપ વાસણોની ઉત્પત્તિ અને પાતિ થાય છે કૃત્ય-વૃક્ષોના ફળો પત્રાદિ લાત ભાતના અકારની નકસી કારીગરીવાળા દેખાવમાં અતિ સુંદર મણિ-રત્ન-સુવર્ણ-રૂપાદિના વિચિત્ર ચમકવાલા ફળો વડે કૃત્તીને બનેલ હોય છે અને તેવા આકારના સ્વાભાવિક બનેલ હોય છે યુગલિકોને અનાજ પાણી ભરવાનું હોવું નથી છતા તેવા કાર્ય પ્રસંગે આનાથી સાધે છે,

૩-વૃદ્ધિતાગ-વાછત્રમાં કારણ આ કૃત્ય-વૃક્ષના સુંદર ફળો વાસળી વીંછા-મૃદગ-કમ્પતાલ, આદિ શુદ્ધ ભતના વાછત્રો, બનીસ બદ્ધ દેવી નાટકો, ચિત્રો અને વિચિત્ર ફીટમની જેમ જીવન લુદા આકારવાળા ફળો યુગલિકોને આનંદ પમાડે છે તથાવિધ સ્વભાવથી પરિણામ પામેલા છે

૪-ન્યોતિરગ-સૂર્ય સરખી પ્રભામાં કારણ આ કૃત્ય-વૃક્ષોના ફળોનો પ્રકાશ સૂર્યના અભાવમાં રાત્રીના સમયે અંધકારમાં પ્રકાશ આપે છે જે ફળોના પ્રકાશને ભોળા આખને સુખ ઉપજે તેવો કિન્દુ સૂર્યની માફક ઉત્તર નેથી રાત્રીમાં યુગલિઆઓને ગમનાગમનમાં મદદગાર બને છે કલિકૃત્તીક-લેખાહિની જેમ માટે દિવસે આનુ પ્રયોજન હોવું નથી

૫-દીપાગ-દીવા સરખું તેજ આપે છે આ કૃત્ય-વૃક્ષોના ફળો જેમ વરમાં દીવો પ્રકાશ આપે છે તેમ આ રાત્રીમાં અંધકારવાળા સ્થાનોમાં આ વૃક્ષોના શ્રેષ્ઠ ફળો ફાનસ દીપકની જેમ સરખા પ્રકાશને આપે છે (ન્યા ન્યોતિરગનો અભાવ હોય ત્યા દીપાગથી પ્રકાશ મેળવે) ન્યા ત્યા હાથમાં લઈ જતા પ્રકાશ આપે

૬-ચિત્રાગ-પયવર્ણના વિવિધ ભતિના પુષ્પો, પુષ્પકન્દુકો ગુચ્છાઓ તોરણો નાનાવર્ણની પુષ્પની માળાઓ આદિ આપે છે આ કૃત્ય-વૃક્ષના ફળો અનેક પ્રકારના રસવડે યુક્ત વ્રાણુ-તર્પણુ અતિઅમદ-સૌરભમય તથા પ્રકારના સ્વભાવથી જ પરિણમન પામેલ હોય છે

૭-ચિત્રરસાગ-અતિ ઉત્તમ નાના પ્રકારની રસવતીમાં કારણ આ કૃત્ય-વૃક્ષોના ફળો તથા પ્રકારની જે રસવતી કે સુસ્વાદિષ્ટ જુદી જુદી ભતના પ્રાથ પનાથ જેવાકે સિંહ-કેથારીખા લાડુ, લેખર-કાકાફલ-બરફી-મેસુર-પેડા-બાસુદી-કુધપાક-દાળ-અખડ-સ્વચ્છ પકવ તાદુલ શાકાદિ પાક શાસ્ત્રની

વિધિથી અનતી તમામ અત્રીશ પ્રકારના શાકો અને તેત્રીશ પ્રકારના લોજનો (લોબ્ઝ) ની રસવતીના અતીવ સુસ્વાદવાળાં ફળાદિ જે લોબ્ઝમાં અપરિમિત શ્રેષ્ઠ-સ્વાદવાળાં ખાવામાં મીઠાં અને મધુર, પાચનમાં હલકાં અને સ્વ-શીલાવાળાં જે ઇન્દ્રિય અને અલ યુદ્ધિના હેતુ રૂપ હોય છે.

૮-મહ્થંગ-વિવિધ પ્રકારના સુંદર આભૂષણોમાં કારણુ, આ કલ્પ-વૃક્ષોના ફળો તથા પ્રકારના સ્વભાવથી રત્ન-મોતી-મણી-સુવર્ણ-રૂપ્યાદિ યુક્ત ચૂડામણી સુગટ-હુંડલ-હાર-અર્ધહાર-અહિરખાં કંકણુ ઝુંબકાસહીત કંઠોરો મુદ્રિકા નપુર આદિ ભાત ભાતના આભૂષણો આપે છે.

૯-ગેહુકાર-વિવિધ પ્રકારના નિવાસરૂપ ગ્રાસાદો આપે છે. આ કલ્પ-વૃક્ષો તથા પ્રકારના સ્વભાવથીજ નાના પ્રકારના ગોળ-ત્રીકોણુ-ચતુષ્કોણુ-દ્વિના આકારે કોટ-પ્રકાર-ઝરૂખા સુખપૂર્વકચઢવા ઉતરવાને માટે પગથીઆ નાના પ્રકારની કારીગરીવાલા ખારી ખારણા અનેક ગુસ અને પ્રગટ શ્રેષ્ઠ ઝોરડા અને ચિત્ર વિચિત્ર લોચતલીયા વડે યુક્ત ચંદ્રમાની માક્રક ઉન્વલ વિચિત્ર ચિત્રો વડે શુશોભિત ભીતો સર્વ ઋતુમાં સુખને આપે તેવા એકાદિ અનેક માળવાલા ગ્રાસાદ યંગલા હવેલીઓ સુખ પૂર્વક પ્રવેશ નિર્ગમ ચઢવું ઉતરવા સહીત રંગબેરંગી સુંદર મહેલો ન્યારે યુગલિઆને આરામ કરવો હોય ત્યારે તેનો આશ્રય લે છે. આ કલ્પ-વૃક્ષો ફળ રૂપ પરિણમન પામેલ ન સમજવા. કિન્તુ સ્વયં વૃક્ષ-ગૃહાકારે બાણું સમજવું.

૧૦-અનિયત-આ નવ પ્રકારના કલ્પ-વૃક્ષોથી અતિરિક્ત છે. જે વસ્ત્ર આસન શય્યાદિ વિવિધ પદાર્થોને આપે આ કલ્પ-વૃક્ષોના ફળો નાના દેશો ત્પન વસ્ત્રોના લેહો જે મન ચક્ષુઃ અને શરીરને સુખ આપે તેનાથી પણ અધિક તથાવિધ દેવદૂધ્ય આદિ ઉત્તમ ભતિના રંગબેરંગી અતિ સૂક્ષ્મ સુકોમલ નિર્મલ વસ્ત્રરૂપે સ્વભાવિક પરિણામ પામે છે. તેમજ આસન શય્યાદિ આપે છે.

આ કલ્પ-વૃક્ષો વનસ્પતિ કાય હોય (કારણુ કે-અપદેયુ કલ્પવૃક્ષઃ) છે. આ દશ પ્રકારના કલ્પ-વૃક્ષો પ્રવચનસારોદ્ધાર, ભાવલોકપ્રકાશ, તથા ક્ષેત્રસમાસાદિ ગ્રન્થોથી દેવાધિષ્ઠિત હોતા નથી. કિન્તુ સ્વભાવિક તથા પ્રકારના કાલાદિ પરિણામવાળા છે. દરેક ભતિના કલ્પ-વૃક્ષો સ્થાને સ્થાને અનેકાનેક હોય છે. પણ એકાદિ ભતિવાળા હોતા નથી. કલ્પ-વૃક્ષ સિવાય વર્તમાન ભતિના અશોક-ચમ્પક-યુનાગ-પિંચણુ-આત્રાદિના કાકો ઠર ઠર નાના પ્રકારના હોય છે. “(પૂ. શ્રીદાનસૂરિમાં ના. પ્રશ્નોત્તર લા. ૧, પાને ૧૮, પ્ર. ૩૨-કલ્પવૃક્ષ, ચિન્તામણિરત્નઆદિ ઉત્તમવસ્તુઓ

प्रभुरूपे न शक्रायुः-सन्धौ जिना अपि क्षमाः । अभाव्यं न भवेन्न स्या-त्राशौ भावस्य भाविनः ॥ ३६२ ॥ कल्याणफलपाकानि तथा पापफलानि च । पंचपंचाशतं वीरोऽ-ध्ययनानि निगद्य च ॥ ३६३ ॥ षट्त्रिंशत्तमथाऽऽख्यायाऽ-पृष्टव्याकरणानि च । शैलीशीकरणं कृत्वा प्रधानाऽव्ययनं सरन् ॥ ३६४ ॥ पंचह्रस्वाक्षरोच्चार-प्रमिताज्जेहसा जिनः । कृतयोगनिरोधः सन् 'सिद्धिसौघ-

१-श्रीमल्लुवीरस्वामिना निर्वाणुथी

३ वर्षे अने ८॥ मास गये छते, अतुर्थ (योथा) आरानी समाप्ति, अने थान्ने द्विवसे.

२१००० " नो, पांथमां आरानी शइयात.

२१००३ " ८॥ मास, श्रीमल्लुवीरस्वामानना निर्वाणुथी गये छते (पांथमा आरानी समाप्ति) अने,

२१००० " नो, छ्वा आरानी शइयात.

४२००३ " ८॥ मास, श्रीमल्लुवीरस्वामानना निर्वाणुथी गये छते छ्वा आरो (अने आम अवसरिणुथी क्षत्र) समाप्त, अने,

२१००० " नो, उत्सरिणुथीना प्रथम आरानी शइयात.

६३००३ " ८॥ मास, श्रीमल्लुवीरस्वामानना निर्वाणुथी गये छते (उत्सरिणुथी प्रथम आरो समाप्त) अने

२१००० " नो, उत्सरिणुथीना थान्ने आरानी शइयात.

८४००३ " ८॥ मास, श्रीमल्लुवीरस्वामानना निर्वाणुथी भये उत्सरिणुथी थान्ने आरो समाप्त. अने,

३ " ८॥ मास, थान्ने-आराना गये प्रथम तीर्थकर जन्म.

८४००७ " ५ मास, श्रीमल्लुवीरस्वामानना निर्वाणुथी गये (अष्टिष्ठ शान्तो छव) प्रथम तीर्थकर श्रीपद्मनाल्लउन तरीडे जन्म.

- ८ " " पोष्णो पद्म्योपम छासठ द्वाप अउसेठ हुन्तर सात वर्ष अने पांच मास गये नवमां श्रीपोद्दिल्लेण जन्म, आह-
पोष्णो पद्म्योपम न्यून जेवा नष्णु सागरोपमे दशमां श्रीशतकीर्तिण जन्म.
- १० " " नष्णु सागरोपम छासठ द्वाप अउसेठ हुन्तर सात वर्ष अने पांच मास गये दशमां श्रीशतकीर्तिण जन्म, आह-
आर सागरोपमे अग्यारमां श्रीसुनिसुव्रतण जन्म.
- ११ " " सात सागरोपम छासठ द्वाप अउसेठ हुन्तर सात वर्ष अने पांच मास गये अग्यारमां श्रीसुनिसुव्रतण जन्म,
आह-नव सागरोपमे आरमां श्रीव्यभमण जन्म.
- १२ " " सोद सागरोपम छासठ द्वाप अउसेठ हुन्तर सात वर्ष अने पांच मास गये आरमां श्रीव्यभमण जन्म, आह-
नीश सागरोपमे तेरमां श्रीनिष्कथायण जन्म.
- १३ " " छेतादीश सागरोपम छासठ द्वाप अउसेठ हुन्तर सात वर्ष अने पांच मास गये. तेरमां श्रीनिष्कथायण जन्म,
आह-योपन सागरोपमे अठमां श्रीनिष्पुलाकण जन्म.
- १४ " " जेकशो सागरोपम छासठ द्वाप अउसेठ हुन्तर सात वर्ष अने पांच मास गये अठमां श्रीनिष्पुलाकण जन्म,
आह-जेकशो सागरोपम छासठ द्वाप अउसेठ हुन्तर सात वर्ष अने पांच मास गये अठमां श्रीनिष्पुलाकण जन्म.
- १५ " " जेक छोड सागरोपम जेतादीश हुन्तर सात वर्ष अने पांच मास गये पंदरमां श्रीनिष्पुलाकण जन्म, आह-नव छोड
सागरोपमे सोदमां श्रीव्यभमण जन्म.
- १६ " " दश छोड सागरोपम जेतादीश हुन्तर सात वर्ष अने पांच मास गये सोदमां श्रीव्यभमण जन्म, आह-नेव
छोड सागरोपमे सत्तरमां श्रीसमाधिण जन्म.

- ૧૭ " " " સો ક્રોડ સાગરોપમ ભેતાલીશ હલ્લર સાત વર્ષ અને પાચ માસ ગયે સત્તરમાં શ્રીસમાધિછન જન્મ, બાદ-નવસે ક્રોડ સાગરોપમે અઢારમા શ્રીસવરછન જન્મ
- ૧૮ " " " એક હલ્લર ક્રોડ સાગરોપમ ભેતાલીશ હલ્લર સાત વર્ષ અને પાચ માસ ગયે અઢારમા શ્રીસ-નરછન જન્મ, બાદ-નવ હલ્લર ક્રોડ સાગરોપમે ઝોગણીશમા શ્રીયશોધરછન જન્મ
- ૧૯ " " " દશ હલ્લર ક્રોડ સાગરોપમ ભેતાલીશ હલ્લર સાત વર્ષ અને પાચ માસ ગયે ઝોગણીશમા શ્રીયશોધરછન જન્મ, બાદ-નેવુ હલ્લર ક્રોડ સાગરોપમે વીશમા શ્રીવિજયછન જન્મ
- ૨૦ " " " એક લાખ ક્રોડ સાગરોપમ ભેતાલીશ હલ્લર સાત વર્ષ અને પાચ માસ ગયે વીશમા શ્રીવિજયછન જન્મ, બાદ-નવ લાખ ક્રોડ સાગરોપમે એકવીશમા શ્રીમહ્લછન જન્મ
- ૨૧ " " " દશ લાખ ક્રોડ સાગરોપમ ભેતાલીશ હલ્લર સાત વર્ષ અને પાચ માસ ગયે એકવીશમા શ્રીમહ્લછન જન્મ, બાદ-દશ લાખ ક્રોડ સાગરોપમે બાવીશમા શ્રીદેવછન જન્મ
- ૨૨ " " " વીશલાખ ક્રોડ સાગરોપમ ભેતાલીશ હલ્લર સાત વર્ષ અને પાચ માસ ગયે બાવીશમા શ્રીદેવછન જન્મ, બાદ-ત્રીશ લાખ ક્રોડ સાગરોપમે ત્રેવીશમા શ્રીઅનતવીર્યછન જન્મ
- ૨૩ " " " પચાશ લાખ ક્રોડ સાગરોપમ ભેતાલીશ હલ્લર સાત વર્ષ અને પાચ માસ ગયે ત્રેવીશમા શ્રીઅનતવીર્યછન જન્મ, બાદ-પચાશલાખ ક્રોડ સાગરોપમે ચોવીશમાં શ્રીભદ્રછન જન્મ
- ૨૪મા-શ્રીમહાવીરલગનાનના નિર્વાણથી-એક ક્રોડાક્રોડી સાગરોપમ ભેતાલીશ હલ્લર સાત વર્ષ અને પાચ માસ ગયે, ચોવીશમા શ્રીભદ્રછન જન્મ

शुपागतः ॥ ३६५ ॥ समुत्पन्नेषु भूयस्सु तदाऽनुद्धारकुन्धुषु । दुष्पालं संयमं मत्वाऽ-नशनं साधवो व्यधुः ॥ ३६६ ॥ नव मल्लकि-
 ज्ञातीया लेच्छकिज्ञातयो नव । दशाष्टौ गणराजानः काशी-कोसलभृशृतः ॥ ३६७ ॥ अमावास्यादिने कृत्वा ह्युपवासं संपौष-
 धम् । भवोद्योते गते द्रव्यो-द्योतदीपान्निशि व्यधुः ॥ ३६८ ॥ गच्छद्भिर्देवदीना-मागच्छद्भिर्गैस्तथा । ज्योतिर्मयी निशा
 साऽभू-न्मेराइयरवाकुला ॥ ३६९ ॥ इतो देवमुखात् ज्ञात्वा मोक्षं वीरस्य गौतमः । निर्मोहतामयं स्वस्य चिंतयामास चेतसि
 ॥ ३७० ॥ भावयतो विमोहत्वं गौतमस्य गणेशितुः । धीणमोहस्य संजज्ञे केवलज्ञानमुज्ज्वलम् ॥ ३७१ ॥ ततः प्रभृतिलोकेषु पर्य-
 दीपोत्सवभिधम् । सर्वतो दीपनिर्माणत् प्रावर्त्तत महीतले ॥ ३७२ ॥ मर्यामत्यर्गवादीनां चक्रे नीराजना जनैः । भस्मक-
 प्रतिघाताय मेराइयमभूत्ततः ॥ ३७३ ॥ वीरमोक्षमहिमानं कृत्वा श्रीगौतमप्रभोः । पूर्णज्ञानोत्सवं चक्रे शक्रः प्रतिपदः प्रणे
 ॥ ३७४ ॥ श्रीगौतमोक्त-श्रीसूरि-मन्त्राराधकसूरयः । अक्षार्चनां विनिर्मान्ति दिनेऽसिन् चन्दनादिभिः ॥ ३७५ ॥
 निर्वांरां क्षितिमाऽऽप्य मो-हचरदो लुण्टन्नलं सर्वतो, दृष्टः श्रीगणनायकेन वदता मे राज्यमेतन्न किम् ? । जानासि त्वमहो सुमूर्धुर-
 धुनाऽयासीति दूरे क्रिय, नद्यो दीपकरैरैर्निजगृहात्सर्वच्छलाल्नास्यते ॥ ३७६ ॥ श्रीवीरि निर्धृते राजाऽ-भुंजानो नंदिवर्द्धनः ।
 द्वितीयायां सुदर्शना-भगिन्या भोजितो बलात् ॥ ३७७ ॥ ततो आतृ-द्वितीयाऽभू-द्विश्रुता जगतीतले । संप्रते ! भूपते ! तेन
 ख्याता दीपालिका जने ॥ ३७८ ॥ राजा पुनर्जगादाऽऽर्य-सुहस्ताचार्यपुंगवान् । प्रभो ! पुनः समस्येप संशयो मम मानसे ॥ ३७९ ॥
 वस्त्रानफलपात्रादे-भौंगो गेहादिमण्डनम् । अन्योऽन्यं जनो जोत्काराः कसादसिन् दिने विभो ! ॥ ३८० ॥ अबोचन् वाचना-

चार्याः शृणु हेतुं महीपते ! । उज्जयिन्यां नृपो घर्मां नमुचिस्तस्य धीसखः ॥ ३८१ ॥ विहरन्तोऽन्यदा तत्र क्षरयः समवासन् ।
 मुनिमुग्रत-तीर्थेश-शिष्याः श्रीसुव्रताह्वयाः ॥ ३८२ ॥ वन्दनार्थं गतस्तेषां श्रीघर्मः सपरिच्छदः । नमुचिः सचिवस्तस्य वदन्
 क्षुद्धेन निर्रितः ॥ ३८३ ॥ कोपाटोपवशः सोऽथ मुनीन् हन्तुमना निधि । निष्कृपः कृष्टनिस्त्रिंशः साञ्चासनमुयागतः ॥ ३८४ ॥
 जैनदेवतया तावत् स्तम्भितः पथि संस्थितः । प्रभातं च ततो जात-मुद्गतस्तपनातपः ॥ ३८५ ॥ श्रीघर्मः भूपतिः प्राप्तो गुरुवन्तु
 निरीक्षितः । स्तम्भितो नमुचिस्तेन धमयित्वाऽथ मोचितः ॥ ३८६ ॥ नराधिपेन लोकेन धिक्कृतो लज्जितस्ततः । निर्गल्य नगराद्भ्राम्यन्
 हस्तिनागपुरं गतः ॥ ३८७ ॥ तत्र पद्मोत्तरो राजा ज्वालादेव्यस्ति तत्रिया । सम्यक्त्वशीललावण्य-गुणालकारमण्डिता ॥ ३८८ ॥
 तयोः स्ते विष्णुकुमार-महापद्मौ तनूहौ । भुवनानन्दनी शूरी दानकल्पद्रुमोपमौ ॥ ३८९ ॥ यौवराजपदं विष्णु-कुमारे
 तनमीप्सति । पिता प्रमुदितस्त्वान्तो महापद्मस्य दत्तवान् ॥ ३९० ॥ महापद्मकुमारस्य नमुचिर्मिलितोऽन्यदा । स्थापितः सचिवस्तेन
 मानसग्नानपूर्वकः ॥ ३९१ ॥ सोऽन्यदा सिंहशौण्डीर जिग्ये सिंहस्थं नृपम् । ददौ पद्मो वर तुष्टः स च न्यासीचकार तम् ॥ ३९२ ॥
 ज्वालादेव्याऽन्यदा मोदा-द्रथयात्राचिकीर्षया । रथो निर्मापितो जैनः खर्णरत्नैरलङ्कृतः ॥ ३९३ ॥ सपत्न्याऽथ तदा तस्या
 मोहमिथ्यात्वमूढया । लक्ष्म्यापि स्पर्द्धया श्रौढः कास्तिो ब्राह्मणो रथः ॥ ३९४ ॥ रथाकृष्टिनिभिचेन वादं जाते द्वयोस्तयोः ।
 कलहनिष्ठुर्यै राजा रथौ द्वावप्यवारयत् ॥ ३९५ ॥ महापद्मस्तदा मातु-रपमानं तथा कृतम् । समीक्ष्य दुःखितस्त्वान्तो गतो देश-
 न्तरं प्रति ॥ ३९६ ॥ स शक्रविक्रमाक्रान्त-पट्टरुण्डक्षीणिमण्डलः । ऊढा मदनावलीकः प्राप्तचक्रिपदोऽभवत् ॥ ३९७ ॥

१-महातो ।

तादृश्याऽसमया ऋद्ध्या पद्मः प्राप्तो निजे पुरे । पित्रा प्रवेशितोऽतुच्छ-धनोत्सवपुरस्सरम् ॥ ३९८ ॥ ततो भरतसाम्राज्या-भिषेकं
सन्महोत्सवम् । महापद्मस्य राजानश्चक्रुः पद्मोत्तरादयः ॥ ३९९ ॥ साकं विष्णुकुमारेण नृपः पद्मोत्तरस्ततः ।
सुव्रताचार्यपादान्ते प्रव्रज्य त्रिंदिचं ययौ ॥ ४०० ॥ षष्टिशतानि ६००० वर्षाणि तपस्तीव्रं वितन्वतः । जाता विष्णुकुमारस्य
लब्धयो वैक्रियादिकाः ॥ ४०१ ॥ महापद्मनरेन्द्रेण तुंगशृंगैर्गतप्रमैः । प्रतिद्रुंगं प्रतिग्रामं प्रासादैर्भूषिता मही ॥ ४०२ ॥ प्रौढप्रभा-
वनापूर्व-खर्णरत्नमयै रथैः । जनन्याः पूरितस्तेन रथयात्रामनोरथः ॥ ४०३ ॥ वरेण नमुची राज्यं ऋतुहेतोरयाचत । चक्री दत्त्वा
तदेतस्य स्वयमन्तःपुरे स्थितः ॥ ४०४ ॥ तदा वर्षाचतुर्मासा-भिग्रहा हस्तिनापुरे । परिवारयुतास्तस्युः श्रीमत्सुव्रतसूरयः
॥ ४०५ ॥ निरीक्ष्य नमुचिः स्रून्त् सारन् वरं तदाऽवदत् । त्वां मुक्त्वा भक्तितः सर्वे लिङ्गिनो मामुपस्थिताः ॥ ४०६ ॥ स्थेयं न
साधुभिस्तन्मे भूमौ सप्तदिनोपरि । स्याता यस्तमहं हन्ता देयं मम न दूषणम् ॥ ४०७ ॥ प्रधानैः सचिवैः सोऽथ संवेन च
बहूक्तिभिः । स्थित्यर्थं तत्र साधूनां मानितोऽपि न मन्यते ॥ ४०८ ॥ संघस्यानुज्ञया पेय्य साधू सुव्रतसूरयः । मेरुशृङ्गस्थितं
विष्णु-कुमारं मुनिमाह्वयन् ॥ ४०९ ॥ गुर्वादेशेन स प्राप्तो ववन्दे स्वगुरुन् मुदा । आकारणनिमित्तं तै-स्तस्याऽऽकथि यथातथम्
॥ ४१० ॥ ततो विष्णुकुमारोऽगा-चदानीं नृपसंसदि । स नेमे नमुचिं मुक्त्वा निःशेषैरपि राजभिः ॥ ४११ ॥ उवाच नमुचिं
विष्णुः पूरिताभिग्रहा नृप ! । यास्यन्ति साधवः स्थित्यै कियन्तीं देहि तन्महीम् ॥ ४१२ ॥ ततस्तस्य नृपः पृथ्वीं त्रिपदीप्रमिता-

१-समं विष्णुकुमारेण स्वयं पद्मोत्तरो नृपः । सुव्रताचार्यपादान्ते परिव्रज्य ययौ शिवम् ॥ इतिदीपालिकाकल्प, श्लो०-२५३ ॥ २-यज्ञने माटे कार्तिक
पूर्णिमां सुधी । ३-चहूक्तिभिः । ४-हृद्य चोमासानो अभिग्रह पूर्णं थयो नथी ।

मद्रात् । तन्निशम्य वचत्स्य स कोपाटोपवानभूत् ॥ ४१३ ॥ लक्ष्योजनमानाङ्गो विष्णुर्वैक्रियलन्धितः । क्रमौ पूर्वोपरोदध्यो-
 र्न्यस्य विश्वमक्रम्यत् ॥ ४१४ ॥ वृतीय नमुचेः शृष्टेऽ-निष्ट क्रममतिष्ठिपत् । क्षिप्तस्त्रिविक्रमेणेति रसातल वली रिपुः ॥ ४१५ ॥
 चैलाचलाचला जज्ञे पर्वताश्च चकम्पिरे । समुद्रा मुक्तमर्यादा भयग्रस्ता ग्रहास्तदा ॥ ४१६ ॥ इदं किमिति सत्रान्ता-अभूवंस्त्रिदशा
 अपि । जातशङ्कोऽस्तशङ्कोऽपि शक्रस्तत्र क्षणेऽजनि ॥ ४१७ ॥ अवधिज्ञानतो ज्ञात्वा निमित्तं तत्र वासवः । गन्धर्वांन् ग्रहिणोद्विष्णु-
 कुमारस्योपशान्तये ॥ ४१८ ॥ शक्रनिर्दिष्टगन्धर्व-गीतैः शाम्यशमाऽमृतैः । विष्णुः प्रशान्तकोपाग्नि-जज्ञेऽसीमशमोदधिः ॥ ४१९ ॥
 स्वभास्य तदा सायु महापद्मोऽज्जमत्सुदा । तमुपालम्य स्त्रीणा पादान्ते मुनिरागतः ॥ ४२० ॥ अलोचितः प्रतिक्रान्तः पाप संघ-
 प्रभावनाम् । कृत्वा विशुद्धचारित्र-युक्तो विष्णुः शिवं गतः ॥ ४२१ ॥ उपशान्ते तदोत्पाते पुनरुत्थीवितो जनः । समूय भोजना-
 च्छादाऽ-लङ्काराद्युत्सवान्व्यधात् ॥ ४२२ ॥ प्रतिवर्षं ततो लोकः करोति प्रतिपदिने । बह्वान्नपानजोत्कार-गेहभूषादिकोत्सवान्
 ॥ ४२३ ॥ यो मुनीनामवज्ञाकृ-न्नरूपो मृगो हि सः । इति ख्यातीकृते राज्ञा कारितो गौहिसोऽभवत् ॥ ४२४ ॥ श्रीवर्ध
 माननिर्माण-वल्याणकदिने नृपैः । दीपाना करणाष्टोके जज्ञे दीपोत्सवस्थितिः ॥ ४२५ ॥ चतुर्दश्याममावास्यां षोडशग्रहरावधिः ।
 उपोष्य कोटिसहित पूजयेत् श्रुतमष्टधा ॥ ४२६ ॥ पंचाशतं सहस्राणि परिवार सगौतमम् । स्मृत्वा स्वर्गाम्बुजेऽखण्ड-दीपो

१-ते देवा षडल पृथ्वी एण चलायमान यइ । २-जुहारसा । ३-गोहिसो-छाणनो गोह, जे साधुओनी निंदा करे छे, ते मनुष्य छतां पशु
 समान ७ छे, तेहुं सर्वे स्थाने प्रसिद्धिमां लावया माटे राजापु घेर घेर गोहिसो (गोवर्द्धन) घतनी बाहेर करा-यो, हउ पण मारवाड
 बिगिरेमां छाणनो गोहिसो करवामां बाये छे । ४-अष्टधा-चद्वान् पूर-दीप नैवेद्य यत्र दूर बुजुम-नाणकदि ।

बोध्यः सतण्डुलः ॥ ४२७ ॥ इत्थं सहस्रपंचाश-द्वुणं पुण्यमुपाज्यते । जैनधर्मरता भव्याः प्राप्नुवन्त्यक्षयं सुखम् ॥ ४२८ ॥ यथा
 वृक्षेषु कल्पद्रुः सुरेषु त्रिदशाधिपः । चक्रवर्ती नरेन्द्रेषु नक्षत्रेषु हिमश्रुतिः ॥ ४२९ ॥ तेजस्विषु दिवानाथः सुवर्णं सर्व-
 धातुषु । तथा दीपालिकापर्व-प्रधानं सर्वपर्वसु ॥ ४३० ॥ वीरतीर्थपतिराप निर्धृतिं यत्र केवलरमां च गौतमः । राजभिर्व्यरचि-
 दीपकोत्सवस्तत्रतोऽतिगुरुपर्वभूतले ॥ ४३१ ॥ जयश्रियं यच्छतु वः स एष दीपोत्सवाख्यो दिनचक्रवर्ती । समस्तविश्वत्रितयप्रदत्त-
 राज्योत्सवैर्निर्मितसर्वसिद्धिः ॥ ४३२ ॥ एवं निशम्याऽऽर्यसुहस्तिस्सूरे-दीपालिकापर्वसमस्तदेशे । प्रावीद्वृत्तत् सम्प्रतिभूमिभक्तो
 राज्यं वितन्वन् प्रतिवर्षमत्र ॥ ४३३ ॥ अन्यकर्तृकदीपालि-कल्यादिषु विलोकितः । अर्थो न्यबन्धि कल्पेऽत्र खान्योपकृतिहेतवे
 ॥ ४३४ ॥ यदवद्यं भवेदत्र मन्दबुद्धित्वहेतुना । तदुदारकृपावद्भिः शोधनीयं मनीषिभिः ॥ ४३५ ॥ संवत्सरेऽग्नि-३ द्विप ८ विश्व
 -१४ (१४८३) संमिते, दीपालिकाकल्पमशुं विनिर्ममे । तपागणाधीश्वर-सोमसुंदर-श्रीह्यरिशिव्यो जिनसुंदराह्वयः ॥ ४३६ ॥
 दीपालिकापर्वकल्पोऽयं वाच्यमानः सुधीजनैः । जीयाज्जयश्रियो हेतु-राचन्द्राकृजगत्त्रये ॥ ४३७ ॥ श्रीतपागच्छाधिराज-
 श्रीसोमसुंदरसूरेः । शिष्यभङ्गारकप्रभो-जिनसुंदरसूरेः कृतिरेषा विनिर्मिता ॥

नव स्मरणानि ।



(१) प्रथम नमस्कारमन्त्रस्मरणम्—नमो अरिहंताणं १ ॥ नमो सिद्धाणं २ ॥ नमो आयरियाण ३ ॥ नमो उवज्जायाण ४ ॥ नमो लोए सबसाहूणं ५ ॥ ' एसो पंचनमुक्कारो, सबपावप्पणासणो । मंगलाणं च सबेसिं, पढम हवइ मंगलं ॥ १ ' ॥

(२) द्वितीयं उपसर्गहरस्मरणम्—उवसग्गहरं पासं पासं वदामि कम्मघणमुक्कं । विसहरविसनिन्नास मगलकळाणआवासं ॥ १ ॥ विसहरफुलिंगमंतं कंठे धारेइ जो सया मणुओ । तस्स गहरोगमारीदुट्टजरा जति उवसाम ॥ २ ॥ चिट्ठउ दूरे मतो तुज्झ पणामोऽवि बहुफलो होइ । नरतिरिएसुऽवि जीवा पावंति न दुक्खदोगच्च ॥ ३ ॥ तुह सम्मत्ते लद्धे चितामणिकप्पपायवऽब्भहिए । पावंति अविग्घेण जीवा अयरामर ठाणं ॥ ४ ॥ इअ सथुओ महायस ! भत्तिभर-

निःभरेण हिअएण । ता देव ! दिज्ज बोहिं भवे भवे पासजिणचंद ! ॥ ५ ॥

(३) तृतीयं शान्तिऋस्मरणम्—संतिकरं संतिजिणं जगस्सरणं जयसिरीइ दायारं । समरामि भत्तपालगनिघाणीगरुडकयसेवं ॥ १ ॥ ॐ सनमो विष्णोसहिपत्ताणं संतिसामिपायाणं । इँओ स्वाहा-
 मंतेणं सवासिवदुरिअहरणाणं ॥ २ ॥ ॐ संतिनमुक्कारो खेलोसहिमाइलद्धिपत्ताणं । सँओ इँओ (स)
 नमो सवोसहिपत्ताणं च देइ सिरिं ॥ ३ ॥ वाणीतिहुअणसामिणिसिरिदेवीजक्खरायगणिपिडगा ।
 गहदिसिपालसुरिंदा सयावि रक्खंतु जिणभत्ते ॥ ४ ॥ रक्खंतु मम रोहिणी पैन्नत्ती वैज्जसिखला
 य सया । वज्जकुँसि चक्केसरि नैरदत्ता कालि महाकाली ॥ ५ ॥ गौरी तह गंधारी महजाला
 माणवी अ वैइरुहा । अँच्छुत्ता माणसिआ महमाणसियाउ देवीओ ॥ ६ ॥ जक्खला गोमुह मह-
 जक्ख तिमुह जक्खेस तुंबेरु कुँसुमो । मायंगो विजयाइजिअ बंभो मेणुओ सुरकुमारो ॥ ७ ॥
 छँम्मुह पयाल किन्नर गरुलो गंधंभ तहय जक्खिंदो । कुँबर वरुणो भिँउडी गोमेहा^{२२} पाँस^{२३} मायंगो
 ॥ ८ ॥ देवीओ चक्केसरि अजिँआ दुरिआरि कालि महाकाली । अँच्चुअ संता जाला सुतारयाइसोअं
 सिरिचच्छीं ॥ ९ ॥ चंडीं विजैयंकुसि पैन्नइत्ति निँवाँणि अँच्चुआ धरणी । वइरुहेँइलुत्त गंधारि अँव



श्री गौतमस्वामी

श्री मरीचिय त्रेम-व्या मरुत

३२ मीणवि वैङ्करुह तह य अञ्छुत्ता । मीणसि महर्माणसिआ विजादेवीओ रक्खंतु ॥ ८ ॥ पंचदस-
कम्मभूमिसु उप्पन्नं सत्तरिं जिणाण सयं । विविहरयणाइवन्नो-वसोहिअं हरउ दुरिआइं ॥ ९ ॥
चउतीसअइसयजुआ अट्टमहापाडिहेरकयसोहा । तित्थयरा गयमोहा झाएअवा पयत्तेणं ॥ १० ॥
ॐ वरकणयसंखविट्टुममरगयघणसन्निहं विगयमोहं । सत्तरिसयं जिणाणं सवामरपूइअं वंदे ॥ ११ ॥
स्वाहा ॥ ॐ भवणवइवाणवंतरजोइसवासी विमाणवासी अ । जे केवि दुट्टदेवा ते सबे उवसमंतु मम
॥ १२ ॥ स्वाहा ॥ चंदणकपूरेणं फलए लिहिऊण खालिअं पीअं । एगंतराइगहभूअसाइणिमुगं
पणासेइ ॥ १३ ॥ इअ सत्तरिसयजंतं सम्मं मंतं दुवारि पडिलिहिअं । दुरिआरिविजयवंतं
निब्भंतं निच्चमच्चेह ॥ १४ ॥

(५) पञ्चम नमिऊणस्मरणम्—नमिऊण पणयसुरगणचूडामणिकिरणरंजिअं मुणिणो । चलण-
जुअलं महाभयपणासणं संधवं बुच्चं ॥ १ ॥ सडियकरचरणनहमुह—निबुडुनासा विवन्नलायन्ना ।
कुट्टमहारोगानलफुलिंगनिदुद्धसंबंगा ॥ २ ॥ ते तुह चलणाराहणसलिलंजलिसेयबुद्धियच्छाया ।
वणदवदद्धा गिरिपा—यवव पत्ता पुणो लच्छि ॥ ३ ॥ युग्मं ॥ दुवाययुभियजलनिहिउब्भडकछोल-

भीसणारावे । समंतभयविसंतुलनिजामयमुक्कवावारे ॥ ४ ॥ अविदलिअजाणवत्ता खणेण पावंति
 इच्छिअ कूल । पासजिणचलणजुअल निच्च चिअ जे नमंति नरा ॥ ५ ॥ युग्मं ॥ खरपवणुद्धुय
 वणदवजालावलिमिलियसयलदुमगहणे । डञ्जंतमुद्धमयवहुभीसणरवभीसणम्मिं वणे ॥ ६ ॥ जग-
 गुरुणो कमजुअल निष्ठाविसयलतिहुअणाभोअं । जे संभरति मणुआ न कुणइ जलणो भयं तोसिं
 ॥ ७ ॥ युग्म ॥ विलसंतभोगभीसणफुरिआरुणनयणतरलज्जिहालं । उग्गमुअगं नवजलयसत्थहं
 भीसणायांरं ॥ ८ ॥ मन्नंति कीडसरिसं दुरपरिच्छूढविसमविसवेगा । तुह नामक्खरफुडसिद्धमं-
 तगुरुआ नरा लोए ॥ ९ ॥ युग्म ॥ अडवीसु भिल्ल-तक्कर-पुलिद-सदूलसदह्मीमासु । भयविहुरवु-
 न्नकायर-उद्धुरिअपहिअसत्थासु ॥ १० ॥ अविच्छुत्तविहवसारा तुह नाह ! पणाममत्तवावारा । वव-
 गयविग्घा सिग्घं पत्ता हियइच्छिय ठाण ॥ ११ ॥ युग्मं ॥ पज्जलिआनलनयण दूरवियारियमुहं
 महाकाय । नहकुलिसघायविअलिअगइंदकुंभत्थलाभोअं ॥ १२ ॥ पणयससभमपत्थिवनहमणिमा-
 णिक्कपडिअपडिमस्स । तुह वयणपहरणधरा सीहं कुद्धपि न गणति ॥ १३ ॥ युग्मं ॥ ससिधवल-
 दत्तमुसलं दिहकरुल्लालवुद्धिउच्छाह । महुपिंणनयणजुअल ससलिलनवजलहेरावं ॥ १४ ॥ भीमं

महागइंदं अच्चासन्नंपि ते नवि गणंति । जे तुम्ह चलणजुअलं मुणिवइ ! तुंगं समल्लीणा ॥ १५ ॥
 युग्मं ॥ समरस्मि तिवखगगाभिघायपविद्धउच्छुयकबंधे । कुंतविणिभिन्नकरिकलहमुक्कसिक्कार-
 पउरस्मि ॥ १६ ॥ निजियदप्पुधुररिउनरिंदनिवहा भडा जसं धवलं । पावंति पावपसमिण ! पास-
 जिण ! तुह प्पभावेण ॥ १७ ॥ युग्मं ॥ रोगजलजलणविसहरचोरारिमइंदगयरणभयाइं । पास-
 जिणनामसंकित्तणेण पसमंति सवाइं ॥ १८ ॥ एवं महाभयहरं पासजिणिंदस्स संथवमुआरं ।
 भवियजणाणंदयरं कल्ल्हाणपरंपरनिहाणं ॥ १९ ॥ रायभय-जखल-रखलस-कुसुमिण-दुसुमिण-रिखल-
 पीडासु । संझासु दोसु पंथे उवसग्गे तह य रयणीसु ॥ २० ॥ जो पढइ जो अ निसुणइ ताणं कइणो
 य माणतुंगस्स । पासो पावं पसमेउ सयलभुवणच्चिअचलणो ॥ २१ ॥ उवसगंते कमठा-सुरस्मि
 ज्ञाणाओ जो न संचलिओ । सुर-नर-किन्नरजुवईहिं संथुओ जयउ पासजिणो ॥ २२ ॥ एअस्स
 मज्झयारे अट्टारसअवखरेहिं जो मंतो । जो जाणइ सो ज्ञायइ परमपयत्थं फुडं पासं ॥ २३ ॥
 पासह समरण जो कुणइ संतुट्टे हियएण । अट्टतरसय वाहिभय, नासइ तस्स दूरेण ॥ २४ ॥
 (६) षष्ठं अजितशान्तिस्मरणम्—अजिअं जिअसवभयं संतिं च पसंतसवगयपावं । जयगुरु

संनिगुणकरे दोऽवि जिणवरे पणिवयासि ॥ १ ॥ गाहा ॥ ववगयमंगुलभावे ते हं विउलतवनिम्मल-
 म्हावे । निरुवममहप्पभावे योसासि सुदिट्ठसव्भावे ॥ २ ॥ गाहा ॥ सबदुम्बलप्पसंतीणं, सबपाव-
 प्पसतीण । सया अजियसंतीण, णमो अजिअसतीणं ॥ ३ ॥ सिलोगो ॥ अजिअजिण ! सुहप्प-
 यत्तण, तन पुरिसुत्तम नामकित्तणं । तह य धिइमइप्पवत्तण, तव य जिणुत्तम ! संति कित्तणं
 ॥ ४ ॥ मागहिआ ॥ किरिआनिहिसचिअकम्मकिलेसविमुक्खयरं, अजिअ निचियं च गुणेहिं महा-
 मुणिसिद्धिगय । अजिअस्स य सतिमहामुणिणोऽविअ सतिकरं, सयय मम निब्बुइकारणय च
 नमसणयं ॥ ५ ॥ आलिगणय ॥ पुरिसा ! जइ दुक्खवारण, जइ अ विमगह सुक्खकारणं ।
 अजिअं संति च भावओ, अभयकरे सरण पवज्जाहा ॥ ६ ॥ मागहिआ ॥ अरइइ-तिमिरविरहिअ-
 मुअयजरमरण, सुर-असुर-गरुल-भुयग-इपययपणिवइअं । अजिअमहमविअ सुनयनयनिउण-
 मभयकर, सरणमुवत्तरिअ भुवि-दिविज-महिअ सययमुवणमे ॥ ७ ॥ संगयय ॥ त च जिणुत्तम-
 मुत्तमनित्तमसत्तथरं, अज्ज-मह-लति-विमुत्ति समाहिनिहिं । सतिकरं पणमामि दमुत्तमतित्थयरं,
 सतिमुणि ! मम सतिसमाहिवर दिसउ ॥ ८ ॥ सोनाणयं ॥ सात्रत्थिपुव्वपत्थिव च वरहत्थिमत्थय-

पसत्थविच्छिन्नसंथिअं, थिरसरिच्छवच्छं मयगललीलायमाणवरगंधहत्थिपत्थाणपत्थियं संथवारिहं ।
हत्थिहत्थबाहुधंतकणगरुअगनिरुवहयपिंजरं पवरलक्खणोवचिअसोमचारुखं, सुइसुहमणाभिराम-
परमरमणिज्जवरदेवदुंदुहिनिनायमहुरयरसुहगिरं ॥ ९ ॥ वेड्डओ ॥ अजिअं जिआरिगणं, जिअसव-
भयं भवोहरिउं । पणमामि अहं पयओ, पावं पसमेउ मे भयवं ! ॥ १० ॥ रासालुद्धओ ॥ कुरुजण-
वयहत्थिणाउरनरीसरो पढमं तओ महाचक्खवट्ठिभोए महप्पभावो, जो बावत्तरिपुरवरसहस्सवरनगर-
निगमजणवयवई बत्तीसारायवरसहस्साणुयायमग्गो । चउदसवरयण-नवमहानिहि-चउसट्ठि-
सहस्सपवरजुवईण सुंदरवई, चुलसीहय-गय-रह-सयसहस्ससामी, छणववइगामकोडिसामी-
आसी जो भारहम्मि भयवं ! ॥ ११ ॥ वेड्डओ ॥ तं संतिं संतिकरं, संतिणं सवभया । संतिं थुणामि
जिणं, संति विहेउ मे ॥ १२ ॥ रासानंदिअयं ॥ युमं ॥ इक्खाग ! विदेहनरीसर ! नरवसहा ! सुणि-
वसहा !, नवसारय ससिसकलाणण ! विगयतमा ! विहुअरया ! । अजिउत्तम ! तेअगुणेहिं महासुणि-
अमिअबला ! विउलकुला !, पणमामि ते भवभयमूरण ! जगसरणा मम सरणं ॥ १३ ॥ चित्तलेहा ॥
देव-दाणविंद-चंद-सूरवंद ! हट्ट-लुट्ट-जिट्टपरम !, लट्टरुव ! धंतरुप्प-पट्ट-सेअ-सुद्ध-निद्ध-धवल ! दंत-

पति ! संति ! सत्ति-किचि मुत्ति-जुत्ति-गुत्ति-पवर !, दित्तेअवद ! धेअ ! सबलोअभाविअप्पभाव !
 णेअ ! पइस मे समाहि ॥ १४ ॥ नारायओ ॥ विमलससिकलाइरेअसोमं, वितिमिरसूरकराइरे
 अतेअ । तिअसवइगणाइरेअरूव, धरणिधरप्पवराइरेअसारं ॥ १५ ॥ कुसुमलया ॥ सत्ते अ सया
 अजिअ, सारीरे अ वले अजिअ । तवसंजमे अ अजिअं, एस थुणामि जिणं अजिअं ॥ १६ ॥
 मुअगपरिरिगिअं ॥ युगं ॥ सोमगुणेहिं पावइ न तं नवसरयससी, तेअगुणेहिं पावइ न त नव-
 सरयरवी । रूवगुणेहिं पावइ न त तिअसगणवई, सारगुणेहिं पावइ न तं धरणीधरवई ॥ १७ ॥
 खिज्जिअय ॥ तित्थवरपवत्तय तमयरहिअ, धीरजणथुअच्चिअ चुअकलिकलुस । संतिसुहप्पवत्तयं
 तिगरणपयओ, सतिमह महासुणि सरणमुवणमे ॥ १८ ॥ ललिअय ॥ विणओणयसिरइअजलि-
 रिसिगणसंथुअं थिमिअं, त्रिबुहाहित्व-धणवइ-नरवइथुअमहिअच्चिअ बहुसो । अइरुगयसरयदिवा-
 यरसमहिअसप्पभ तवत्ता, गयणगणवियरणसमुअचारणवंदिअं सिरसा ॥ १९ ॥ किसलयमाला ॥
 असुर-गरुलपरिवदिअ, किन्नरोरगणमंसिअ । देवकोडिसयसंथुअ, समणसघपरिवंदिअं ॥ २० ॥
 सुमुहं ॥ अभय अणह, अरयं अरुय । अजिअं अरुय । अजिअं अजिअ, पयओ पणमे ॥ २१ ॥ विज्जुविलसिअं ॥

त्रिभिर्विशेषकम् ॥ आगया वरविमाणादिवकणगरहत्तुरथपहकरसएहिं हुलिअं । ससंभमोअरणसु-
 भिअल्लुलिअचलकुंडलगयतिरीडसोहंतमडलिमाला ॥ २२ ॥ वेड्डओ ॥ जं सुरसंधा सासुरसंधा
 वेरविउत्ता भत्तिसुजुत्ता, आयरभूसिअसंभमपिंडिअसुड्डुसुविस्मिअसव्ववलोधा । उत्तमकंचणारय-
 णपरूवियभासुरभूसणभासुरिअंगा, गायसमोणयभत्तिसागयंपंजलिपेसिअसीसपणामा ॥ २३ ॥
 रयणमाला ॥ वंदिऊण थोऊण तो जिणं, तिगुणमेव य पुणो पयाहिणं । पणमिऊण य जिणं
 सुरासुरा, पसुइआ सभत्तणाई तो गया ॥ २४ ॥ खित्तयं ॥ तं महासुणिमहंपि पंजली, राग-
 दोसभयमोहवज्जिअं । देवदाणवन्नरिंदवंदिअं, संतिमुत्तममहातवं नमे ॥ २५ ॥ खित्तयं ॥ अंवरं-
 तरविआरणिआहिं, ललिअहंसवहुगामिणिआहिं । पीणसोणिथणसालिणिआहिं, सकलकमल-
 दललोअणिआहिं ॥ २६ ॥ दीवयं ॥ पीणनिरंतरथणभरविणामियगायलआहिं, मणिकंचणपसि-
 ढिलमेहलसोहिअसोणितडाहिं । वरखिखिणिनेउरसतिलयवलयविभूसणिआहिं, रड्करचउरमणो-
 हरसुंदरदसंणिआहिं ॥ २७ ॥ चित्तक्खरा ॥ देवसुंदरीहिं पायवंदिआहिं वंदिआ य जस्स ते
 सुविक्कमा कमा, अप्पणो निडालएहिं मंडणोड्डुणप्पगारएहिं केहिं केहिं वी अवंगतिलयपत्तले-

हनामएहिं चिह्नएहिं संगयगयाहिं भत्तिसन्निविद्वंदणगयाहिं हुंति ते वंदिआ पुणो पुणो ॥ २८ ॥ नारायओ ॥ तमहं जिणचदं, अजिअ जिअमोहं । धुअसवकिलेस, पयओ पणमामि ॥ २९ ॥ नंदिअयं ॥ थुअवदिअयस्सा रिसिगणदेवणेहि, तो देववहुहिं पयओ पणमिअस्सा । जस्स जशुत्तमसासणअस्सा, भत्तिवसागयपिंडिअयाहिं । देववरच्छरसाबहुआहिं, सुरवरइयुण-
 पडिअयाहिं ॥ ३० ॥ भासुरयं ॥ वससइततितालमेलिए तितुक्खराभिरामसइमीसए कए अ,
 सुइसमाणे अ सुद्धसज्जगीअपायजालघटिआहि । वलयमेहलाकलावनेउराभिरामसइमीसए कए
 अ, देवनट्टिआहिं हावभावविबभमप्पगारएहिं । नच्चिऊण अंगहारएहिं वंदिआ य जस्स ते सुवि-
 क्कमा कमा, तय तिलोअसवसत्तसंत्तिकारयं पसत्तसवपावदोसमेसहं नमामि सत्तिमुत्तमं जिणं ॥ ३१ ॥
 नारायओ ॥ छत्तचामरपडागजूअजवमडिआ, झयवरमगरतुरयसिरिवच्छसुलछणा । दीवसमुद्दमंदर-
 दिसागयसोहिआ, सत्थिअवसहसीहरहचक्खरंकिआ ॥ ३१ ॥ ललिय ॥ सहात्रलट्टा समप्पइट्टा,
 अदोसट्टा गुणेहिं जिट्टा । पसायसिट्टा तवेण पुट्टा, सिरीहिं इट्टा रितीहिं जुट्टा ॥ ३३ ॥ वाण-
 वासिआ ॥ ते तवेण धुअसवपावया, सबलोअहिअमूलपावया । संथुआ अजिअसंतिपायया, हुंतु

मे सिवसुहाणदायया ॥ ३४ ॥ अपरांतिका ॥ त्रिभिर्विशेषकम् ॥ एवं तत्रवलविडलं, शुभं मए
अजिअसंतिजिणजुअलं । ववगयकम्मरयमलं, गइं गयं सासयं विडलं ॥ ३५ ॥ गाहा ॥ तं वहु-
गुणप्पसायं, सुक्खसुहेण परमेण अत्रिसायं । नासेउ मे विसायं, कुणउ अ परिसाऽविअ पसायं ॥
॥ ३६ ॥ गाहा ॥ तं सोएउ अ नंदिं, पावेउ अ नंदिसेणमभिंनंदिं । परिसाऽविअ सुहनंदिं, मम च
दिसउ संजमे नंदिं ॥ ३७ ॥ गाहा ॥ पक्खिअचाउम्मासिअसंवच्छरिए, अवस्स भणिअवो । सोअवो
सवोहिं, उवसग्गनिवारणो एसो ॥ ३८ ॥ जो पढइ जो अ निसुणइ, उभओ कालंपि अजिअसंतिथयं ।
न हु हुंति तस्स रोगा, पुब्बुप्पन्नावि नासांति ॥ ३९ ॥ जह इच्छह परमपयं, अहवा किति
सुवित्थडं भुवणे । ता तेलुकुद्धरणे, जिणवयणे आयरं कुणह ॥ ४० ॥

(७) सप्तमं भक्तास्मरणम्—भक्तामप्रणतमौलिमणिप्रमाणासुद्ध्योतकं दलितपापतमोवि-
तानम् । सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं शुगादावालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥ १ ॥ यः
संस्तुतः सकलवाज्यतत्त्वबोधोद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः । स्तोत्रैर्जगद्व्रितयचिन्तहरैरुदारैः,
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥ बुद्ध्या विनाऽपि त्रिबुधार्चितपादपीठ !, स्तोत्रे

समुद्यतमेतिर्विगतत्रयोऽहम् । बाल विहाय जलसस्थितमिन्दुविम्बमन्यः क इच्छति जनः सहसा
प्रहीतुम् ? ॥ ३ ॥ वक्तु गुणान् गुणसमुद्र ! शशाङ्ककान्तान्, कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि
बुद्ध्या ? । कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रं, को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं सुजाभ्याम् ? ॥ ४ ॥
सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश !, कर्तुं स्तव विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः । प्रीत्याऽऽत्मवीर्यम-
विचार्य मृगो मृगेन्द्र, नाभ्येति किं निजाशिशोः परिपालनार्थम् ? ॥ ५ ॥ अल्पश्रुत श्रुतवतां
परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् । यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति, तच्चारु-
चूतकालिकानिकैरकहेतुः ॥ ६ ॥ त्वरसंस्तवेन भवसन्ततिसन्निवद्धं, पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर-
भाजाम् । आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु, सूर्याशुभिन्नमिव शर्वरमन्धकारम् ॥ ७ ॥ मत्वेति
नाथ ! तव संस्तवन मयेदमारभ्यते तनुधियाऽपि तव प्रभावात् । चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-
दलेषु, मुकाफलद्युतिमुपैति ननूदविन्दुः ॥ ८ ॥ आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं, त्वरसङ्कथाऽपि
जगतां दुरितानि हन्ति । दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जि ॥ ९ ॥
नात्यद्भुत सुवनभूषणभूत ! नाथ !, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः । तुल्या भवन्ति भवतो

ननु तेन किं वा ?, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥ १० ॥ दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषनिलोकनीयं,
 नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः । पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धस्निग्धोः, क्षारं जलं जलचिधे-
 रशिलुं क इच्छेत् ? ॥ ११ ॥ यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम-
 भूत ! । तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति ॥ १२ ॥ चक्रं
 क ते सुरनरोरगनेत्रहारि निःशेषनिर्जितजगत्रितयोपमानम् ? । विम्बं कलङ्कमलिनं क निशा-
 करस्य ?, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॥ १३ ॥ सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलापशुभ्रा
 गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति । ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर ! नाथमेकं, कस्तास्त्रिवारयति सञ्चरतो
 यथेष्टम् ? ॥ १४ ॥ चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् ? ।
 कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन, किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ? ॥ १५ ॥ निर्भूमवर्तिर-
 पर्वजिततैलपूरः, कृत्स्नं जगन्नयमिदं प्रकटीकरोपि । गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां, दीपोऽ-
 परस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः ॥ १६ ॥ नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, स्पष्टीकरोपि
 सहसा युगपज्जगन्ति । नामभोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः, सूर्यातिशायिमहिमाऽसि सुनीन्द्र ! लोके

॥ १७ ॥ निलोदयं दलितमोहमहान्धकारं, गम्यं न राहुवदनस्य न चारिदानाम् । विभ्राजते तव
 मुखाब्जमनल्पकान्ति, विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कविम्बम् ॥ १८ ॥ किं शर्वरीषु शशिनाहि विवस्वता
 वा, युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ । निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोकै, कार्यं कियज्जल-
 धैर्जलभारनम्रैः ? ॥ १९ ॥ ज्ञान यथा त्वयि विभाति कृतावकाश, नैव तथा हरिहरादिषु
 नायकेषु । तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं, नैव तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥
 मन्थे वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति । किं वीक्षितेन भवता ? भुवि
 येन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥ २१ ॥ स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति
 पुत्रान्, नान्य सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता । सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मि, प्राच्येव
 दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम् ॥ २२ ॥ त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसमादित्यवर्णसमलं तमसः
 परस्तात् । त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥ २३ ॥
 त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसह्यमायं, ब्रह्माण्मीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् । योगीश्वरं विदितयोग-
 मनेकमेकं, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ २४ ॥ बुद्धस्त्वमेव विबुधाचित्तबुद्धिबोधात्, त्वं

शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् । धाताऽसि धीर ! शिवमार्गविधेर्विधानाद्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् !
 पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥ तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्त्तिहराय नाथ !, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय ।
 तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन ! मवोदधिशीषणाय ॥ २६ ॥ को विस्मयोऽत्र यदि
 नाम गुणैरशैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया ? मुनीश ! दोषैरुपात्तविधाश्रयजातगर्वैः, स्वप्नान्तरेऽपि
 न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥ उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मथूलमाभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् ।
 स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं, बिम्बं रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति ॥ २८ ॥ सिंहासने मणिमथूल-
 शिखाविचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् । बिम्बं त्रियद्विलसदंशुलतावितानं, तुङ्गोदयाद्रि-
 शिरसीव सहस्ररश्मेः ॥ २९ ॥ कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं, विभ्राजते तव वपुः कलधैत-
 कान्तम् । उद्वच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधारमुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥ ३० ॥ छत्रत्रयं तव
 विभाति शशाङ्ककान्तमुच्चैःस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् । मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं, प्रख्या-
 पयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥ ३१ ॥ उन्निद्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्तिपर्णुल्लसन्नलमथूलशिखाभिरामौ ।
 पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥ इत्थं यथा तव

विभूतिरभूजिनेन्द !, धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य । यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा,
 तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ? ॥ ३३ ॥ ऋयोतन्मदविलिविलोकपोलमूलमत्तत्रम-
 क्रमरनादविद्वृद्धकोपम् । ऐरावताभिमिभुद्धतमापतन्त, दृष्टा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्
 ॥ ३४ ॥ भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः । वद्धक्रमः क्रमगतं
 हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रित ते ॥ ३५ ॥ कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पं,
 दावानल ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् । विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्त, त्वन्नामकीर्तनजलं
 शमयत्यशेषम् ॥ ३६ ॥ रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं, क्रोधोद्धतं फणिनसुत्फणमापतन्तम् ।
 आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥ बल्गतुरङ्गजगर्जित-
 भीमनादमाजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् । उद्यद्दिवाकरमयूखशिखाऽपविद्धं, त्वत्कीर्तनात्तम
 इवाशु भिदामुपैति ॥ ३८ ॥ कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाहवेगावतारतारणातुरयोधभीमे । युद्धे
 जय विजितदुर्जयेयपक्षास्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥ ३९ ॥ अरुभोनिधौ क्षुभितभीषण-
 नक्रचक्रपाठीनपीठभयदोल्बणवाडवाशौ । रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रास्त्रासं विहाय भवतः

स्मरणाद् व्रजन्ति ॥ ४० ॥ उद्धृतभीषणजलोदरभारभुङ्गाः, शोच्यां दशामुपगताश्च्युतजीविताशाः ।
 त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिग्धदेहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ॥ ४१ ॥ आपादकण्ठसुरु-
 शृङ्खलवेष्विताङ्गा, गाढं बृहन्निगडकोटिनिष्टजङ्घाः । त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः, सद्यः
 स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥ ४२ ॥ मत्तद्विप्रेन्द्रमृगराजद्वानलाहिसङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्ध-
 नोत्थम् । तस्याशु नाशमुपयाति भयं भिषेव, यस्तावकं स्तवमिमं सतिमानधीते ॥ ४३ ॥ स्तोत्र-
 स्वजं तव जिनेन्द्र ! गुणैर्निबद्धां, भक्त्या मया रुचिरवर्णविविचित्रपुष्पाम् । धत्ते जनो य इह कण्ठ-
 गतामजस्रं, तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः ॥ ४४ ॥

(८) आष्टमं कल्याणमन्दिरस्मरणम्—कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदि, भीताभयप्रदमनिन्दित-
 मङ्घ्रिपद्मम् । संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तुपोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य ॥ १ ॥ यस्य स्वयं
 सुरगुरुर्गिरिमाम्बुराशेः, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् । तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतो-
 स्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥ २ ॥ युगम् ॥ सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मा-
 द्दशाः कथमधीश ! भवन्त्यधीशाः ? । दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदिवा दिवान्धो, रूपं प्ररूपयाति किं

किल धर्मरश्मेः ? ॥ ३ ॥ मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथे ! मर्त्यो, नूनं गुणान् 'गणयितुं न तव क्षमेत ।
 कल्यांतवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान्मीयेत केन जलधेर्ननुरत्नराशिः ? ॥ ४ ॥ अभ्युद्यतोऽस्मि तव
 नाथ ! जडाशयोऽपि, कर्तुं स्तव लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य । बालोऽपि किं न निजवाहुयुगं वितत्य,
 विस्तीर्णनां कथयति स्वधियाऽम्बुराशे ? ॥ ५ ॥ ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश !, वक्तुं
 कथं भवति तेषु ममावकाशः ? । जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं, जल्पन्ति वा निजगिरा ननु
 पक्षिणोऽपि ? ॥ ६ ॥ आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन ! संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो
 जगन्ति । तीव्रातपोपहतपान्थजनास्त्रिदाधे, प्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥ ७ ॥ हृद्दत्तिनि
 त्वयि त्रिभो ! शिथिलीभवन्ति, जन्तोः क्षणेन निचिडा अपि कर्मबन्धा . । सद्यो भुजङ्गमसया इव
 मध्यभागमभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य ॥ ८ ॥ मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र !,
 रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि । गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे, चौरैरिवाशु पशवः प्रपलाय-
 मानैः ॥ ९ ॥ त्व तारको जिन ! कथं भविनां ? त एव, त्वामुद्ग्रहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः । यद्वा
 दृतिन्तरति यज्जलमेव नूतमन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः ॥ १० ॥ यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि

हृत्प्रभावाः, सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन । विध्यापिता हुतभुजः पयसाऽथ येन, पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन ? ॥ ११ ॥ स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नस्त्वां जन्तवः कथमहो ! हृदये दधानाः । जन्मोदधिं लघु तरन्त्यतिलाघवेन ?, चिन्त्यो न हन्त ! महतां यदि वा प्रभावः ॥ १२ ॥ क्रोधस्त्वया यदि विभो ! प्रथमं निरस्तो, ध्वस्तास्तदा बत कथं किल कर्मचौराः ? । श्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिराऽपि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानी ? ॥ १३ ॥ त्वां योगिनो जिन ! सदा परमात्मरूपमन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे । पूतस्य निर्मलरुचेर्यदि वा किमन्यदक्षस्य सम्भवि पदं ननु कर्णिकायाः ? ॥ १४ ॥ ध्यानान्जिनेश ! भवतो भविनः क्षणेन, देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति । तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके, चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः ॥ १५ ॥ अन्तः सदैव जिन ! यस्य विभाव्यसे त्वं, भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् ? । एतत्स्वरूपमथमध्यविवर्तिनो हि, यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥ १६ ॥ आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदबुद्ध्या, ध्यातो जिनेन्द्र ! भवतीह भवत्प्रभावः । पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं, किं नाम नो विषविकारमपाकरोति ? ॥ १७ ॥ त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि,

नूनं विभो ! हरिहरादिधिया प्रपन्नाः । किं काचकामलिभिरीश ! सितोऽपि शङ्को, नो गृह्यते
 विविधवर्णविपर्ययेण ? ॥ १८ ॥ धर्मोपदेशसमये सविधानुभावादास्तां जनो भवति ते तरुरप्य-
 शोकः । अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि, किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः ? ॥ १९ ॥ चित्रं
 विभो ! कथमवाङ्मुखवृन्तमेव, विष्वक् पतत्यविरला सुरपुष्पवृष्टिः ? । तद्गोचरे सुमनसां यदि वा
 सुनीश !, गच्छन्ति नूनमथ एव हि बन्धनानि ॥ २० ॥ स्थाने गभीरहृदयोदधिसम्भवायाः,
 पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति । पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो, भव्या व्रजन्ति तरसाऽप्य-
 जरामरत्वम् ॥ २१ ॥ स्वामिन् ! सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो, मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः ।
 येऽस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय, नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः ॥ २२ ॥ इयामं गभीरगिर-
 मुज्ज्वलहेमरत्नसिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् । आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैश्चामी-
 कराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् ॥ २३ ॥ उद्गच्छता तव शितियुतिमण्डलेन, लुप्तच्छदच्छविरशोक-
 तरुर्भव । सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग !, नीरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि ? ॥ २४ ॥
 भो भोः ! प्रमादमवधूय भजध्वमेनमागत्य निर्द्वृत्तिपुरिं प्रति सार्थवाहम् । एतन्निवेदयति देव ।

जगन्नयाय, मन्ये नदन्नभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते ॥ २५ ॥ उद्द्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ !, तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः । मुक्ताकलापकलितोच्छ्वसितातपत्रव्याजात्त्रिधा धृततनुर्ध्रुवमभ्युपेतः ॥ २६ ॥ स्त्रेन प्रपूरितजगन्नयपिण्डतेन, कान्तिप्रतापयशसाभिव सञ्चयेन । माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन, सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि ॥ २७ ॥ दिव्यस्रजो जिन ! नमस्त्रिदशाधिपानामुत्सृज्य रत्न-खचितानपि मौलिबन्धान् । पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र, त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव ॥ २८ ॥ त्वं नाथ ! जन्मजलधेर्विपराङ्गमुखोऽपि, यत्तारयस्यसुमतो निजपृष्ठलघान् । युक्तं हि पार्थिवनियस्य सतस्तवैव, चित्रं विभो ! यदसि कर्मविपाकशून्यः ॥ २९ ॥ विश्वेश्वरोऽपि जनपालक ! दुर्गतस्त्वं, किं वाऽक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश ! । अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव, ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकाशहेतुः ॥ ३० ॥ प्राग्भारसम्भूतनभांसि रजांसि रोषादुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि । छायाऽपि तैस्तव न नाथ ! हता हताशो, अस्तस्त्वमीभिर्यमेव परं दुरात्मा ॥ ३१ ॥ यद् गर्जदूर्जितघनौघमद्भ्रभीमं, अश्रयत्तडिन्मुसलमांसलघोरधारम् । दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि दध्रे, तेनैव तस्य जिन ! दुस्तरवारिकृत्यम् ॥ ३२ ॥ ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृताकृतिमर्त्य-

मुण्डप्रालम्बमृद्भयदवक्त्रविनिर्यदग्निः । प्रेतव्रजः प्रति भवन्तमपीरितो यः, सोऽस्याभवत् प्रतिभवं
 भवदुःखहेतुः ॥ ३३ ॥ धन्यास्त एव भुवनाधिप ! ये त्रिसन्ध्यासाराधयन्ति विधिवद् विधुतान्य-
 कृत्याः ॥ भक्त्योल्लसत्पुलकपक्षमलदेहदेशाः, पादद्वय तव विभो ! भुवि जन्मभाजः ॥ ३४ ॥
 अस्मिन्नपारभवत्वारिनिधौ मुनीश !, मन्ये न मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि । आकर्णिते तु तव गौत्र-
 पवित्रमन्त्रे, किं वा विपद्विषधरी सविध समेति ? ॥ ३५ ॥ जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव !,
 मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम् । तेनेह जन्मनि मुनीश ! पराभवानां, जातो निकेतनमह
 मथिताशयानाम् ॥ ३६ ॥ नूनं न मोहतिमिराष्टतलोचनेन, पूर्वं विभो ! सङ्कदपि प्रत्रिलोकितोऽसि ।
 मर्माविधो विधुरयन्ति हि सामनर्थाः, प्रोद्यत्प्रवन्धगतयः कथमन्यथैते ? ॥ ३७ ॥ आकर्णितोऽपि
 महितोऽपि निरीक्षितोऽपि, नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या । जातोऽस्मि तेन जनवान्धव !
 दुःखपात्रं, यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः ॥ ३८ ॥ त्वं नाथ ! दुःखिजनवत्सल !
 हे शरण्य !, कारुण्यपुण्यवसते ! वशिन्ता वरेण्य ! । भक्त्या नते मयि महेश ! दयां विधाय,
 दुःखाङ्कुरोद्बलनत्परता विवेहि ॥ ३९ ॥ निःसङ्ख्यसारशरणं शरण शरण्यमासाद्य सादितरिपु-

प्रथितावदात्म । त्वत्पादपङ्कजमपि प्रणिधानवन्ध्यो, वध्योऽस्मि चेद् भुवनपालन ! हा हतोऽस्मि
॥ ४० ॥ देवेन्द्रवन्द्य ! विदिताखिलवस्तुसार !, संसारतारक ! विभो ! भुवनाधिनाथ ! त्रायस्व
देव ! करुणाहृद ! मां पुनीहि, सीदन्तमद्य भयद्वयसनाम्बुराशोः ॥ ४१ ॥ यद्यस्ति नाथ !
भवदङ्घ्रिसरोरुहाणां, भक्तेः फले किमपि सन्ततिसञ्चितायाः । तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्य !
भूयाः । स्वामी त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥ ४२ ॥ इत्थं समाहितधियो विधिवल्लिनेन्द्र !,
सान्द्रोल्लसत्पुलककञ्चुकिताङ्गभागाः । त्वद्विम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्षा, ये संस्तवं तव विभो !
रचयन्ति भव्याः ॥ ४३ ॥ जननयनकुमुदचन्द्र !, प्रभास्वराः स्वर्गसम्पदो भुक्त्वा । ते विगलित-
मलनिचया, अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते ॥ ४४ ॥ युग्मम् ॥

(९) नवमं बृहच्छान्तिस्मरणम् ॥—भो ! भव्याः ! शृणुत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतद्, ये
यात्रायां त्रिभुवनगुरोरार्हता भक्तिभाजः । तेषां शान्तिर्भवतु भवतामर्हदादिप्रभावादारोग्यश्रीधृति-
मतिकरी क्लेशविध्वंसहेतुः ॥ १ ॥ भो ! भो ! भव्यलोकाः ! इह हि भरतैरावतविदेहसम्भ-
वानां समस्ततीर्थकृतां जन्मन्यासनप्रकम्पानन्तरमवाधिना विशाय सौधर्माधिपतिः, सुघोषाघण्टा-

चालनानन्तरं सकलसुरासुरेन्द्रैः सह समागत्य सविनयमर्हद्भट्टारकं गृहीत्वा गत्वा कनका-
 द्विशृङ्गे विहितजन्माभिषेकः . शान्तिमुद्धोषयति यथा ततोऽह कृतानुकारमिति कृत्वा ' महा-
 जनो येन गतः स पन्थाः ' इति भव्यजनैः सह समेत्य स्नात्रपीठे स्नात्रं विधाय शान्ति-
 मुद्धोषयामि, तत्पूजायात्रास्नात्रादिमहोत्सवानन्तरमिति कृत्वा कर्णं दत्त्वा निशम्यतां निशम्यतां
 स्वाहा । ॐ पुण्याह पुण्याह प्रीयन्तां प्रीयन्तां भगवन्तोऽर्हन्तः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनीसलोकनाथा
 खिलोकमहिताखिलोकपूज्याखिलोकेश्वराखिलोकोद्योतकराः । ॐ ऋषभअजितसम्भवअभिनन्दन-
 सुमतिपद्मप्रभसुपार्श्वचन्द्रप्रभसुविधिशीतलश्रेयासवासुपूज्यविमलअनन्तधर्मशान्तिकुन्थुअरमालिसु-
 निसुव्रतनमिनेमिपार्श्वधर्मानान्ता जिनाः शान्ता . शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा । ॐ मुनयो मुनि-
 प्रवरा रिपुविजयदुर्भिक्षकान्तारेषु दुर्गमार्गेषु रक्षन्तु वो नित्यं स्वाहा । ॐ ह्रीं श्री धृतिमतिकीर्ति-
 कान्तिबुद्धिलक्ष्मीमेधाविद्यासाधनप्रवेशननिवेशनेषु सुगृहीतनामानो जयन्तु ते जिनेन्द्राः ।
 ॐ रोहिणीप्रज्ञैस्त्रिवज्रशृङ्खलावज्रोङ्कुशीअप्रतिचक्रापुरुषदत्ताकालीमहाकालीगौरीगार्धारीसर्वाल्लामहंहा-
 ज्वालामौनवीविरोट्यौअच्छुतामौनसीमहामानसी षोडश विद्यादेव्यो रक्षन्तु वो नित्य स्वाहा । ॐ

आचार्योपाध्यायप्रभृतिचातुर्वर्णस्य श्रीश्रमणसङ्घस्य शान्तिर्भवतु तुष्टिर्भवतु । ॐ ग्रहा-
 श्चन्द्रसूर्याङ्गारकबुधवृहस्पतिशुक्रशनिश्चराराहुकेतुसहिताः सलोकपालाः सोमग्रमत्ररुणकुबेरवासवाऽऽ-
 दित्यस्कन्दविनायकोपेता ये चान्येऽपि ग्रामनगरक्षेत्रदेवतादयस्ते सर्वे प्रीचन्तां प्रीचन्तां अक्षीणकोप-
 कोष्ठागारा नरपतयश्च भवन्तु स्वाहा । ॐ पुत्रमित्रभ्रातृकलत्रसुहृत्स्वजनसम्बन्धिवन्धुवर्गसहिता
 नित्यं चाऽऽमोदप्रमोदकारिणः, अस्मिंश्च भूमण्डलायतननिवासिभ्युसाब्धीश्रावकश्राविकाणां रोगो-
 पसर्गव्याधिदुःखदुर्भिक्षदौर्मनस्योपशमनाय शान्तिर्भवतु । ॐ तुष्टिपुष्टिऋद्धिबुद्धिसाङ्गल्योत्सवाः,
 सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शाम्यन्तु दुरितानि, शत्रवः पराङ्मुखा भवन्तु स्वाहा । श्रीमते शान्ति-
 नाथाय, नमः शान्तिविधायिने । त्रैलोक्यस्यामराधीशमुकुटाभ्यर्चिताङ्घ्रये ॥ १ ॥ शान्तिः शान्ति-
 करः श्रीमान्, शान्तिं दिशतु मे गुरुः । शान्तिरेव सदा तेषां, येषां शान्तिर्गृहे गृहे ॥ २ ॥ उन्मृष्ट-
 रिष्टदुष्टग्रहगतिदुःखमदुर्निमित्तादि । सम्पादितहितसम्पन्नामग्रहणं जयति शान्तेः ॥ ३ ॥ श्रीसङ्घ-
 जगज्जनपदराजाधिपराजसन्निवेशानाम् । गोष्ठिकपुरमुख्याणां, व्याहरणैर्व्याहरेच्छान्तिम् ॥ ४ ॥
 श्रीश्रमणसङ्घस्य शान्तिर्भवतु, श्रीजनपदानां शान्तिर्भवतु, श्रीराजाधिपानां शान्तिर्भवतु, श्रीराजस-

द्विवेशानां शान्तिर्भवतु, श्रीगोष्ठिकानां शान्तिर्भवतु, श्रीपौरमुख्याणां शान्तिर्भवतु, श्रीपौरज-
 स्य शान्तिर्भवतु, श्रीब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु, ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ श्रीपार्श्वनाथाय
 स्वाहा । एषा शान्तिः प्रतिष्ठायात्रास्नात्राद्यवसानेषु शान्तिकलशं गृहीत्वा कुङ्कुमचन्दनकपूर्णाऽगरु-
 धूपवासकुसुमाञ्जलिसमेतः स्नात्रचतुष्किकायां श्रीसङ्घसमेतः शुचि शुचिवपुः पुष्पवस्त्रचन्दनाऽऽ-
 भरणालङ्कृतः पुष्पमालां कण्ठे कृत्वा शान्तिमुद्घोषयित्वा शान्तिपानीयं मस्तके दातव्यमिति ।
 नृत्यन्ति नृत्य मणिपुष्पवर्षं, सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि । स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान्,
 कल्याणभाजो हि जिनाभिर्येके ॥ १ ॥ शिवमस्तु सर्वजगतः, परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः ।
 दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखीभवन्तु लोकाः ॥ २ ॥ अहं तित्थयरमाया, सिवादेवी तुम्ह नय-
 निवासिनी । अम्ह सिवं तुम्ह सिवं, असिवोवसमं सिव भवतु ॥ ३ ॥ स्वाहा ॥ उपसर्गाः क्षयं
 यान्ति, चिद्यन्ते विघ्नवह्यः । मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥ ४ ॥ सर्वमङ्गलमाङ्गल्य,
 सर्वकल्याणकारणम् । प्रधानं सर्वधर्माणां, जैन जयति शासनम् ॥ ५ ॥

इति प्रत्यहमसंश्लेशो उत्सवेषु च त्रिसन्ध्य वर्षारभदिने च प्रातश्चतुर्विधश्रीसंघसमक्ष स्मृतंव्यानि
 ॥ समाप्तानि नव स्मरणानि ॥

श्रीगौतमस्वामिरास-



(बाळ १ ली-भाषाछंद.)

वीरजिणेशरचरणकमलकमलाकरवासो, पणमत्रि पभणिसु सामिसालगोधमगुररासो । मण-
 तणुवयणेकंत करवी निसुणो भो भत्रिया, जिम निवसे लुम्ह देहगेह, गुणगणगहगहीया ॥ १ ॥
 जंबूदीव सिरिभरहखित्त खोणीतलसंडण, मगधदेश सेणियनरेस रिउदलवलखंडण । धणत्रर गुब्ब-
 रगाम नाम जिहां जण गुणगणसजा, विष्ण वसे वसुभूइ तत्थ, तसु पुहवी भजा ॥ २ ॥ ताण
 पुत्त सिरिइंदभूइ भूवलथपसिद्धो, चउदहविजा विविहरूव नारीरसविद्धो । विनयत्रिवेकविचारसार
 गुणगणहमनोहर, सात हाथ सुप्रमाणदेह रूप हि रंभात्र ॥ ३ ॥ नयणत्रयणकरचरण जिणवि
 पंकज जळ पाडिय, तेजे ताराचंदसुर आकाश भमाडिय । लूवे मयण अनंग करवी सेल्हो निर-
 धाडीय, धीरसें मेरु गंभीर सिंधु चंगिसचयचाडिय ॥ ४ ॥ पेखवि निरुवमलूव जास जण जंपे
 किंचिय, एकाकी कलिभीत इत्थ गुण म्हेल्या सांचिय । अहवा निश्चे पुवजम्म जिणवर इणे

अंचिय, रंभापउमागौरीगंगरति । हा विधि वचिय ॥ ५ ॥ नहि बुध नहि गुरु कवि न कोइ जसु
 आगल रहिओ, पचसया गुणपात्र छात्र हिडे परवरिओ । करे निरतर यज्ञकर्म मिथ्यामतिमोहिय,
 इण छळ होशे चरण नाण दंसणह विसोहिय ॥ ६ ॥ (वस्तुछंद-) जंबूदीवह जंबूदीवह भरह-
 वासंमि, खोणीतलमंडण मगधदेस सेणिय नरेस । वर शुब्बरगाम तिहां, विप्प वसे वसुभूइ सुंदर-
 तसु भज्जा पुहवी सयलगुणगणरूवनिहाण । ताण पुत्त विज्जानीलो, गोयम अतिहि सुजाण ॥ ७ ॥
 (ढाल २ जी-भाया) चरमजिणेसर केवलनाणी, चउविहसंध पइट्टा जाणी । पावापुरी सामी
 सपत्तो, चउविहदेवनिकायहि जुत्तो ॥ ८ ॥ देवे समवरण तिहां कीजे, जिण दीठे मिथ्यामति
 खीजे । त्रिभुवनगुरु सिहासन बइट्टा, ततखिण मोह दिगते पइट्टा ॥ ९ ॥ क्रोध मान माया मद
 पूरा, जाये नाठा जिम दिन चौरा । देवदुदुहि आकाशे वाजे, धर्मनरेसर आव्या गाजे ॥ १० ॥
 कुसुमवृष्टि विरचे तिहां देवा, चोसठ इंद्र जसु मागे सेवा । चासरछत्र शिरोवरि सोहे, रूपहि
 जिणवर जग सहु मोहे ॥ ११ ॥ उवसमरसभरभरी वरसंता, जोजनवाणि वखाण करंता ।
 जाणेवि वद्धमाणजिणपाया, सुरनरकिन्नर आवे राया ॥ १२ ॥ कांतिसमूहे झलझलकंता, गयण

विमाणे रणरणकंता । पेखवि इंद्रभूइ मन चिंते, सुर आवे अम्ह यज्ञ होवेंते ॥ १३ ॥ तीर तरं-
 डक जिम ते वहता, समवसरण पुहता गहगहता । तो अभिसाने गोयम जंपे, इणि अवसरे
 कोपे तणु कंपे ॥ १४ ॥ मूढा लोक अजाणुं बोले, सुर जाणंता-इम कांई डोले । मू आगळ को जाण
 भणीजे, मेरु अवर किम उपमा दीजे ? ॥ १५ ॥ (वस्तुछंद-) वीर जिणवर वीर जिणवर नाणसंपन्न,
 पावापुरी सुरमहिय पत्त नाह संसारतारण, तहिं देवेहिं निम्मविय, समवसरण बहुसुखकारण-
 जिणवर जग उज्जोयकरे, तेजे करि दिनकार । सिंहासण सामी ठव्यो, हुओ सुजयजयकार ॥ १६ ॥

(ढाळ ३ जी-भापा.) तव चढिओ घणमानगजे, इंद्रभूइ भूदेव तो । हुंकारी करि संचरिओ,
 कवणसु जिणवरदेव तो ? ॥ १७ ॥ जोजनभूमि समवसरण, पेखे प्रथमारंभ तो । दहदिसि देखे
 विबुधवधू, आवंती सुररंभ तो ॥ १८ ॥ मणिमयतोरणदंडधज, कोसीसे नवघाट तो । वैरविव-
 र्जित जंतुगण, प्रातिहारज आठ तो ॥ १९ ॥ सुरनरकिन्नर असुरवर, इंद्र इंद्राणी राय
 तो । चित्ते चमक्किय चिंतवे ए, सेवंता प्रभुपाय तो ॥ २० ॥ सहसकिरण सम वीरजिण, पेखवि
 रूपविशाळ तो । एह असंभव संभवे ए, साचो ए इंद्रजाळ तो ॥ २१ ॥ तो बोलावे त्रिजग-

गुरु, इंदुमुइ नामेण तो । श्रीमुखे संशय सामि सवे, फेडे वेदपएण तो ॥ २२ ॥ मान मेल्ही
 मद ठेळी करी, भगते नामे सीस तो । पंचसयासुं व्रत लीयो ए, गोयस पहिलो सीस तो ॥ २३ ॥
 बधवसंजम सुणवि करी, अगनिमुइ आवेइ तो । नाम लेइ आभास करे, ते पण प्रतिबोधेइ तो
 ॥ २४ ॥ इण अनुक्रमे गणहररण, थाप्या वीर अग्यार तो । तव उपदेशे भुवनगुरु, संजमशु
 व्रत बार तो ॥ २५ ॥ विहु उपवासे पारणु ए, आपणपे विहरत तो । गोयस संजम जग सयल,
 जयजयकार करंत तो ॥ २६ ॥ (वस्तुछद-) इंदभूइअ इंदभूइअ चडिय बहुमान हुंकारो करी
 कंपतो समवसरण पहतो तुरंत । इह संसा सामि सवे, चरमनाह फेडे फुरंत-बोधिवीज संजाय
 मने, गोयस भवह विरत । दिक्ख लेइ सिक्खा सहिय, गणहरपय संपत्त ॥ २७ ॥

(ढाळ ४ थी-भापा.) आज हुओ सुविहाण, आज पचेलिमां पुण्यभरो । दीठा गोयमसामि,
 जो नियनयणे अमियभरो ॥ २८ ॥ सिरिगोयमगणहार, पंचसयां मुनिपरिवरिय, भूमिय
 करे विहार, भवियां जण पडिबोह करे ॥ २९ ॥ समवसरण मोझार, जे जे संसा उपजे
 ए । ते ते परउपगार कारण पूछे सुनिपत्रो ॥ ३० ॥ जिहां जिहां दीजे दिक्ख, तिहां

तिहां केवल उपजे ए । आप कन्हे अणहुंत, गोयम दीजे दान इम ॥ ३१ ॥ गुरु उपरे गुरुभक्ति,
सामी गोयम उपनीय । इण छल केवलनाण, रागज राखे रंगभरे ॥ ३२ ॥ जो अष्टा
पदशैल, वंदे चढी चउवीश जिण । आतमलब्धिवसेण, चरमसरीरी सोय मुनि ॥ ३३ ॥
इअ देसण निसुणेइ, गोयमगणहर संचलिओ । तापसपनरसएण, तो मुनि दीठो आवतो
ए ॥ ३४ ॥ तत्रसोसिय नियअंग, अस्ह शक्ति नचि उपजे ए । किम चढशे दृढकाय, गज जिम
दिसे गाजतो ए ? ॥ ३५ ॥ गिरुओ एणे अभिमान, तापस जो मन चिंतवे ए । तो मुनि चढीयो
वेग, आलंबवि दिनकरकिरण ॥ ३६ ॥ कंचणमणिनिष्फन्न, दंडकलसधजवड सहिय । पेशवि
परमाणंद, जिणहर भरेहसरमहिय ॥ ३७ ॥ नियनियकायप्रमाण, चउदिसि संठिअ जिणह बिंब ।
पणमवि मनउह्यास, गोयमगणहर तिहां वसिय ॥ ३८ ॥ वयरस्वामीनो जीव, तिर्यगजुंभक देव
तिहां । प्रतिबोधे पुंडरीककंडरीकअध्ययन भणी ॥ ३९ ॥ वळता गोयमसामि, सवि तापस प्रति-
बोध करे । लेई आपण साथ, चाले जिम जूथाधिपति ॥ ४० ॥ खरिखांडघृत आण, अमिअवूठ
अंगुष्ठ ठवि । गोयम एकण पात्र, करावइ पारणुं सवे ॥ ४१ ॥ पंचसयां शुभभाव, उज्ज्वल

भरियो खीरमीसे । साचागुरु संजोग, कवळ ते केवळरूप हुआ ॥ ४२ ॥ पचसयां जिणनाह,
समवसरण प्राकारत्रय । पेखवि केवलनाण, उप्पट्ठुं उज्जोयकरे ॥ ४३ ॥ जाणे जिणवि पियूष,
गाजंती घणमेघ जिम । जिणवाणी निसुणेइ, नाणी हुआ पचसयां ॥ ४४ ॥ (वस्तुछंद-) इणे
अनुक्रमे इणे अनुक्रमे नाणसंपन्न, पन्नरह सय परिवरिय हरियदुरिय जिणनाह वदइ, जाणवि
जगगुरुवयण तिण्ह नाण अप्पाण निंदइ चरमजिणेसर इम भणइ, गोयम म करिस खेउ । छेडे
जइ आपण सही, होसुं तुळा वेउ ॥ ४५ ॥

(ढाळ ५ मी-भाषा.) सामिओ ए वीरजिणद पुनिमचद जिम उल्लसिअ, विहरिओ ए भरह-
वासम्मि वरिस बहोतेर सवसिअ । ठवतो ए कणयपउमेसु पायकमळ संघहि सहिअ, आविओ
ए नयणाणंद नयर पावापुरी सुरमहिय ॥ ४६ ॥ पेखिओ ए गोयमसामी देवशर्मा प्रतिबोध करे,
आपणो ए त्रिशलादेवीनंदन पहोतो परमपए । वळतां ए देव आकाश पेखवि जाणिय जिणसमे
ए, तो सुनि मन विखवाद नादभेद जिम ऊपनो ए ॥ ४७ ॥ कुण समो ए सामिय देखि आप
कन्हे हु टालिओ ए, जाणतो ए तिहुअणनाह लोकविवहार न पालिओ ए । अतिमळुं ए कीधळुं

सामि जाणुं केवल मागशे ए, चिंतविंशुं ए बाळक जेम अहवा केडे लागशे ए ॥ ४८ ॥ हुं किम ए वीर जिणंद ! भगते भोळो भोळव्यो ए, आपणो ए अविहड नेह नाह ! न संपे साचव्यो ए । साचो ए एक वीतराग नेह न जेणे लालिओ ए, इण ससे गोयमचित्त रागवैरागे वाळिओ ए ॥ ४९ ॥ आवतुं ए जे जलद रहेतुं रागे साहिउं ए, केवल ए नाण उप्पन्न गोयम सहेजे उमाहिओ ए । तिहुअण ए जयजयकार केवलमहिमा सुर करे ए, गणहर ए करेय वखाण भवि-यण भव जिम निस्तरे ए ॥ ५० ॥ (वस्तुछंद-) पढमगणहर पढमगणहर वरिसपचास, गिहि-वासे संवसिय तीसवरिस संजम विभूसिय, सिरिकेवलनाण पुण बारवरिस तिहुयण नमंसिय-रायगिहि नयरीहिं ठविअ, बाणुंवयवरिसाउ । सामी गोयम गुणनीलो, होशे शिवपुर ठाउ ॥ ५१ ॥

(ढाळ ६ द्वी-भाषा.) जिम सहकारे कोयल टहुके, जिम कुसुमह वन परिमल महके, जिम चंदन सोगंधनिधि । जिम गंगाजल लहरे लहके, जिम कणयाचल तेजे झलके, तिम गोयम सौभाग्यनिधि ॥ ५२ ॥ जिम मानसरोवर निवसे हंसा, जिम सुरवरिसरि कणयवतंसा, जिम महुरर राजीववने । जिम रयणायर रयणे विलसे, जिम अंबर तारागण विकसे, तिम गोयम

गुणकेलि वने ॥ ५३ ॥ पुनमनिशि जिम शशहर सोहे, सुरतरु महिसा जिम जग मोहे, पूरव-
 दिसि जिम सहसकरो । पचानन जिम गिरिवर राजे, नरवरघर जिम मयगल गाजे, तिम जिन-
 शासन सुनिपवरो ॥ ५४ ॥ जिम सुरतरुवर सोहे शाखा, जिम उत्तममुख मधुरी भाषा, जिम
 वनेकेतकी महमहेए । जिम भूमिपति भुयवल चमके, जिम जिनमदिर घंटा रणके, तिम गोयम
 लब्धे गहगहेए ॥ ५५ ॥ चिंतामणि कर चढिओ आज, सुरतरु सारे वंछितकाज, कामकुंभ सवि-
 वश हुआओ ए । कामगवी पूरे मनकामिय, अष्ट महासिद्धि आवे धामिय, सामिय गोयम अणु-
 सरो ए ॥ ५६ ॥ पणवक्खर पहेलो पभणीजे, मायाबीज श्रवण निसुणीजे, श्रीमति शोभा संभवे
 ए । देवह धुरि अरिहत नमीजे, विनय पहुत्त उवझाय थुणीजे, इण मन्ने गोयम नमो ए ॥ ५७ ॥
 पुर पुर वसतां कांइ करीजे, देश देशांतर कांइ भमीजे, कवण काज आयास करो । प्रह उठी
 गोयम समरीजे, काज समगह ततखण सीझे, नवनिधि विलसे तास घरे ॥ ५८ ॥ चउदह सय
 वारोत्तर वरसे, गोयमगणहरकेवलदिवसे, किओ कवित उपगारपरो । आदेहि मगल एह भणीजे,
 परवमहोच्छत्र पहिलो कीजे, ऋद्धिदृष्टिकल्याण करो ॥ ५९ ॥ धन्य माता जिणे उदरे धरिया,

धन्य पिता जिणे कुल अवतरिया, धन्य सदृगुरु जिणे दिक्खिया ए । विनयवंत विद्याभंडार,
जस गुण कोई न लब्धे पार, विद्यावंत गुरु वीनवे ए ॥ ६० ॥ गौतमस्वामितणो ए रास, भणतां
सुणतां लीलविलास, सासय सुख निधि संपजे ए । गौतमस्वामिनो रास भणीजे, चउविहसंघ
रलियायत कीजे, ऋद्धिवृद्धिकल्याण करो ॥ ६१ ॥ इति ॥

सर्वमंगलगल्पं, सर्वकल्याणकारणम् । प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम् ॥ १ ॥

॥ श्रीगौतमस्वामिरास संपूर्ण ॥



श्रीदीवालि-पर्वनुं गणणुं

नो० २०—श्रीमहावीरस्वामिसर्वज्ञाय नमः—आ पदनुं पहेली रात्रे आठ वागे गणणुं गणणुं.
नो० २०—श्रीमहावीरस्वामिपारंगताय नमः—आ पदनुं गणणुं, वाद श्रीमहावीर निर्वाणना पाछली रात्रे देव वांदवा.
नो० २०—श्रीगौतमस्वामिसर्वज्ञाय नमः—आ पदनी गणवी अने प्रभाते देव वांदवा.

મંત્રગણિત — શ્રી પાર્શ્વનાથ — સ્તવન



ॐ નમો પાર્શ્વપ્રભુ પદકન્ઠે, વિશ્વચિન્તામણિ રત્નરે । હ્રીં ધરણેન્દ્ર પદ્માવતી, વૈરોટ્યા કરો સુખ જલરે ॥ ૧ ॥
 આમ મોય શાન્તિ મહા પ્રુષ્ટિ ઘો, ધૃતિ ક્રીતિ ક્રાન્તિ વિધાયને । ॐ હ્રીં અક્ષરશબ્દથી, સર્વ આધી-આધી જાયરે ॥ ૨ ॥
 જયા અજિતા વિજયા તથા, અપર વિજયાન્વીતા રેવરે । દશ દિક્પાલ ત્રહુ જક્ષ જ્યો, વિદ્યા દેવી પ્રસન્ન હોઈ સેવરે ॥ ૩ ॥
 ॐ અસિઆહિસા નમો નમ, વૃહી તલોકનો નાથરે । ચોસહ ઇન્દ્ર ટોલે મલી, વિનતી કરે જોડી હાથરે ॥ ૪ ॥
 ॐ હ્રીં અર્હુ પ્રભુ પાસજી, મૂલના મત્રનુ બીજરે । બંપંથી દૂરિતા દૂરે હુરે, આઈ મિલે સવિ ચિત્રરે ॥ ૫ ॥
 ગૌડી પ્રભુ પાસ ચિતામણી, થભણો અહિ છત્રો દેવરે । જગ વહીભજગ જગતો, અતરિક અવતી કડ સેવરે ॥ ૬ ॥
 ॐ શબ્દેશ્વર પુર મહણો, પાર્શ્વ જિન પ્રણુત તરુ કલપરે । ચૂરે એમ દુહના વ્રાતને, સુજસ-સૌભાગ્ય-સૂરિ કલપરે ॥ ૭ ॥ ૐ નમો ॥

૭ ॥ ઇતિ ॥

श्रीयुगप्रधानीकार-तपागच्छाधिपति-श्रीजगच्चन्द्रसूरीश्वर-शिष्य-श्रीदेवसुन्दरसूरीश्वर-शिष्य-

श्रीसोमसुन्दरसूरीश्वर-शिष्य.

श्रीजिनसुन्दरसूरीश्वरेण कृतमिति

॥ श्रीदीपालिका-कल्पः-समाप्तम् ॥

सुहंकरू भूनंदा नंदन प्यारो रे । निसहृ नरेस-
 र कुलतिलो । किंपुरुषानो भरतारोरे ॥स्वा०॥
 १॥ कपि लंछन नलि नावति । विप्रविजय अ-
 योध्या नाहो रे । रंगें मिलिए तेहशूं । एह
 मनुष्य जनमनो लाहो रे ॥स्वा०॥२॥ ते दिन
 सविण्लें गया । जिहां प्रभुशूं गोठन वाधी रे ।
 भक्ति दूतिकार्यें मनहस्यूं । पणवात कहीछे
 आधी रे ॥स्वा०॥३॥ अनुभव मित्तजो मोकलो
 । तोते सघली वातजणावे रे । पणतेह विणमुझ
 नवीस रे । कहोतो पुत्र विचारते आवे रे
 स्वा०॥४॥ तेणेजइवात सवेकही प्रभुमल्या ते
 ध्यानने टाले रे । श्रीनय विजय विबुधतणो ।
 इमसेवक सुजस वरवाणे रे ॥स्वा०॥५॥इति॥

४५ ॥ शाश्वतजिन थूई ॥

ऋषम चंद्रानन वंदनकीजें । वारिखेण दुःखवारे-
 जी । वर्द्धमान जिनवरवजी प्रणमो । शाश्वत

नामए चारोजी । भरतादिकखेत्रें मलीहोवे ।
चारनाम चित्तधारेजी । तेंणेंचारे एशाश्वत
जिनवर । नमियें निततवारेजी ॥१॥ ऊर्ध्वअधो
तिछेंलोकें थई । कोडी पन्नरसें जाणोजी ऊपर
कोडी घेंयालिस प्रणमो अडवन्न लखवन आणे
जी । छत्रीससहस अशीते ऊपर । विव तणो
परिमाणेजी । असंरयात व्यतर ज्योतिपिमां ।
प्रणमूं तेसुविहाणेजी ॥२॥ रायपसेणी जीवाभि
गमें । भगवति सुत्रें भाखीजी । जंवृद्वीप
पन्नत्ती ठाणांगें । विवरीने घणुंदाखी जी ।
बलीय ज्ञाना कल्पमां । व्यवहार प्रमुखें
आखीजी । तेजिन प्रतिमालोपें पापी । जिहा
बहु मृत्रछे साखीजी ॥३॥ गजिन पृजाथी आ-
राधक । ईशान इन्द्र कहायाजी । निमसृगिया-
भ प्रमुख बहु सुरवर । देवीतणा समुदायाजी ।
नदीसर अट्टाड महोत्तम । करेंअतिहर्ष भगया

जी जिनउत्तम कल्याणक दिवसें पद्मविजय नमे
पाया जी ॥४॥ इति ॥

४६ ॥ अथ वीसविहरमाण थूई
पंचविदेह विषेविहरंता । वीस जिनेसर जगजय
वंता । चरणकमल तसुनामूसीस । अहनिंसि स-
मरूँ ते जगदीस ॥१॥ पंचमेरुपासे झलकंता ।
सोहेवीसमहा गजदंता । तिणऊपरिछे जिनवर
वीस । ते जिणवर षणभूँ निसदीस ॥२॥ गण
हर कहिय दुवाल सअंग । थानकवीस भण्या
तिर्हाचंग । तिणऊपरिजे आणेरंग तेनरपामें सु-
क्खअभंग ॥३॥ जिणसासण देवी चउवीस ।
पूरे मुझमन तणी जगीस । संघतणाजे विघन
निवारे तिहुअण जनमन वंछित सारें ॥४॥ इति

४७ ॥ अथ काव्य स्तुति

अशोक वृक्ष सुरपुष्प वृष्टि । दिव्य ध्वनिश्रामर
मासनं च । भामंडलं दुंदुभिरातपत्रं । सत्प्रा-

ति हार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥१॥ सकल करम-
 वारी मोक्ष मार्गाधिकारी । त्रिभुवन उपकारी
 केवल ज्ञानधारी भवियण नितसेवो देवसत्रभ-
 क्ति भावे एजिन भजतां सर्वसपत्ति आवे ॥२॥
 इति । इमके वाद खमां समण देकर इच्छा
 कारेण सदस्सह भगशन् श्रीसिद्धाचलजीका
 चैत्यवंदन करूँ ऐसा कहकर श्रीसिद्धाचलजी-
 का चैत्यवदन निम्नलिखित करे ।

४८ अथ सिद्धाचलजीका चैत्यवंदन ॥१॥

श्री शत्रुंजय सिद्ध खेत्र । दीठे दुर्गतिवारे ।
 भावधारीने जेचढ़े । तेने भवसागर पारउतारे
 ॥१॥ अनतसिद्ध नोएहठाम । सकल तीर्थनो
 राय । पूर्वनवाणूँ रिपभदेव । ज्यांठविओ प्रभु
 पाय । ॥२॥ सूरज कु डसोहामणे । कविडयक्ष
 अभिगम । नाभिराय कुलमंडणो जिनवर
 करूँ प्रणाम ॥३॥ इति ॥

पुनः चैत्यवंदन ॥२॥

विमल केवल ज्ञानकमला । कलित त्रिभुवन हि
 तकरं । सुरराज संस्तुत चरणपंकज । नमोआ-
 दिजिनेश्वरं ॥१॥ विमलगिरिवर शृंगमंडण । प्र-
 वर गुणगण भूधरं । सुरअसुरकिन्नर कोडि
 सेवित ॥नमो०॥२॥ करति नाटक किन्नरीगण
 गायजिनगुण मनहरं । सुरइन्द्रवल्लिनमे अहनिश
 ॥नमो०॥३॥ पुंडरीक गणपति सिद्धिसाधी ।
 कोडिपणमुनि मनहरं । श्रीविमलगिरिवर शृंग
 सिद्धा ॥नमो०॥४॥ जिनसाध्यसाधन सुरमुनी-
 वर कोडिनंत ए गिरिवरं । मुक्तिरमणी चढ़या
 रंगे ॥नमो०॥५॥ पातालनर सुरलोकमांही विम
 लगिरिवरतोपरं नहीअधिक तीरथतीर्थ पतिकहे
 नमो०॥६॥ इमविमलगिरिवर शिखरमंडण ।
 दुःखविहंडण ध्याइये । निजशुद्धसत्ता साधनरथ
 । परमज्योति निपाइये ॥नमो० ॥७॥ जितमोह

कोहविछोह निद्रा । परमपदस्थित जयकरं । ग
रिराजसेवा करणतत्पर पद्मविजय सुहित करं
॥८॥ इति

पुनः चैत्यवंदन ॥३॥

जयजय नाभिनरिदनन्द । सिद्धाचलमडन । जय
जय प्रथमजिण्डघट भवदुःखविहङ्गण ॥१॥ जय
जय साधुसुरिद्वन्द्वं वंदियपरमेष्ठवर । जय जय
जगदानन्दकद । श्रीरिपभ जिनेश्वर ॥२॥ अ
मृतसमजिन धर्मनूँए । दायकजगमेंजान । तुझ
पदपकज प्रीतिधर निसदिन नमतकल्याण ॥३॥
जिकिंचनाम तित्थं० नमोत्थुणं जावंती चेड्या
इ० जावंतीके विसाहू नमोरथमिद्धो० ।

४९ अथ सिद्धाचलजीका स्तवन ॥१॥

साचासाहिवमेरा सिद्धाचलस्वामी ॥टेक॥ चेत
न करमनो जाल फस्योहे । वेगहीकरहु निवेरो

॥सिद्धा०॥१॥ दरसकरतजो शिवफलताको ।
वेगमितेभवफेरा ॥सिद्धा०॥२॥ कलिकाले एक
तुमरेदरसका । आसरा भविको घनेरां ॥सि०॥
३॥ दूषमकुगुरु भरमसवनाठो । अजहुभाग भ
लेरा ॥सि०॥४॥ आतमराम आनंदघनराच्यो ।
तुमरोमानहु चेरा ॥सि०॥५॥ इति

पुनः स्तवन ॥२॥

डगरवतादे पहाडियां । एपरदेशी । डगरवतादे
पियारिया मैतो पूजूंजी । रिषभजिनंद डगर
॥टेका॥ रायणतरुतले चरणविराजे । वीषविरा-
जे जिनराज ॥ड०॥१॥ चउमुखदरस करूने
सुखपाऊं । जिमसुधरेसव काज ॥ड०॥२॥ विम
लाचलमंडनसवमोहे । मंडनधर्म समाज ॥ड०॥
३॥ आतमचन्द जिनंदजीभेटो । वेगमिले शिव
राज ॥ड०॥४॥इति

पुनः स्तवन ॥३॥

सखीरी चलगढ़गिरनारी । यहचाल । प्रभुजी

विमलाचलराजे । जिहा प्रभुरिषभदेव गाजे ।
जायके पूजन करनाजेके । सवही कर्म सुभटभा
जे । भविजन तुमम्यो आलस करते । तन्दो
अघजेरा कर्मकट हरवधन टूटे । मिथ्यामतघेरा
नतेरा शत्रु जगल्लाजे ॥प्र॥१॥ प्रभुजी नामिराय
के नन्दा । काटसव कर्मनका फंदा । भयेजगमें
सुरतरु कदा । समरोधर्मके अनन्दा । निजगुण
सत्ता चिदघन प्रगटी पूण्यरास डकतान । अजर
अमर पूरण पदपामी प्रगटे केवल ज्ञान । भवि
जन महानन्द काजे ॥प्र॥२॥ प्रभुतुम दरसन
हितकारी तेरभववनसें नरनारी । जिनांने घर
ण सरणधारी । केखिलगइ निजगुरु वनवारी ।
तीनपांच अरुएक भवतर करतेमुक्तिमें वास ।
जिनगणघर मुनि कथनरसीला आत्मअनुभव
रास । निहारोनाथ जगतराजे ॥प्र०॥३॥

पुनः स्तवन ॥४॥

जिनदातोर घरण कलमकीरे ॥टेक॥ हृघाहृ

सेवाप्यारी । तोनासेकर्म कटारी । भवभ्रांति
 मिटगड़ सारी ॥जि०॥ विमलगिरिराजे । महि-
 मा अतिगाजोरे । वाजोजगडंका तेरा । तूसच्चा
 साहिवमेरा हूंवालक चेरातेरा ॥जि०१॥ करु-
 णा करस्वमीरे । तूंअंतरेजामीरे । नामीजग पू-
 नमचंदा । तूंअजर अमर सुखकंदा तूंनाभिरा-
 य कुलचंदा ॥जि०॥२॥ इणगिरि सिद्धारे । मु-
 निअनन्त प्रसिद्धारे । प्रभु पुं डरीक गणधारी ।
 पुं डरगिरि नाम कह्यारी । एसहु महिमाहे था-
 री ॥जि०॥३॥ तारकूजगदीठारे । पापपंक सहु
 नीठारे । हटामोहखनमें भारी । में कीनी सेवा
 थारी । हूं मास रहयो सुभचारी निहारोरे ।
 तीरथ जिनवर दोभेटी । मेंजन्मजरादुखमेटी ।
 हूं पाई गुणनी पेटी ॥जि०॥५॥ दविड वारि
 खिछारे । दशकोटि मुनिमिलारे । हुइ मुक्तिरम
 णी भर तारा । कार्तिक पूनमदिन सारा । जि
 न शासन जगजय कारा ॥जि०॥६॥ संवत्शि-

खि चारारे । निधिइंदु उदोरारे । आतमको
आनदकारी । जिनदरसन बलिहारी । पाम्यो
भवजलपारी ॥जि०७॥

पुनः स्तवन ॥५॥

आनन्द अग भयोरी । हमारे आनंद० ॥टेक॥
गधणर पुं डरीक इणगिरि सोहे । देखी अघसहु
जरयोरी ॥ह०॥१॥ इसअत्र सर्पणीतृतीतकालमें
। इणगिरि मोक्षवरयोरी ॥ह०२॥ पु डरीकगिरि
इणकारण प्रगट्यो । नामेंपाप हरयोरी ॥ह०॥
३॥ नंदनको गणाधिप इणगिरि कर्म सुभटथी
लड़योरी ॥ह०४॥ जयपामी तुममुक्ति विराजे ।
सेवक हेज भरयोरी ॥ह०५॥ अरजकरूं निज
पद मुझ आवो । तोसहुकाज सरयोरी ॥ह०॥
६॥ दशा तुमारी आतमानंदी । मुझ प्रगटेतो
सरयोरी ॥ह०७॥

पुनः स्तवन ॥६॥

आदिजिनंद दयालहो । मेरीलागी लगनया

॥टेक॥ विमलाचल मंडन दुख खंडन । मंडन
धर्मविसालहो ॥मे०१॥ विषधर मोरचोर का-
कीजन । दरिसनकर निहालहो ॥मे०२॥ हुंअ-
नाथ तूं त्रिभुवननाथा । करसेरी संभालहो
॥मे०३॥ आतम आनंदकंदके दाता । त्राता
परम कृपालहो ॥मे०४॥

पुनः स्तवन ॥७॥

चलोसजनी जिनबंदनको । विमलाचल पापनि
कंदनको ॥टेक॥ दरसकरत सब पातकजावे ।
तिर्यग्नरक गति छेदनको ॥च०१॥ दूरभवी अ-
भव्यन देखे । घूरकरण सब धंदनको ॥च०२॥
आतम रसभर ओदि जिनांदा । मूरखसे भव
बंधको ॥च०३॥

पुनः स्तवन ॥८॥

सुणजिनवर शेत्रुं जा धणीजीरै दासतेरी अरदा
स । तुझआगल वालक परेजी । हूंंतोकहूं अ-

रदासरे । जिनजी मुझपापीने तार । तूंतो क-
 रुणारस भरचोजी । तू सहुनो हितकारे जि
 नजी ॥मुज०॥१॥ हुअवगुणनो ओरडोजी । गु-
 णतो नहीं लवलेश । परंगुणपेखे नवि शकृ जी
 । केम ससार तरेसरे जिनजी ॥मुज०॥२॥ जी-
 वतन वधमें करचाजी । वोव्यो मृपावाढ । क-
 पटकरी परेधन हरचांजी । सेव्या विषय स्वाद
 रे जिनजी ॥मु०॥३॥ हूंलपट हूलालचीजी ।
 कर्मकीधां केइकोड़ । त्रण भुवनमां को नहीजी
 । जेआवे मुझजोडरे जिनजी ॥मु०॥४॥ छिद्र
 पायां अहनिशोजी । जोतोरहु जगनाथ कुगति
 तणी करणी करीजी । जोड़यो तेहशुंसाथरे
 जिनजी ॥मु०॥५॥ कुमति कुटिल कदाग्रहीजी
 त्रांकीगति मतिमुझ । वांकी करणी माहरीजी ।
 सीसभलावूं तुझरे जिनजी ॥मु०॥६॥ पुन्यविना
 मुझ प्राणिऊंजी जाणे मेलूंर आथ । ऊंचा त-
 रुवर मोरियाजी क्याहिपसारे हाथरे जिनजी

॥मु०॥७॥ विणखाधां विण भोग व्याजी । फो
कटकर्म वंधाय । आर्तध्यान छूटे नहींजी । की-
जे कवन उपायरे जिनजी ॥मु०॥८॥ काजलथी
पण शामलाजी । मारामन परिणाम । सोना
मांही ताहरूंजी । संभारूं नहींनासरे जिनजी
॥मु०॥९॥ मुग्धको ठगवा भणीजी । करूं
अनेकप्रपंच । कूड कपटहूं केलवीजी । पापतणो
करूं संचरे जिनजी ॥मु०॥१०॥ मनचंचल न
रहे किमेजी राखेरमणीरेरूप । काम विटंबणशी
कहूंजी । पडिशूहूं दुर्गति कूपरे जिनजी ॥मु०॥
११॥ किस्याकहूं गुणमाहराजी । किस्या कहूं
अपवाद । जेमजेम संभारूं हियेजी । तेमतेम
बाधे विषवादरे जिनजी ॥मु० ॥१२॥ गिरुआते
नवि देखवेजी । निरगुण सेवकनीवात । नीचत
णो पण मंदिरे जी । चंद्र न टाले ज्योतरे जिन
जी ॥मु०॥१३॥ निसुणो तो पण ताहरोजी
। नाम धराव्यूंदास । कृपाकरी संभारजोजी ।

पुरजो मुझ आशरे जिनजी ॥मु०॥१४॥ पापी
 जाणां मुझमणजी । मतमूको विसार विप
 हलाहल आदरोजी महादेव न तजे तासरे
 जिनजी ॥मु०॥१५॥ उत्तमगुणकारी हुएजी
 स्वार्थविना सुजाण । करसण सीचे सरभरेजी ।
 मेहन मांगे दामरे जिनजी ॥मु०॥१६॥ तूं
 सेवक प्रतिपाल । तूं समरथ सुख पूरवाजी ।
 करे महारी संभालरे जिनजी ॥मु०॥१७॥
 तुझने शू कहिए घणूंजी तूं सववातेजाण ।
 मुझने थाजो साहिवाजी । भवभव ताहरी
 ओणरे जनजी ॥मु०॥१८॥ नाभिराय कुलघद
 लोजी । मरुदेवीनानन्द । कहे जिनहरपनिवार
 ज्योजी । देजोपरमानंदरे जिनजी ॥मु०॥१९॥
 जयवीराय अरिहंत चेइयाणं अन्नत्थ एक नव
 कार काउस्सग ।

५० अथ सिद्धाचलजीका

थूर्ड ॥१॥

पुं डरगिरि महिमा । आगम मांपरसिद्ध । वि-
मलाचलभेटो । लहियें अत्रिचलरिद्ध । पंचमी
गति पहोता । मुनिवर कोड़ाकोड़ । इणें तीर-
थे आवी कर्म विपातक छोड़ ॥१॥

पुनः थूर्ड ॥२॥

श्री शत्रुंजय गिरितीरथ सार । गिरिवर मांहे
जेममेरु उदार । ठाकुर रामा अपार । मंत्रमांहे
नवकारज जाणूं । तारामांहे जेमचंद्र वखाणूं
। जलधर जलमांहे जाणूं । पंखीमां जेमउत्तहंस
। कुलमांहे जेमऋषभनो वंश । नाभितणोजे अं-
श । क्षमावंतमांहे जेमअरिहंता । तपशूरा मुनि-
वर महंता । शत्रुंजय गिरिगुणवंता ॥१॥ ऋष-
भ अजित संभव अभिनंदा । सुमतिनाथ मुख
पूनमचंदा । पद्मप्रभु सुखकंदा । श्री सुपार्श्वचं-

डप्रभ सुविधि । शीतल श्रेयांस बहुवृद्धि । वासु-
 पूज्यमतिशुद्धि । विमलअनंत जिनधर्मएशांति ।
 कुथु अरमल्लिनमूं एकांति । मुनिसुव्रत शुद्धप-
 थि । नमीपासनेवीर चोवीश । नमविना एजिन
 जेवीश । सिद्धिगिरि आव्याईश ॥२॥ भरतराय
 जिनसाथे बोले । स्वामी शत्रुजय गिरिकोण
 तोले । जिननू ववन अमोले । ऋषभकहे सुतो
 भरतराय छहरी पालतांजे नरजांय पातक मूकां
 थाय । पशुपंखी जेइणगिरि आवे भवत्रीजे सि-
 द्धजथावे । अजरामर पदपावे जिनमतमें शत्रु जो
 वखाण्यो । तमेंआगम दिलमाहे आण्यो । सुण
 तां सुखउर आण्यो ॥३॥ संधपति भरत नरेसर
 आवे । सोवनतणा प्रासादकरावे । मणिमय मू-
 रतिठावे नाभिगाय मरुदेवीमाता । ब्राह्मी सुंढ-
 रि वहेन विख्याता । मूर्तिनवाणूं भ्राता । गो
 मुखने चक्रेसरीदेवी । शत्रुंजयसारकरे नित्यमे-
 वी तपगच्छऊपर हेवी । श्रीविजयनेन सृरीश्व-

रराया । श्रीविजयदेव सूरिप्रणमीपाया । ऋष-
मदासगुणगाथा ॥४॥ इति ॥

पुनः थूई ॥३॥

सेत्रु जागिरि नमिये ऋषभदेव पुं डरीक । शुभ
तपनीसहिमा सुणगुरुमुख निरभीक । शुद्धमन
उपवासे विधिसूचैत्य वंदनीक । करिये जिन
आगलटाली वचनअलीक ॥१॥ शक्रस्त वनादि
प्रथम तिलक दसवीस अक्षत गिणतीसे चढ़ता
तिमचालीस । पंचासनी पूजा भाषइ इम जग-
दीस । तेहिजनित प्रणमूं स्वामी जिन चोवीस
॥२॥ सुदि यक्षनी पूनमचेत्र मास शुभवार ।
विधिसेती लहिये आगमसाख विचार । इमसो-
ले वरसलग धरिये न्यानउदार । करतांनरनोरी
पामे ऋवनोपार ॥३॥ सोवन तन चरणे नयने
तिम अरविंद चक्रेसरिदेवी सेविय नरसुरवृंद
। कामित सुखदायक पूरयमन आणंद । जंपेगण
नायक श्री जिनलाभ सुरिंद ॥४॥

पुनः शूर्ड ॥४॥

विमलाचलमंडन जिनवर आदिजिणंद । निरमम
 निरमोहे केवलन्यानजिणंद । जेपूर्वनिवाणूं वा-
 रधरीआनद । सत्रु जागिरि शिखरे समत्रसरचा
 सुखकद ॥१॥ इणचउवीसीमां ऋपभादिक जिन
 राय । वलिकाल अतीते अनत चौवीसीथाय ।
 तेसवि इणगिरिवरआवी फरसीजाय । इमभावी
 काले आवस्ये सविमुनिराय ॥२॥ श्री ऋपभना
 गणधर पुंडरीक गुणवंत । द्वादशअंग रचनाकी-
 धो जेणमहत । भाखीजिन गणधर सेवोकरिथी
 र चित्त ॥३॥ चक्रेसीर गोमुहकवड पमुहसुरसा
 र । जसुसेवा कारणथाप इन्द्रउदार । देवचन्द्र
 गणिभाखे भविजनने अधार । सवतीरथ मांहे
 सिद्धाचल सिरदार ॥४॥ इति ॥

५१ अथ सिद्धाचलजीका दोहा

सिद्धाचल समहं सदा, सोरठ देश मभार ।
 मनुष्य जन्मपामी करी, वदुवार हजार ॥१॥

एकेकं डगलुं भरे, शेत्रुंजा साहमो जेह । ऋप-
 भ कहे भव कोडना, कर्मपखावे तेह ॥२॥ प्रा-
 यः एगिरि साश्वतो, महिमानो नहींपार । ऋप
 भजिणंद समोसर्या, पूर्व नवाणूं वार ॥३॥ शे-
 त्रुंजासमो तीरथ नहि, ऋपभसमा नहिदेव ।
 गौतमसरिखा गुरुनहि, वलीवली वंदुं तेह ॥४॥
 सोरठ देशमां संचर्यो, न चढ्यो गिरनार । शे-
 त्रुंजा नदी नाहच्यो नहि, तेनो एलेगयो अव-
 तार ॥५॥

५२॥ अथ पंचतीर्था चैत्यवंदन

आदिदेव हरिहंतनमूं । समरूं थारूं नाम ।
 ज्यां ज्यां प्रतिमा जिनतणी । त्यां त्यां करूं प्र-
 णाम ॥१॥ शत्रुंजय श्री आदिदेव । नेननमूं
 गिरनार । तारंगे श्रीअजितनाथ । आवूरिषभ
 जुहार ॥२॥ अष्टापदगिरिऊपरें । जिनचौवीशी
 जोय । मणिमयमूरति मानिशूं । भरते भरांवी
 सोय ॥६॥ समेतसिखर तीरथवडो । ज्यांवीशे

जिनपाय । वैभारगिरि ऊपरें । श्रीवीर जिने-
श्वरराय ॥४॥ मांडवगढ़नो राजियो । नामेंदेव
सुपास । रिषभकहे जिनसमरंता । पोहोचे म-
मननी आस ॥५॥ इति॥

५३ ॥ अथ चौवीशजिनका चैत्यवन्दन ॥

पद्म प्रभुने वासुपूज्य । दोयराता कहियें चंद्रप्रभु
ने सुविधिनाथ । दो उज्वललहिए ॥१॥ मल्ली
नाथने पार्श्वनाथ । दोनीला निरख्या । मुनि
सुव्रतने नेमनाथ दो अंजन सरिखा ॥२॥ शोले
जिन कंचनसमए । एवाजिन चौवीस । धीर
विमल पंडिततणा । ज्ञानविमलकहे शीप ॥३॥

५४ जिनचौवीस समकित भवगणतीका चैत्यवन्दन

प्रथमतीर्थकर तणाहुआ भवतेर कहीजें । शांति
तणाभववार सार नवभवनेम लहीजें ॥१॥ दश

पुनः चैत्यवंदन ॥२॥

श्री अरिहंत उदार कांति । अति सुन्दर रूप ।
 सेवोसिद्ध अनंतशांति । आत्म गुणभूष ॥१॥
 आचारज उवझाय साधु । शमता रसधाम ।
 जिन भाषित सिद्धांत शुद्ध । अनुभव अभिराम
 ॥२॥ बोधिवीज गुण संपदाए । नाण चरण तव
 शुद्ध । ध्यावो परमानंद पद । ए नवपद अविरु-
 द्ध ॥३॥ इहभव परभव आनन्दकंद । जगमांहि
 प्रसिद्धो । चिंतोमणि समजास जोग ॥ बहु
 पुण्ये लद्धो ॥४॥ तिहुअण सार अपार एह ।
 महिमामनधारो परिहरपरजंजाल जाल । नित
 एह संभारो ॥५॥ सिद्धचक्र पद सेवतां । सह-
 जा नन्द स्वरूप । अमृतमय कल्याण निधि ।
 प्रगटे चेतन भूष ॥६॥ इति ॥

पुनः चैत्यवंदन ॥३॥

दो०—अरिहंत सिद्धआराधिये सूरिछत्तीस गुण

धाम । चौथे पन पोठकनमृ । पंचम साधूनाम
 ॥१॥ दर्शन ज्ञान चारित्रको सेवो भविनितमेव
 । तप कहो दोयभेदसें । करो जिन वरणीसेव
 । श्रीपालवे मयणांपरे थाये जयजयकार । माण
 क कहि नितवंदिये । पामेभवनो पार ॥३॥

पुनः चैत्यवंदन ॥४॥

दो०—जयजय अरिहतदेव द्वादशगुणधारी ।
 जयजय सिद्ध महाराज शत्रु गण हणियाभारी ।
 जयजय सूरिउवज्झाय । पचवीसगुणधारी । जय
 जय साधुशांतदान्त भविजन हितकारी । दर्शन
 ज्ञान चरण नमो । तपसेवो निरधारी । माणक
 चद प्रणमें सदा नितवदो नरनार ॥ इति ॥

५८ ॥ चैत्यवंदन ॥

जय जय त्रिभुवनआदिनाथ । पचमगतिगामी ।
 जय जय करुणाशांतदांत । भविजनहितगामी ।
 जय जय डंडनरिद्वृ द । सेवितसिरनामी । जय

सार ॥१॥ दोय बरस दोयमासमां । उत्कृष्टा
जीवाजीव । आर्त रौद्रको दूरकरी । आराधो
शुभभाव ॥२॥ भावो नितनितभावना मुक्ति
आराधन भाव । दूजतिथि आराधवा । माणक
कहेचित चोव ॥३॥

६२ अथ पंचमी चैत्यवंदन

दो०—नमूंनमूं पंचमिदिने । प्रभु श्री नेमिना
थ । पंचमि तप करवाथकी मिले सिद्धनो सा-
थ ॥१॥ पांचज्ञान आराधिये । मतिश्रुति अव-
धि जाण । मन पर्यव चौथो कहो । पंचमो
केवल नाण ॥२॥ वरदत्तने गुण मंजरी । आरा-
धो तप एह । श्री चारित्र सूरितणों । माणक
कहे धन तेह ॥३॥

६३ अथ अष्टमी चैत्यवंदन

दो०—आठ त्रिगुण जिनवरेणीं । करूं नितप्र-
तिसेव । दंड वीरज राजा थयो । अष्टमि तप

नित मेव ॥१॥ आठ करम दूरे करो । कुरो
 प्रभुनितसेव । पार्श्वप्रभु नितध्यावतां । वर्तेआनं-
 द मेव ॥२॥ चैत्रवदि आठमदिने । जनम्या ऋ-
 पभ जिणंठ । जिनचारित्र सूरितणों । वडेमाण
 कचंद ॥३॥

६४ अथ एकादशीका चैत्यवन्दन
 दो०—एकादश पड़िमावहो । पढ़ोअगियारअग
 । एकादशी आराधिये । करिये गुरुनोसग ॥१॥
 जन्मदीक्षा केवललह्या प्रभुश्रीमल्लिनाथ । सुव्रत
 ए तिथि वही गयोमुक्तिके साथ ॥२॥ मौनकरी
 आराधिये एकादशी शुभमेव । जिनचारित्र सू-
 रितणों । माणकरे नितमेव ॥२॥

पुनः चैत्यवन्दन

दो०—चौदसुपन लहेमात ए श्री जिनवर केरी
 । चौदरयणपति जेहना । प्रणमे पदफेरी ॥१॥
 चउदश दस जिन वदिये भावधरीने आज । ज

न्मसरण मिटजात ए फेरी चौदाराज ॥२॥ जं-
गम युग प्रधानए श्री चारित्र सुरिंद । पदम प्र-
मोद प्रसादथी लहे । माणक विद्याचौद ॥३॥

६५ अथ पर्यूषण चैत्यवंदन

पर्व पर्यूषण आविद्या । पूजोजिन चौविस ।
शासन जेहने दीपतो । जयवंतो जगदीस ॥१॥
अष्टमदीप काजाणिये । नन्दीसर सुभनाम ।
देवदेवी नाटककरे करेप्रभुगुणग्राम ॥२॥ अट्टा-
ई महोत्सव सुरकरे । पूजेनित प्रभुमेव । श्रीजि
न चारित्र सूरितणों । माणककरे नितसेव ॥३॥

६६ अथ सिद्धिगिरि चैत्यवंदन

सेत्रुंजय गिरिभेष्टतां । पातिक दूर पुलाय ।
शाश्वतो तीरथएकह्यो श्रीज्ञानी जिनराय ॥१॥
पुंडरीक आदि गणधरा । नवनारद ऋषिराय ।
अनंतोजीव मुक्तेगया । तीर्थतणों महिपाय ॥२॥
ए तीरथ को वंदना । नित नित करो सवधा-

य माणक कहे नित वंदतां । भव भव फेरि
मिटाय ॥३॥ इति ॥

६७ अथसीमंधरजीका दोहे

दो०—श्रीमधरप्रभु वदिये । कोटिथाये कल्याण
पिता श्रेयांस राय माता सत्यकी जाण ॥१॥
ऋपम लांछन शोभे घणों महिमा अपरंपार ।
गणधर घौराशी कहा ज्ञानतणां भंडार ॥२॥
सतक्रोड़ी तिहां मुनिवरा प्रभुतणों परिवार ।
माणकनितनित वंदतां । पातिकदूर पुलाय ॥३॥

६८ अथ अंवालालजी कृत

चैत्यवन्दन

दो०—आदिनाथ पहिला नमू । शिवदायक
स्वामी । अजितनाथ बीजा नमूं । जगअतर
जामी ॥१॥ श्री संभवत्रीजा नमूं । त्रिभुवन
हितकारी । अभिनदन घोथा नमूं । प्रभु
जगआधारी ॥२॥ सुमतिनाथ जिनपांचमां । सु-

मति तणा दातार । पद्मप्रभु छट्टानमू । पोहो-
 ता सुक्ति मझार ॥३॥ श्रीसुपासजिन सातवां ।
 कर्या कर्म चकचूर । चंद्रप्रभु जिन आतवां ।
 पाम्या सुख भरपूर ॥४॥ सुबुधिनाथ नववां
 नमू । प्रभुजी परमदयाल । दशवां श्री शीतल
 प्रभु । कोटि कर्मनीजाल ॥५॥ श्री श्रेयांस
 इग्यारवां प्रभुजी गुणमणि खाण । वासुपूज्य
 जिन वारेवां । दीठां परमकल्याण ॥६॥ विमल
 नाथ जिन तेरवां विमल विमल गुण खाण ।
 अनंतनाथ जिन सेवतां । प्रगटे आतम ज्ञान
 ॥७॥ धर्मनाथ जिन पनरवां । धर्मतणोदा-
 तार । शांतिनाथ जिनशोलम उतारे भवपार
 ॥८॥ कुंथुनाथ जिन सतरवां । तारक त्रिभुव
 ननाथ । श्रीअरनाथ अठारवां । साचा शिवपु-
 रसाथ ॥९॥ मल्लिनाथ उगणीशवां । जगपति
 श्री जिनराय । सुनिसुव्रत जिन वीसवां । दीठा
 ओवेदाय ॥१०॥ नमिनाथ एक वीसवां ।

धारक गुण समुदाय । नेमिनाथ वावीसवां
 भक्तिकरो चित्तलाय ॥११॥ आशापूरे पासजी
 । त्रेवीशमो जिनचंड । वर्द्धमान चोवीसवां
 प्रणमे सुरनरइद ॥१२॥ ए चोवीसे जिनसदा ।
 समरो चित्तहित लाय । आतम निर्मल कीजिये
 प्रभुजीना गुणगाय ॥१३॥ प्रभु समरथां पाति-
 व कटे । कोटिविघन टलिजाय । अंवालाल कर
 जोड़िने । प्रणमे जिनवर राय ॥१४॥ सवत
 उगणीसें इग्यारनोए । महाशुढी पंधमीसारे ।
 जिनगुण गायाप्रेमशूं । रत्नपुरी सुमझार
 ॥१५॥ इति ॥

६९ तीर्थमाला स्तवन

शत्रुंजे ऋषभ समोसरथा । भलागुण भग्यारे ।
 सिद्धासाधुअनत । तीरथतेनमूरै । तीन कल्या-
 णकनिहां थया मूं गते गयारे । नेमीसरगिरनार
 ॥१॥ती०॥ अष्टापद एकदेहरो । गिरि सेहरो
 रे । भरते भर्याविंय ॥ती०॥ आवृं चौमुख

अतिभलो । त्रिभुवन तिलोरे । विमलवसी वस्तु
 पोल ॥ती०॥२॥ समेतसिखर सोहामणो रलि-
 यामणोरे । सिद्धातीर्थकर वीश ॥ती०॥ नयरी
 चंपा निरखियें । हियें हरखीयेंरे । सिद्धा श्री
 वासुपूज्य ॥ती०॥३॥ पूर्वदिशें पावापुरी । ऋद्धे
 भरीरे । सुक्तिगया महावीर ॥ती०॥ जेशलमेर
 जुहोरिये दुख वारियेंरे । अरिहंत विंब अनेक
 ॥ती०॥४॥ वीकानेरज वंदियें चिरनंदियें रे ।
 अरिहंतदेहरां आठ ॥ती०॥ सोरिसरो संखेश्व-
 रों पंचासरोरे । फलोधी थंभणपास ॥ती०॥५॥
 अंतरिक अजावरो । अमीझरोरे । जीरावलो
 जगनाथ ॥ती०॥ त्रेलोक्य दीपक देहरो । जा-
 त्रा करोरे । राणपुरें रिसहेस ॥ती०॥६॥ श्री
 नाडुलाई जादवो । गोडिस्तवोरे । श्रीवरका-
 णो पोल । ॥ती०॥ नंदी स्वरानां देहरां । बा-
 वन भलारे । रूचककुंडले चार चार ॥ती०॥७॥
 शोशवती अशाश्वती । प्रतिमा छतिरे । स्वर्ग मृ-

स्यु पातोल ॥ती०॥ तीरथजात्रा फलतिहां ।
 होजो सुझइहां रे । समय सुन्दर कहे एम
 ॥ती०॥८॥ इति ॥

७० नवपद स्तवन ॥१॥

सुरमणी समसहुमंत्रमां । नवपद अभिरामी रे
 लोय ॥अहोनव०॥ करुणासागर गुणनिधि । ज-
 गअंतरजामीरे लोय ॥अहोजग०॥१॥ त्रिभुवन
 जनपूजितसदा । लोकालोक प्रकाशीरे लोय ।
 अहोलोका०॥ एहवो श्रीअरिहतजी । नमूचित
 उछासीरे लोय ॥अहोन०॥२॥ अष्टकरमदलक्षय
 करी । थयासिद्ध सरूपीर लोय ॥अहोथ०॥
 सिद्धनमो भविभावथी । जेअगम अरूपीरे लोय
 ॥अहोजे०॥३॥ गुणछत्तीसे सोभता । सुन्दरसु-
 खकारीरे लोय ॥अहोसुं॥ आचारजतीजेपदे ।
 वंदूअविकारीरे लोय ॥अहोव०॥४॥ आगमधारी
 उपशमी । तपदुविध आराधीर लोय ॥अहोत०॥
 चौथे पदपाठकनमो । सवेगसमाधी रे लोय

॥अहोसं०५॥ पंचाचार पालणपरा । पंचाश्रव
 त्यागीरे लोय ॥अहोपं०॥ गुणरागी मुनिपांचमें
 । प्रणमूं वडभागीरे लोय ॥अहोप्र०६॥ निजपर
 गुणने ओलखे । श्रुतश्रद्धा आवेरे लोय ॥अहो
 श्रु०॥ छठेगुणदरसण नमो । आतम शुभभावेरें
 लोय ॥अहोआ०७॥ ज्ञाननमो गुणसातमें जे-
 पंचप्रकारे रे लोय ॥अयोजे०८॥ आठमें चारि-
 त्रपदनमो । परभाव निवारीरे लोय ॥अहोप०॥
 खंत्यादिक दश धरमनो । जेह छे अधिकारीरे
 लोय ॥अहोजे०९॥ नवमें वलि तपपद नमो ।
 वाह्यभ्यंतर भेदेरे लोय ॥अहोवा०॥ वांध्या
 काल अनंतना । जेकर्म उच्छेदेरे लोय ॥अहोजे०
 ॥१०॥ ए नवपद बहुमानथी । ध्यावे शुभवावेरे
 लोय अहोध्या०॥ नृपश्रीपालतणी परे । मन वं-
 छित पावेरे लोय ॥अहोम०११॥ आसूचेत्रक
 मासमां । नवआंविल करियेरे लोय । अहोन० ।
 नवओली विधियुतकरी । शिवकमला वरियेरे

लोय ॥अहोशि०१२॥ सिद्धचकनी बहुपरे । वर
महिमा कीजैरे लोय ॥अहोव०॥ श्रीजिनलाभ
कहेसदा । अनुपम जसलीजेरे लोय ॥अहोअ०॥
॥१३॥ इति ॥

॥ पुनः ॥२॥

तीरथनायक जिनवरूँजी । अतिशय जास अनू-
प सिद्धअनंत महागुणीजी । परमानदसरूप ।
भविकमन धारोरे ॥१॥ धारजो नवपद ध्यान ।
॥भ०॥ श्रीआचारज गणधरूरे गुणछत्तीसनिवास
। पाठकपदधर मुनिवरूँजी । श्रु तदायक सुविला
स ॥भ०॥२॥ सुमतिगुपति धरशोभताजी । सा
धुसमतावत । सम्यग दर्शनसुन्दरूजी । ज्ञानप्र-
काशअनत ॥भ०३॥ सवरसाधना घरण छेरे ।
तपउत्तम विधिहोय ए नवपदनाध्यान थीरे ।
निरुपाधिकसुख होय ॥भ०४॥ अमृतसमजिन
धर्मनोरे । मूल ए नवपदजाण । अविचल अनुभव
कारणोजी । नितप्रतिनमत कल्याण ॥भ०५॥
इति ।

॥ पुनः ॥३॥

अरिहंतसिद्ध आचारज पाठक । साधुदेखो गु-
णरूपउदारी ॥नव०१॥ दरशन ज्ञान चारित्रहे
उत्तम । तपदोअ भेदेहृदयविचारी ॥नव०२॥
मंत्रजड़ीउर तंत्रघणेरा । उनसव कुंहमदूर वि-
सारी ॥नव०३॥ वहोतजीवभव जलसेतारे ।
गुणगावतहे बहुनरनारी ॥नव०४॥ श्रीजिनभक्त
मोहन सुनिवंदन । दिन दिन चढ़ते हरख अपा-
री ॥नव०५॥ इति ।

॥ पुनः ॥४॥

नवपदधरजोध्यान । भवि तुंमें नवपदधरजोध्यान
। एनवपदनुं ध्यानकरंतां । पामे जीव विसराम ।
॥भवि०१॥ अरिहंतसिद्ध आचारज पाठक ।
साधुसकल गुणवान ॥भ०२॥ दर्शनज्ञान चारि-
त्र ए उत्तम । तपतपो करी बहुमान ॥भ०३॥
आसोचैत्रनी सुदसातमथी । पूनमलगे परेमान

॥भ०४॥ एम इक्कासी आंविल कीजे । वरस
 ढाचारनूंमोन ॥भ०५॥ पडिक्कमणां दोयटंक-
 नां कीजे । पडिलेहण वेवार ॥भ०६॥ देववदन
 त्रणटकनां कीजे । देवपूजो त्रिकाल । ॥भ०७॥
 वार आठ छत्रीस पचवीसनो । सत्तावीस सड-
 सठसार । ॥भ०८॥ एकावन सितर पचासनो ।
 काउस्तगग करो सावधान ॥भ०९॥ एक एक
 पटनूंगणणू गणीये दोयहजार ॥भ०१०॥ ए-
 नी विधेजेएतप आराधे । तेषामे भवपोर ॥भ०
 ॥११॥ करजोडी सेवक गुणगावे । मोहनगुण
 मणिमाल ॥भ०१२॥ तासशिष्य मुनिहेम कहे छे
 । जन्ममरण दुखवार ॥भ०१३॥

॥ पुनः ॥५॥

नवपदध्यानधरो । भविका ।न०। मनवचकाया
 र एकते । विकथा दूरहरोरे ॥भ०न०१॥ मंत्र
 जडाअरुतत्र घणोरो । इन सवकूं विसरोरे ।
 अरिहतादिक नवपद जपीने । पुरणभडार भरो

रे भ०न०२॥ अङ्गसिद्ध नवनिध मंगलमाला ।
संपतिसहज वरोरे लालचन्द्र याकी बलिहा ।
शिवतरुबीजखरोरे ॥भ०न०३॥ इति ।

॥ पुनः ॥६॥

समरी शारदामाय । प्रणमी निजगुरुपाय । अ-
छेलाल । सिद्धचक्र गुणगायशूंजी ॥१॥ सिद्ध-
घक्रगुणगेह । जसगुण अनंत अछेह ॥अ०॥
समस्वां संकट उपशमेंजी । लहियें वंछितभोग ।
पामीसवि संजोग ॥अ०॥ सुरनरओवी बहुनमें
जी ॥२॥ कष्टनिवारेएह । रोगरहित करेदेह ।
॥आ०॥ आवेमंगलमालनेजी ॥३॥ एसमअवर
न कोय । सेवेते सुखियोहोय ॥अ०॥ मनवच
कोया वसकरीजी । नवआंविल तपसार पडिक्क-
मणूं दोयवार ॥अ०॥ देववंदन त्रणटंकनांजी
॥४॥ देवपूजोत्रणवार । गुणणूं ते दोयहजार
॥अ०॥ स्नानकरी निर्मलजलेंजी । आराधेसि-
द्धचक्र । सानिधकरे तेनीशक्र ॥अ०॥ जिनवर

जिमआगे भणेजी ॥५॥ एसेवा निशिदीश ।
 कहिये विशवावाश ॥अ०॥ आलजंजोल सवि
 परिहरूंजी । एचिंतामणिरत्न । एहनांकीजेयत्न
 ॥आ०॥ मंत्रनहीएह उपरेंजो ॥६॥ श्रीविम-
 लेसर यक्ष । होजो मुजपरतक्ष ॥अ०॥ हकि-
 करळूं ताहरोजी । पाम्यो तू हिजडेव । निरंतर-
 करूं हवेसेव ॥अ०॥ दिवसवल्योहवे माहरोजी
 ॥७॥ वीनती करूं छू एह । धरजो मुजशूनेह
 ॥अ०॥ तमनें शूं कहियें वलीजी । श्रीलक्ष्मी
 विजय गुरुराय । शिष्यकेसर गुणगाय ॥अ०॥
 अमरनमे तुझ लुलि लुलीजी ॥८॥ इति ॥

॥ पुनः ॥७॥

अवसरपामीनेरे । कीजें नव आंविलनीओली ।
 ओलीकरंतां आपटजाये । रिद्धसिद्धलहियेंवहुली
 ॥आ०१॥ आसोनेचेत्रें आदरशूं । मातमथी
 सभालीर । आलसमेली आंविलकरडें । तस
 घरनित्यदीपाली ॥अ०२॥ पूनमनेदिन पूरीथा

चार । नवआंविल निरधार ॥अ०॥ विधिशूं
 जिनवर पूजियें । अरिहंतसिद्धपदसार । गुणणूं
 थी तैर हजार ॥अ०॥ नवपद नूंयश कीजिये-
 जी ॥२॥ मयण सुंदरी श्रीपाल । आराध्यो
 ततकाल ॥अ०॥ फलदायक तेहने थयोजी ।
 कंचनवरणीकाय । देहीतेहनीथाय ॥आ०॥ श्री
 सिद्धचक्र महिमाकह्योजी ॥३॥ सांभली सहुनर
 नार । आराधो नवकार ॥अ०॥ हेजधरी हिय
 डे घणूंजी चैत्रमासेवलि एह । नवपदसुंधरो
 नेह ॥अ०॥ पूजोद्ये शिवसुखघणूंजी ॥४॥
 इणिपरें गौतमस्वामी । नवनिधि जेहनेनाम
 ॥अ०॥ नवपदमहिमा वखाणियोजी । उत्तम
 सागर शिष्य । प्रणमेते निशदीस ॥अ०॥ नव-
 पदमहिमा जाणियोजी ॥५॥ इति

॥ पुनः ॥१०॥

भविया श्री सिद्धचक्र आराधो । तुमेंमुक्ति मा-
 र्गनें साधो । इहनरभव दुर्लभलाधो होलाल ।

नवपदजाप ज पीजें ॥१॥ त्रणटकदेव वांटीजें ।
 तिहुकाले जिन पूजीजें । आविल तपनव दिन-
 कीजें हो लाल ॥न०२॥ शुदि आंसोचैत्रमासें
 सातमथी अभ्यासे । पदसेव्यां पातकनासेहो
 लाल ॥न०३॥ मयणाने नृप श्रीपाले । आरा-
 ध्योमंत्र उजमाले । एहदुःखदोहगने टालेहो
 लाल ॥न०४॥ एहनीजे सेवासारे । तसमयगल
 गाजेवारे । ईतिभीति अनीति निवारहो लाल
 ॥न०५॥ मिथ्यात्वविकार अनिष्ट । क्षयथाये दो
 पीदुष्ट । इणेसेव्या समकित पुष्टहोलाल ॥न०
 ॥६॥ जसवंत जिणंद सुसाखे । भविसिद्ध चक्र
 नो गुणभांखे । ते ज्ञानविनोद रसचाखे हो
 लाल ॥न०७॥ इति

॥ पुनः ॥११॥

श्रीसिद्धचक्र आराधिये । शिवसुख फलसहकार
 लालरे । ज्ञानादिक त्रणरत्ननूं । तेजघटावण
 हार लालरे । पाठांतरे ॥श्रीसि०१॥ गौतमें पू-

नो रासके ॥न०२॥ नवविधि पूर्वकतपकरी उज
 मणूंहो कीजें विस्तारके । साहमि सामिणी
 पोषिथे । जेम लहियेहो भवनोनिस्तारके ॥न०
 ॥६॥ नरसुखसुर सुखपामिये । वलिपामेहो भव
 भव जिनधर्मके । अनुक्रमें शिवपदपणलहे । जि-
 हां महोटाहो अक्षय सुखशर्मके ॥न०४॥ साभ-
 ली भवियण दिलधरो । सुखदायीहो नवपद अ-
 धिकारके । वचनविनोद जिनेन्द्रनो । मुझहोजो
 हो भव भव आधारके । नवपद महिमासांभलो
 ॥५॥ इति

॥ पुनः ॥१५॥

केसरवरणोहो केकाढ़कसूंवी महारालाल ।
 एदेशी । गोयम नाणीहो । केकहे सुणोप्राणी
 महारालाल । जिनवरवाणी हो । केहियडेआ-
 णी ॥मा०॥ आसोमासेंहो । केगुरुनेपासें ॥मा०
 नवपदध्याने हो । मेअंगउल्लासें ॥मा०१॥ आं-
 विलकीजेंहो । केजिन पूजीजें ॥मा०॥ जापज-

पीजे । केदेववांदीजे ॥मा०॥ भावनाभावोहो ।
 केसिद्धचक्रध्यावो ॥मा०॥ जिनगुणगावो हो ।
 केशिवसुखपावो ॥मा०२॥ श्रीश्रीपालेहो । के-
 मयणावाले ॥मा०॥ ध्यानरसाले हो । के रोग
 जटाले ॥मा०॥ सिद्धचक्रध्यावोहो । केरोगमा-
 यो ॥मा०॥ मत्रआराध्योहो । केनवपदपायो
 ॥मा०३॥ भामनीभोलीहो । केपहरे पटोली
 ॥मा०॥ सहियर टोलीहो । केकुंकुमघोली ॥मा०
 थालकचोलीहो । केकीजे ओली ॥मा०४॥ घे-
 जेआसोहो । केमनने उल्लासे ॥मा०॥ नवपद
 ध्यानेहो । केशिवमुखपासे ॥मा०॥ उत्तमसागर
 हो । केपडितराया ॥मा०॥ सेवककांतेहो । के-
 बहुसुखपाया ॥मा०५॥ इति

॥ पुनः ॥१६॥

अछेलालनीदेशी । नवपद महिमासार । सांभल
 जोनरनार । अछेलाल । हेजधरी आराधिये ।
 तो पामो भवपार । पुत्र कलत्र परिवार ॥आ०

नवपद मंत्र आराधिये ॥१॥ आंकणी आसो
 मासविचार । नव आंवल निरधार ॥आ०॥
 विधिशूं जिनवर पूजिये । अरिहंत सिद्धपदसार
 । गणणूं जी तेरहजार ॥आ०॥ नवपदनूं इमकी
 जिये ॥२॥ मयण सुंदरी श्रीपाल । आराध्यो
 ततकोल ॥आ०॥ फलदायक तेहनेथयो । कंचन
 वरणी काय । देही तेहनीथाय ॥आ०॥ श्रीसि-
 द्धचक्रमहिमाकह्यो ॥३॥ सांभलि सहुनरनोर ।
 आराध्यो नवकार ॥आ०॥ हेजधरी हियडेघणूं
 । चैत्रमासें वलिएह । नवपद शूंधरोनेह ॥आ०॥
 पूज्योच्ये शिव सुखघणूं ॥४॥ इणिपरें गौतम
 स्वामी । नवनिधि जेहनेनाम ॥आ०॥ नवपद
 महिमो वखाणियो उत्तम सागर शिष्य । प्रण-
 तेमें निशदीस ॥आ०॥ नवपद महिमा जाणियो
 ॥५॥ इति

॥ पुनः ॥१७॥

सीतातो रूपेंरूडी । एदेशी । श्री वीर जिणंद

वखाण्यो । तिहांगौतमगणधर जाण्योहो । नव-
 पदधाड्यं । श्री श्रीपालनरेणें । मयणायें गुरुउ-
 उपदेशेंहो ॥न०१॥ श्रीसिद्धचक्रआराव्यो । तो
 सयलपदारथसाध्योहो ॥न०॥ आसोमासेंकीजे
 । सुदिसातमे जिनपूजजेंहो ॥न०२॥ अष्टकमल
 ढलथापी । महिमाजस त्रिभुवनव्यापीहो ॥न०॥
 मध्यदले जिनध्यानें । ध्यावोभविधवले वानेंहो
 ॥न०३॥ पूरंबदिशेसिद्धछाजे । रातेतनुतेजवि-
 राजेहो ॥न०॥ आधारजपदत्रीजे । जिमसोवन
 वानकरीजेंहो ॥न०४॥ पश्चिमदिश उवज्ञाया ।
 नीलेतनुवान सोहायाहो ॥न०॥ साधुसकलघन
 वानें । उत्तरदिशिध्यावोध्यानेंहो ॥न०५॥ ना-
 णअग्निकोनेंध्यावो । जिमअत्यतसुखतुमेंपावोहो
 ॥न०॥ ढंसणआराहोप्राणी । नैरितविदिगे मन
 आणीहो ॥न०६॥ वायव्यकोणें कहिजें । चा-
 रित्रध्यायी सुखलीजेंहो ॥न०॥ ईशाने तपध्यावो
 । उज्जलसमकित सुखपावोहो ॥न०७॥ आसो

चैत्रजमासं । जपतां ऋद्धिआवे पासंहो ॥न०॥
 विधिशूं देव वंदीजें । श्रीजिनवरपूजा रर्चीजेंहो
 ॥न०८॥ नवपद जापजपीजें आंवलितपदीन की-
 जेंहो ॥न०॥ श्रीसिद्धचक्रसेवीजें । पंचामृत न्ह-
 वणकरीजेंहो ॥न०९॥ घउपूरवनोसार । एमंत्र-
 वडो नवकारहो ॥न०॥ बुधउत्तमसागर राया ।
 शिष्यकांति सागरसुखपायाहो ॥न०१०॥ इति ।

॥ पुनः ॥१८॥

सेवोरे भविभावे नवकार । जंपे श्रीगौतम गण-
 धार । भंविसांभलो । हारेसंपदथाय ॥भ०॥ हां
 रेसंकटजाय ॥भ०॥ आशोने चैत्रेहरषअपार ।
 आणी गुणणूं कीजेंतैरहजार ॥भ०१॥ चारवर-
 सनेवल्लि षटमास । ध्यानधरो भावे धरीविश्वा-
 स ॥भ०॥ ध्यायोरे मयण सुंदरी श्रीपाल । ते-
 हनोरोगगयो ततकाल ॥भ०२॥ अष्टकमलदल
 पूजारसाल । करीन्हवण छांढ्युं ततकाल ॥भ०॥
 सातसें महिपति तेहने रेध्यान । देहीपामी कंच-

नवान ॥भ०३॥ महिमाकहेतां एनोनावेपार ।
 समरोतिणे कारण नवकार ॥भ०॥ इहभव पर-
 भव धेसुखवास । बहुपामे लच्छीलीलविलास
 ॥भ०४॥ जाणीरेप्राणी लाभअनत । सेवोसुख-
 दायकएमत ॥भ०॥ उत्तमसागर पडितीशप ।
 कांतिसागर निशदीस ॥भ०५॥ इति ।

॥ पुनः ॥१९॥

भविया श्री सिद्धचक्रआराधो । तुमेभुक्तिमार-
 गनें साधो । इहनर भवदुर्लभलाधो होलोल
 ॥१॥ नवपदजाप जपीजें । त्रणटकडेव चांदीजें ।
 त्रिहुकालें जिनपूजीजें । आंविल तपनव दिनकी-
 जें होलाल ॥न०२॥ सुदि आसो चैत्रजमासें ।
 तपसातमथी अभ्यासें । पदसेव्या पातकनासें
 होलाल ॥न०३॥ मयणाने नृपश्रीपालें । आरा-
 ध्योमंत्र उजमालें । एहदुःखदोहगनें टाले हो-
 लाल ॥न०४॥ एहनी जेसेवासारे । तसमयगल
 गाजेवारें । ईतिभीति अनीति निवारे होलाल

॥न०५॥ मिथ्यात्त्र विकार अनिष्ट । क्षयजाये
दोषीदुष्ट । इणे सेव्यां समकित पुष्ट होलाल

॥न०६॥ जसवंतजिनेंद्रसूरिसाखे । भविसिद्धच-
क्रना गुणभाखे । ते ज्ञान विनोद रसचाखे
होलाल ॥न०७॥

॥ पुनः ॥२०॥

श्रीसिद्धजक्र आराधिये । शिवसुख फलसहका-
र लालरे । ज्ञानादिक त्रणरत्ननूं । तेजचढावण
हार लालरे । पाठान्तरे ॥श्रीसि०१॥ गौतम
पूछता कह्यो । वीरजिणंद विचार लालरे । नव
पदमंत्र आराधतां । फललहे भविकअपार ला-
लरे ॥श्रीसि०२॥ धर्मरथनां चारचक्रछे । उपश-
मनें सुविवेक लालरे । संवरत्रीजूं जाणियें ।
चौथूं सिद्धचक्रछेक लालरे ॥श्रीसि०३॥ चक्री-
चक्र रयणवलें । साधे सयलछखंड लालरे । ति-
मसिद्धचक्र प्रभावथी । तेज प्रताव अखंड ला-
लरे ॥श्रीसि०४॥ मयणाने श्रीपालजी । जपतां

बहुफललीध लालरे । गुणजसवत जिनेन्द्रनो ।
ज्ञानविनोद प्रसिद्ध लाल रे ॥श्रीसि०५॥

॥ पुनः ॥२१॥

आरहो प्राणी साची नवपद सेवा । ए आंरु-
णी । नवनिधि आये नवपदसेवे । इमभाखे श्री-
जिनदेवो ॥आ०१॥ श्रीसिद्धचक्र धरोनित्यदिल
में । जैमे गजमनरेवा ॥आ०२॥ अरिहतादिक
एकपद जपतां । हारे लहिये सुखसदेवा ॥आ०
३॥ समुदित जपता किमकरी न करे । सुरसु-
ख द्रुमफललेवा ॥आ०४॥ जिनेन्द्रकहे डम ।
ज्ञानविनोदे । हर्षित द्योनितमेवा । ॥आ०५॥

॥ पुनः ॥२२॥

गौतम पूछत श्रीजिन भाखत । बचन सुधारस
पानकी । बलिहारी नवपद ध्यानकी ॥१॥ नव
पदसेवे नवमे स्वर्गे । पावत ऋद्धि विमानकी
॥व०२॥ याकी महिमा बल्लभ हमकूं जैसे ज-
सोदो कानकी ॥व०३॥ पावे रूप स्वरूप यदन

सो । देही कंचन वानकी ॥व०४॥ याको ध्या-
 न हृदयं जव आवत । - उपजत लहेरी ज्ञानकी
 ॥व०५॥ समकित ज्योतिहोवे दिल भीतर ।
 जैसे लोकनमें भानकी ॥व०६॥ जिनेन्द्र ज्ञान-
 विनोद प्रसंगें । भक्तिकरो भगवानकी ॥व०७॥

॥ पुनः ॥२३॥

नवपद महिमा सांभलो । वीरभाखें हो सुणो
 पर्षदावारके । ए सरीखो जगको नहीं । आ-
 राध्यो हो शिवपद दातारके ॥न०१॥ नवओ-
 ली आंविलतणी । भवि करियें हो मनने उल्ला-
 सके । भूमी शयन ब्रह्मव्रतधरो । नितसुणियें हो
 श्रीपालनो रासके ॥न०२॥ नवविधि पूर्वक तप
 करी । ऊजमणूं हो कीजें विस्तारके । साह-
 मो समिणी पोषियें । जेम लहियें हो भवनो-
 निस्तारके ॥न०३॥ नरसुख सुरसुख पोमियें ।
 वलीपामे हो भव भव जिन धर्मके । अनेक्रमें
 शिवपद पण लहे । जिहां मोहोहोहो अक्षय

सुख शर्मके ॥१॥ सांभली भवियण विरुध-
 रो । सुखदायीहो नवषट् अधिकारके । विचन
 विनोद जिनेन्द्रनो । मुझहने ^{वयपुर} भव भव आ-
 धारके ॥न०५॥ इति ॥

॥ पुनः ॥२४॥

श्रीगौतम पृच्छाकरे । विनयकरी शीशनमाय प्र-
 भूजी । अविचल स्थानकमें सुण्युं । कृपाकरी
 मोय वताय प्रभुजी । शिपपुर नगर सोहामणूं
 ॥१॥ ए आंकणी । ओठकरम अलगांकरी ।
 सारचां आतम कामहो ॥गौ०॥ छुटा ससारां
 दुखथकी । तेणेरहे वानूं किहां ठामहो ॥प्र०
 ॥२ वीरकहे ऊर्ध्वलोकमां । सिद्धशिला तणूं-
 ठामहो गौतम । स्वर्ग छव्वीशनी ऊपरें । तेहनां
 वारे नामहो ॥गौ०॥शि०३॥ लाख पैतालीश
 जोयना । लांवी यहोली जाणहो ॥गौ०शि०॥
 आठ जोयनजाडी विधें । छेडे मखपख ज्यूं
 जाणहो ॥गौ०शि०४॥ उज्वलहार मोतीतणो ।

गोदुग्धशंख वखाणहो ॥गौ०॥ तेथकी ऊजली
 अतिघणी । उलट छत्र संठाणहो ॥गौ०शि०५॥
 अर्जुन स्वर्णसम दीपती । गठारी मठारी जाण-
 हो ॥गौ०॥ फटक रत्नथकी निर्मली । सुंआ-
 वली अत्यंत वखाणहो ॥गौ०शि०६॥ सिद्धशि-
 ला उधंलीगया । अधर रद्या सिद्धरोजहो
 ॥गौ०॥ आलोकशूं जाई अड्या । सारया आ-
 तम काजहो ॥गौ०शि०७॥ जन्मनहीं मरण
 नहीं । नहिंजरा नहिं रोगहो ॥गौ०॥ वैरीनहीं
 मित्रजनहीं । नहीं संयोग वियोगहो ॥गौ०शि०
 ॥८॥ भूखानहीं तृषानहीं । नही हर्ष नहीं सो-
 गहो ॥गौ०॥ कर्मनहीं कोयानहीं । नहीं विष-
 थारस योगहो ॥गौ०शि०९॥ शब्दरूप रसगंध
 नहीं । नहीं फरसनहीं देहहो ॥गौ०॥ बोले
 नहीं चालेनहीं । मौन पणूंनहीं खेदहो
 ॥गौ०शि०१०॥ गामनगर तिहां कोई नहीं ।
 नहीं वस्ती न उजाड़हो ॥गौ०॥ काल सुकाल

वर्तेनही । रात दिवस तिथिवारहो ॥गौ०शि०॥
 ॥११॥ राजानहीं परजानहीं । नहीं ठाकुरनहीं
 दांसहो ॥गौ०॥ मुक्तिमां गुरुचेला नहीं । नहीं
 लघु वड़ाई तासहो ॥गौ०शि०१२॥ अनंता सु-
 खमां झाली रद्या । अरूपी ज्योति प्रकाशहो
 ॥गौ०॥ सहुकाईमें सुखसरीखां । सघलानें अ
 विचलवासहो ॥गौ०शि०१३॥ अनतसिद्ध मुगते
 गया । वलीअनता जायहो ॥गौ०॥ अवरजग्या
 रूंधेनही । ज्योतिमां ज्योति समांयहो ॥गौ०
 ॥शि०१४ केवल ज्ञान सहितछे । केवल दर्शन
 खासहो ॥गौ०॥ खायक समकित दीपतूं ।
 कटीय न होये उदासहो ॥गौ०शि०१५॥ सिद्ध
 स्वरूप जेओलखे । आणीमन वैगगहो ॥गौ०॥
 शिव सुन्दरि वेगेवरें । नयकहे सुख अथागहो
 ॥गौ०शि०१६॥ इति सिद्धचक्र स्तवन ॥

७१ नवपद स्तुति

श्री अरिहत नमीजें । चतुरनर श्रीअरिहत न-

षीजें । ए आंकणी । चारसगुण सोभित जग
 मोहित । सुर नर नमित कहीजें । अतिशय
 चार प्रथम वली आठे । प्रातिहार जस लही
 जें ॥च०श्री०१॥ चारसहस एकोदश खायिक ।
 उगणी शदैव्य ग्रहीजें । उत्तर अतिशय चोत्री-
 श पैत्रीश । वाणी समीप रहीजें ॥च०श्री०२॥
 तीर्थकर पद भोगी संयोगी । गुण ठाड़े प्रणमी-
 जें । भावस्व रूप रमण अभिलाख्यो । तेहनी
 आण गहीजें ॥च०श्री०३॥ इति ॥

७२ सिद्धपद स्तुति ॥१॥

परमेष्ठी आराधी सुगुणिजन । परमेष्ठी आरा-
 धी । शिव अविचल अरुजानत पदवी । अक्षय
 अव्याबाधी । अपुनभैव सिद्धिगति सुख पूरण ।
 ठाण संपत्ति अवाधी । सुगु०॥पर०१॥ दर्शन
 ज्ञान बीर्य सुख संपंद । अनंत चतुष्ट निरुपा-
 धि । तस भावादि निक्षेप भजन थी । थाये
 स्वरूप समाधी ॥सुगु०॥पर०२॥ इति ॥

॥ पुनः ॥२॥

आचारिज पदसेवा । चहत मन । आचारिज
 पदसेवा । सुरपति सेवित त्रिपदी अभ्यासे ।
 शीशधरे वास खेवो । तीर्थकर देवछटे विरां-
 जित । गणधर देशना देवा ॥च०आ०१॥ अग
 दुवोदश चउदश पूरव । मुहुर्त्त मांहे करेवा ।
 ॥च०॥ उपगारी उवझाय मुनीने अंग उपांप
 धरेवा ॥च०आ०२॥ निजगुण अधिक उपाशक
 चारो । सिद्धि अवीह कहेवा । भाव स्वरूप
 चन्द्र जिम उल्लसे । सिद्धि रमण सुख मेवा
 ॥च०आ०३॥

७३ आत्मगुण स्तवन

आत्म गुण अभिलाख्यो । अनुभवि । आत्म
 गुण अभिलाख्यो । दर्शन ज्ञान चारित्र तनो
 गुण । वीर्य उपयोग दाख्यो पुदगल गंधादिक

थी । अलगो श्रीजिन राजेंभांख्यो अनुभवी०
 आ०१॥ तेहनूं लक्षण मूल चेतनता । पुद्गल
 जण गुण आख्यो । जिनमत शुद्धस्वरूप उल्ला-
 सें । स्वगुण रमण रस चाख्यो ॥अनुभवि०॥
 आ०२॥ इति ॥

७४ स्नात स्नानी स्तुति

स्नातस्या प्रति मस्य मेरु शिखरे । शच्याविभोः
 शैशवे । रूपा लोकन विस्मया हतरस भ्रांत्या
 भ्रमच्चक्षुषा । उन्मृष्टं नयनप्रभा धवलितं क्षी-
 रोदका शंकया । वक्त्रांयस्य पुनः पुनः स जय-
 ति श्रीवर्द्धमानो जिनः ॥१॥ हंसांसा हत पद्म
 रेणु कपि शक्षीरोर्णवांभोभृतैः कुंभैरप्सरसां
 पयोधर भरत्रस्पद्धिभिः कांचनैः । येषांमंदिररत्न
 शैल शिखरे जन्माभिषेकः कृतः । सर्वैःसर्व सु-
 रा सुरेश्वरगणैस्तेषां मतोऽहं क्रमात् ॥२॥ अर्ह-
 द्वक्त्रं प्रसूतं गणधर रचितं द्वादशांगं विशालं ।
 चित्रं बह्वर्थयुक्तं मुनिगण वृषभैर्द्धारितं बुद्धि

मद्भिः । मोक्षाय द्वारभूतं त्रत चरणफलं ज्ञेय-
 भावप्रदीपं । भक्त्या नित्य प्रपद्ये श्रुतमह मखि-
 लं सर्व लोकैकसारम् ॥३॥ निष्पंकव्योमनील
 द्युतिमल सदृशं बोलचद्राभदंष्ट्रं । मत्तंघटारवे-
 ण प्रसृतमदजलं पूरयंतं समतात् । आरूढो
 दिव्यनाग विचरति गगने कामदः कामरूपी ।
 यक्षः सर्वानुभूतिर्दिशतु ममसदा सर्वकार्येषु
 सिद्धिम् ॥४॥ इति ॥

७५ सिद्धचक्रजीकी स्तुति ॥१॥

वीरजिनेश्वर अतिअलवेसर । गौतम गुणना
 दरिआजी । एकदिन ओणा वीरनीलडने । राज
 ग्रही सचरिआजी । श्रेणिक राजा वदनआव्या ।
 उलटमनमा आणीजी । प्रर्षदा ओगल वारवि-
 राजे । हवे सुणो भविप्राणीजी ॥१॥ मानवभव
 तुमे पुण्येपाम्भ्या । श्री सिद्धचक्र आराधीजी ।
 अरिहंत सिद्ध सूरि उवझाया । साधुदेखि गुण
 बाधेजी । दरशणनाग चोरित्रतप कीजे । नवपद

ध्यानधरीजेजी । धुरआसोथी करवां आंविल ।
 सुख संपदा पामीजेजी ॥२॥ श्रेणिकराय
 गौतमने पूछे । स्वामीए तप केणें कीधोजी ।
 नव आंविल तपविधिसूं करतां । वंछित सुख-
 केणे लीधोजी । मधुर ध्वनिवाल्या श्रीगौतम ।
 सांभलो श्रेणिकराव वयणांजी । रोगगयोने
 संपदा पाम्यां । श्री श्री पोलने मयणांजी ॥३॥
 रुमझुम करती पायेनेउर । दीसेदेवी रूपालीजी ।
 नांम चक्केसरीने सिद्धाई । आदि जिनवर
 रखवालीजी । विघन कोड़ हरेसहु संघना ।
 जे सेवे एहना पायजी । भाण विजय कवि सेवक
 ने कहे । सानिध करेजो मायजी ॥४॥ इति ॥

॥ पुनः ॥२॥

श्री सिद्धचक्र सेवो सुविचारें । आणी हियणे
 हरषअपार । जिमलहो सुख श्रीकार । मनशु-
 द्धि ओली तपकीजे । अहोनिशि नवपद ध्यान
 धरीजे । जिनवर पूजारचीजे । पडिक्कमणां

दोय टंकनाकीजे । आठ थुईये देव वदीजे ।
 भूमि संधारोकीजे । सचित्ततणोकीजे परिहार ।
 आगेसीयल धरीजेसार । दीजेदान अपार ॥१॥
 अरिहंतसिद्ध आचार्य नमीजे । वाचक सर्वसाधु
 वदीजे । दसणनाण सुणीजे । चारित्र तपनूं
 ध्यानधरीजे । अहोनिस्सि नवपद गणणूं गणीज ।
 नवआंविलपणकीजे । निश्चलराखी मनहोनिश्चय ।
 जपिये पद एक एकईश । नौकरवालीवीश । छे-
 ल्ले आंविल मोटोतपकीजे । सत्तरभेदी जिन
 पूजारचीजे मानवभव लाहोलीज ॥२॥ सातसें
 कुष्टियाना रोग । नाठायत्रन्हवण संजोग । दूर
 हुआ कर्मनाभोग । अढारे कुष्टदूरेजाय । दु ख
 दोहग दूरपुलाय । मनवंछित सुखथाय । निर
 धनीयानें देवहुधन्न । अपुत्रियाने द्येपुत्र रतन्न
 जे सेवे सुद्धमन्न । नवकारसमो नहींकोईसंत्र ।
 सेवोभवि हरखत ॥३॥ जिमसेव्या मयणां श्री-
 पाल । उमररोगगयो सुखरसाल । पाम्यामगल

माल । श्रीपालतणी परंजे आराधे । अतिशिव
 सुखसाधे विमलेश्वरं यक्षसेवा सारे । आ-
 पदां कष्टने दूर निवारे । दौलत लक्ष्मीवाधे ।
 भेद्य विजयकवियणनाशिष्य । आणीहियडे भाव
 जगदीश । विनयवंदे निशदीश ॥४॥ इति ॥

॥ पुनः ॥३॥

जिनशासन वंछित । पूरणदेव रसाल । भावों
 भवि भणिये । सिद्धचक्र गुणमाल । त्रिहुकाले
 एहनी । पूजाकरे उजमाल । तेअमर अमरपद ।
 सुखपामेसुविशाल ॥१॥ अरिहंतसिद्धवंदो ।
 आचारेज उवझाय । मुनिदरि शणनाण । चरण
 तपए समुदाय । एनवपद समुदित । सिद्धचक्र
 सुखदाय । एध्यानं भविना । भवकोटि दुःख-
 जाय ॥२॥ आसो चैतरमां । सुदिसातमथी
 सार । पूनमलगे कीजे । नवआंविल निरवार ।
 दोयसहस गणेवूं । पदसम सामाचार । एका-
 शी आंविलतप । आगमने अनुसार ॥३॥ सिद्ध-

चक्रनो सेवक । श्रीविमलेश्वरदेव । श्रीपालतणी
 परें । सुखपूरे स्वयमेव । दुःखदोहगनावे । जे
 करे एहनीसेव । श्रीसुमति सुगुरुनो । रामकहे
 नित्यमेव ॥४॥ इति ॥

॥ पुनः ॥४॥

प्रहउठीवदू । सिद्धचक्रसदाय । जपिये नवपद-
 नो । जापसदा सुखदाय । विधिपूर्वक एतप ।
 जोकरे थइ उजमाल । तेसविसुखपामे । जिम
 मयणा श्रीपाल ॥१॥ मालवपतिपुत्री । मयणा
 अतिगुणवंत । तसकर्म संयोगे । कोढीमिलियो
 कंत । गुरुवयणे तेहो । आराध्योतपएह । सुख
 सपदो वरिया । तरियाभवजल तेह ॥२॥ आं-
 विलने उपवास । छट्टवली अट्टम । दसअट्टाइ
 पदरमास । छमास विशेष । इत्यादिक तपवहु ।
 सहुमांहि शिरदार । जेभवियण करशे । तेतरशे
 ससार ॥३॥ तपसोनिध करणे । श्रीविमलेसर
 यक्ष । सहुसघनां संकट । चूरेथई प्रत्यक्ष । पुंढ-

रीक गणधर । कनकविजय बुद्धिशिष्य । बुधदर्शन विजयकहे । पहेचे सकलजगीश ॥४॥

॥ इति ॥

॥ पुनः ॥५॥

अर्हन्मूलं प्रकांडो तनुनिकरधरः सूरिराजश्च
शाखाः । गुल्मःसद्वाच केशोदल तति परिधिः
साधवो मंजरी श्रित् । पुष्पौद्यो दर्शनंचाभि मत
परिमल श्वारु चारित्ररूपं । शस्तं शस्यं तपश्चा
मरतरु विभवः सिद्धचक्रः पुनातु ॥१॥ आताः
सिद्धामुनिन्द्राः प्रवरमुनिवराः साधवो ज्ञानपत्रं
श्वेतां रक्ताश्च पीता बुधसमहरिता कज्जलाभा
जिनेशाः । चंचत्पुष्पाग्रपत्रं छविकनकरजः पर्ण
रोलंबधाराः गीर्वाणा गाड्वेष्टं सकलमतिततं
पावनं संदहंतु ॥२॥ सर्वानांगूहनेत्रा द्विघनपरि-
मिता कर्मनिर्मूल काना-माचार्याणां रसत्रि नव
नव मुनयोः बाचकानां मुनीनां । विंशत्या सप्त
युक्ता मुनिकृति सहिता नेत्रसंख्या चतुर्णां

पष्टिरब्धिः शश्वत्तगगनसरमिता सद्गुणौघा
जयन्ति ॥३॥ देवेन्द्रा अष्टवर्गो ग्रहगणसहिता
गोमुखाद्याः परेऽपि चक्रेश्वर्यादिदेव्यो अपिच
कुशलकरासिद्ध चक्रस्यभक्ता। श्रीश्रीपालादिका
नमिव सुशमभृतां प्राणिनां भक्तिभाजागं स्ववृंथां
ददतुप्रशमसुखफल मुक्तिसौभाग्यबीजम् ॥४॥

॥ इति ॥

॥ पुनः ॥६॥

नितप्रतिहुप्रणमूं । सिद्धचक्रशुभभाव । हिवका-
रजसिद्धिना । लाधोएहउपाय । तुझनामपसा-
यें । आरतिव्याधि पुलाय । डगतुझअनुग्रहथी ।
सुखसंपतिमुझथाय ॥१॥ श्रीअरिहतनमिये ।
सिद्धसूरि उवझाय । मुनिवर त्रिककरणे । दस-
णनाण सुहाय । दुगविधि चारित्ते । बुधविध
तपमनभाय । एनवपदध्यावतां । निरुपम शिव-
सुखथाय ॥२॥ विद्यापरवादे जाणो ए अधिकार ।
श्रीगुरु उपदेशे सिद्धचक्रउद्धार । प्रवचन

अनुसारें भाख्योएह विचार । भविजननितध्या-
 वो । सुरतरुगुण भंडार ॥३॥ जिनधरम अनुरा
 गी । चक्केसरि सुखकार । सेवकनेआपें । सुख
 संपतिपरिवार । हिवनिधि उदयकरि चारित्रनं-
 दीमनभाय । जिनचंदसूरिसर खरतरपति सुप-
 साय ॥४॥ इति ॥

॥ पुनः ॥७॥

समरूं सुखदायक मनसुधवीर जिनंद । जिणनव-
 पदमहिमा भाखी ज्ञानदिणंद । आसुमधुउज्जल
 सातमथी नवदीस । नवआंचिलकरिये मनधरि
 अधिकजगीस ॥१॥ अरिहंतवलि सिद्धआचारज
 उवझोथ । मुनिदरसण तिमवलिनाण चरणतप-
 थाय । प्रतिपदनो गुणनोगुणिये दोयहजार ।
 सहजिननी पूजाकीजे अष्टप्रकार ॥२॥ वारस
 अडवत्तीस पणवीससगवीससोर । सडसठ इक्का-
 वन सित्तर पच्चास प्रकार । इणसंख्या काडसग
 परदक्षा परिमाण । आगमभाषित विधिइमकी-

जे अभिराम ॥३॥ चक्केसरि देवीतिम विमले-
सर यक्ष । श्रीपोलतणीपरपूरेवंछितसुख ।
इणविधिआराधो सिद्धचक्र भविप्राणी । जिन-
हर्षवढ़ेनित श्रीजिनचंदनीवाणी ॥४॥ इति ॥

॥ पुनः ॥८॥

अनुपमगुण आगरसुखसागर वंदितसुरनर ।
वृन्दाजी । नवपदमाहे मुख्यवखाण्या ऋषभादि-
क जिनचंडाजी । भावधरीने जेभविवडे वेदेकर्म
निकंडाजी । नृपश्रीपाल तणीपरध्यात्रो, पावोसु-
खअमंडाजी ॥१॥ अरिहंतसिद्ध सृरिउवझाया
सकलमुनि सुखकारीजी । दसण नाण चरणतप
नवपदधारिचित संसारीजी नवमेंभवभवि सिव-
पदपावे प्रवचनवाणी सोखीजी । वीरजिनदे
ज्ञानानदे गौतमआगेभोखीजी ॥२॥ डाढसआ-
ठछत्तीसे गुणत्रलिपणवीस सारोजी । सडसठ
डक्कावन वलिजैती सित्तरपच्चोस प्रकारजी ।
आसृ चैत्रकमास धवलपय सातमथी नवाढहसें

जी । तेरसहस्र नवपदनो गुणनो नव आंविल
 नव दिवसेंजी ॥३॥ विमलयक्ष चक्रकेसरिदेवी
 रिधसिध वंछित दाताजी । ओलीनवविधि युक्ते
 सेवेते-पामे-सुखशाताजी । खरतरगच्छ जिन-
 आज्ञाकारी पाटोधरपदमुक्ताजी । जिनसौभा-
 ग्यसुरिंद पसायें हंससुरिंद गुणउक्ताजी ॥४॥

॥ इति ॥

॥ पुनः ॥९॥

आदरकरिने अहनिशसेवो । नवपदशिव सुखकं-
 दाजी । प्रथम अरिहंतनमीजे द्वादशगुणनो धा-
 रीजी । सिद्धआठगुणनित समरीजे । काटेकर-
 मनाफंदाजी । सिद्धचक्रगुण अहनिशगावो थाये
 सुख अमंदाजी ॥१॥ तीजेपद आचारजवंदो
 छत्तीस गुणएवरियाजी । चौथेपद पाठकगुणवं-
 ता वांचनादेवे सारीजी । पंचमपदवंदू जयवंता ।
 सुनिवरगुण नादरियाजी । सिद्धचक्रगुण अहनि-
 श गावोथाये सुखअमंदाजी ॥२॥ दर्शनज्ञान

को भ्यावो नितनितथाये अविचल सुःखजी ।
 चारित्रपदवंदो नितप्राणी सुरनरपाय पडंताजी ।
 नवमें तपपद अहनिश सेवोवाह्य अभ्यन्तर भे-
 देंजी । सिद्धचक्र गुणअहनिश गावोथाये सुख
 अमदाजी ॥३॥ चक्रसेरिदेवी सानिधकारी शा
 सनरक्षित एहजी । श्रीखतर गच्छनायक सद्-
 गुरु जिनचारित्र सुरिदाजी । नवपदसेवा करिये
 भावेमाणक कहेसुख पावेजी । सिद्धचक्र गुण
 अहनिश गावोथार्ये सुःखअमंदाजी ॥४॥ इति ॥

॥ पुनः ॥१०॥

सिद्धचक्र नित्यंवदे ॥१॥ जिनवचं सत्यमन्ये
 ॥२॥ द्रव्यभावं महंस्तोष्ये ॥३॥ सिद्धाभ्यान
 सौर्यं भूयात् ॥४॥ इति ॥

॥ पुनः ॥१७॥

निरुपम सुखदायक जगनायक लायक शिवगति
 गामीजी । करुणासागर निजगुण आगर सुभ
 समता रसधामीजी । श्रीसिद्धचक्र शिरोमणि

जिनवरध्यावे जेमनरंगेजी । तेमानव श्रीपालत-
 णी परिपामें सुखसुरसंगेजा ॥१॥ अरिहंतसिद्ध
 आचारज पाठक साधुमहागुणवंताजी । दरस-
 ण नाण चरणतप उत्तम नवपदजग जयवंता-
 जी । एहनोध्यांन धरंता लहिये अविचलपद
 अविनासीजी तेसगला जिननायक नमियें जिन-
 ए नित्तप्रकाशीजी ॥२॥ आसूमास मनोहर
 तिमवलि चैत्रकमास जगीसेंजी । उजवाली सा
 तमथी करिये नव आंविल नवदिवसेजी । तेर
 सहसर्वाल गुणिये गुणणो नवपद केरोसारो
 जी । इणपरि निरमल तप आदरिये आगमसा-
 ख उदारोजी ॥३॥ विमल कमल दललोयणसू-
 न्दर श्री चक्रकेसरि देवीजी । नवपद सेवक भ-
 विजनकेरा विघ्नहरो सुरसेवीजी । श्रीखरतर
 गच्छ नायक सदगुरु श्रीजिनभक्ति मुणिंदा
 जी । तासपसायें इणपरि पभणे श्रीजिनलाभ
 सुरिंदाजी ॥४॥ इति ॥

७६ विंशति स्थानक स्तुति ॥१॥

शिवसुखदाता जगतविख्याता पूरणअभिनवका-
मीजी । ज्ञानादिक गुणचेतनरूपी चिदानन्द घ-
नधामीजी थानकवीसे आगमभणिया वीतराग
गुणभुक्ताजी । जेनरअंतर आतमध्यावे शिवरम-
णीवरयुक्ताजी ॥१॥ अरिहसिद्ध प्रवचनसूरिधि-
वर पाठक मुनिसारोजी । ज्ञानीदरसन विनय
चारित्र ब्रह्मचरज क्रियधारोजी । तपसीगणधर
जिणा चारित्रोनाण श्रुततित्थ भूपोजी । एषद
जिनभविभावे संवे तेहिजब्रह्म सरूपोजी ॥२॥
दोयसहस गुणनोप्रत्येके च्यारसया उपवासो-
जी । द्रव्यभावसे विधिप्रकोसे तीर्थकरपदखासो-
जी । तीजेभववरवीस थानकनी सेवकरेभविप्रा-
णीजी । समकितवीजे जेनिजआतमआरोपे चित
आणीजी ॥३॥ सुरतरु समतपफललहे मोटेश्री
सुरदेवीसहाईजी । खरतरगच्छ जिनआजाधारी
पाटोधरवर टाईजी । जिनसौभाग्य सूरिदपसा

ये हंससूरिंद गुणगावेजी । संघसकलको सानिध
धकारी मनवांछित फलपावेजी ॥४॥ इति ॥

॥ पुनः ॥२॥

अरिहंतसिद्ध पवयण आंचारज थिवराण । उव-
झाय साहूनाणदंसण विनयपहाण । चारित्तव-
ह्मकिरिया तपगोयम जिनभाण । संयमनाणी
श्रुतसंघसेवो वीसेठाण ॥१॥ उत्कृष्टे जिनवर
एकसो सित्तरधीर । वलिकाल जघन्ये जिनवर
वीसगंभीर । जिनवरथाय अनंतअतीत अनागत
काल एवीसेथानक आराधीगुणमाल ॥२॥ आ-
वश्यक बै वेलाजिनवांदन त्रिणकाल । थानकपद
गणवो सहसदोय सुकमाल । काउसग गुणस्त-
वना पूजा प्रभावनो सारे । इमसाहमी वच्छल
करतां भवनोपार ॥३॥ समरीजे अहनिश गुण
रागी सुरथाय । जक्खजक्खणी सुरपति वेयाव-
च्च करनाथ । थानकतपविधि सूजे सेवोमनरंग ।
देवचन्द्रआणोये सानिधकरे तसुचंग ॥४॥ इति ॥

७७ शान्तिजिन स्तुति

शांतिजिनेसर जगअलेसर अचिरा उदर अवत-
रियाजी । विश्वसेननृपनंदन जगगुरु हथणापुरेसुख
करियाजी । ईतउपद्रव मारिविकारी शांति
करी सचरियाजी । जेभविमंगल कारणध्यावे
तेहुए गुण-गणदरियाजी । ॥१॥ वर्त्तमानजिन
सब सुखकारण अतीतअनागतर्वदोजी । वारे
चक्रीनवनारायण नवप्रतिचक्रिआनदोजी । रा-
मादिकजे पुरुषसलाका वंदतपाप निकंदोजी ।
द्रव्यनिक्षेपे जिनसमजाणो काटेभवभय फदो-
जी ॥२॥ अगउपागे जिनवर प्रतिमा श्रीजिनस-
रखी भाखीजी । द्रव्यभाव विहुभेडे पूजामहा
निशीथे साखीजी । विषयनिवत्ती सतआरंभे वि-
नयतपीते जाणोजी । शुभयोगे नहि आरभका-
री भगवडअंग प्रमाणोजी ॥३॥ थापनासत्येदेवी
निर्वाणी श्रीसधने सुखकारीजी । कारणथीसब
कारज सीझेजिनवर आज्ञाधारीजी । श्रीजिन

कीर्त्ति सूरेश्वर गच्छवर पाठक श्रीऋद्धिसारी
जी । समकित धारी देवसहाई सुखसंपत दा-
तारीजी ॥४॥ इति ॥

७८ पंचमीकी स्तुति

पंचअनंत महंत गुणाकर पंचमगांतेदातार । उ-
त्तम पंचम तपविधि वायक ज्ञायक भवअपारं ।
श्रीपंचानन लांछन लंछित वंछितदान सुदक्ष ।
श्रीवर्द्धमान जिनेन्द्र वंदोध्यावो भविजनपक्ष ॥१॥
पूरण पंचमहाश्रव रोधक बोधक भव्यउदार ।
पंचअणुव्रत पंचमहाव्रत विधिविस्तारकसार ।
जे पंचेंद्रिय दमशिव पहुताते सगलाजिनराय ।
पांचम तपधर भवियण ऊपर सुथिरकरी सुपसा
य ॥२॥ पंचोच्चार धुरंधर जुगवर पंचमगणधर
ज्ञाण । पंचज्ञान विचार विराजित भाजत भज-
पंचवाण । पंचमकोल तिमिरभव मांहे दीपक
सम सोभंत । पंचमतप फलमूल प्रकाशक ध्या-
वोजिन सिद्धंत ॥३॥ पंचपरम पुरुषोत्तम से-

वाकारक जेनरनार निरमल पांचम तपना
 धारक तेह भणी सुविचार । श्री सिद्धायिका
 देवी अह निशि आपो सुख अमंद । श्री जिन
 लाभ सुरिंद पसाये कहे जिन चद मुणिंद
 ॥४॥ इति ॥

॥ पुनः ॥२॥

प चम दिन अराधिये ए ज्ञान कद्या प्रभु पांच
 तो । मति श्रुति अवधि जाणिये ए चौथो मन
 पर्यव ध्यान तो । केवल ज्ञान कद्यो पांचमों ए
 भाखे श्री जिनराज तो ॥ ज्ञान तणी संख्या
 कहिये । सर्व एकावन जाण तो ॥१॥ पंच
 प्रमाद दूर करिये । श्रावकको वलि एहि तो ।
 पंचाचारको पालिये ए । क्रिया पांच निवार
 तो ॥ पंच महाव्रत साधुना ए श्रावकने अणु
 व्रत तो । पंच प्रकारे आगम भणिये ए सरस
 सुधारस पान तो ॥२॥ पंच समितिपालियेए
 चारित्र ग्रहिये पांच तो । पंच इन्द्रियको वस

करो ए । पंचमि गति लेवाय तो । पंच भोग
 तस भेदिये ए । सेवे सुर नर ईश तो । पंचमि
 तप करतां लहिये अविचल सुख आवास तो ॥३॥
 सानिधकारी ज्ञाननी ए श्रुत देवी सुखकार तो ।
 पंच वरण जिनवर नमुंए । वर्त्तमान चौवीस
 तो । श्री खरं तर (गच्छ) नायक गुण निलोए ।
 जिन चारित्र सुरि राय तो ॥ पद्म प्रमोद तणों
 कहेए । करे माणक अरदास तो ॥४॥इति॥

७९ अष्टमीकी स्तुति

श्रावण सुदि दिन अष्टमि ए । पार्श्वनाथ निर्वाण
 तो ॥ नीलवरण तनु शोभता ए । अहि लंछन
 प्रभुधार तो ॥ शत वरस प्रभु आउखो ए ।
 उपकारी भगवंत तो ॥ अष्ट करम दूरे करिये ।
 मुक्ति गया प्रभु आप तो ॥१॥ आठ प्राति
 हारज शोभता ए । समवसरण मझार तो ॥
 आठ प्रकारे आगम भाखिये ए । भवि मन
 संशय भाज तो । आठ प्रवचन पालो सदा ए ।

अविचल पामो सुख तो ॥ आठम आठ तपस्या
 करो ए । थाये लीला लहेर तो ॥२॥ आठ
 स्वरूप विचारिये ए । मद आठें जशवार तो ।
 आठम आठ प्रकारसे ए । जीव दया नित पाल
 तो ॥ आठ प्रकारे कलसा भरिये । न्हवरावो
 जिन राज तो ॥३॥ शासन देवी पद्मावति ए ।
 पूरे मननी आस तो ॥ सघना सकट पूरती
 ए । अष्ट सिद्धि आपेय तो । खर तर गच्छ
 नायक गुण निलो ए । जिन चारित्र सुरीस्वर
 राय तो ॥ माणक चंद पाय सेवतां ए । पूरे
 मनह जगीश तो ॥४॥ इति ॥

॥ पुनः ॥२॥

चउवीसे जिनवर प्रण मूहू नित मेव । आठम
 दिन करिये चंदा प्रभुनी सेव ॥ मूरति मन
 मोहे जाणें पूनम चंद । दीठां दुख जाये पामें
 परमा नद ॥१॥ मिल चौसठ इन्द्र पूजे प्रभु-
 जीना पाय । इन्द्राणी अप्सरा कर जोड़ी गुण

गाय ॥ नंदी श्वर द्वीपे मिल सुर वरनी कोड़ ।
 अट्टाई महोत्सव करतां होड़ा होड़ ॥२॥
 सेत्रुंजा शिखरें जाणी लाभ अपार । चौमासे
 रहिया गण धर सुनि परि वार ॥ भवियणने
 तारे देड़ धरम उपदेश । दूधसा करथीपिण
 वाणी अधिक विशेष ॥३॥ पोसो पडिक मणो
 करिये व्रत पंचखाण । आठम तप करता आठ
 करमनी हाण ॥ आठ मंगल धार्ये दिन २
 कोडि कल्याण । जिन सुख सूरि कहे इम
 जीवित जनम प्रमाण ॥४॥ इति ॥

८० एकादशीकी स्तुति

एकादशी आराधिये ए । पढ़ो अगियारे अंग
 तो । जन्म दीक्षा केवल लह्या ए । प्रभु
 श्री मल्लीनाथ तो ॥ अरनाथ दीक्षा ग्रहिये
 नमिये केवल ज्ञान तो ॥ एकादशी नित बंदिय
 ए । शत पंचास कल्याण तो ॥१॥ एकादश
 गणधर बंदिय ए । पामें सुख विलास तो ॥

एकादशी पड़िमां वहो ए । श्रावक निर्मल ध्यान
तो ॥ एकादशी नित वंदियए । शत पचास
कल्याण तो ॥२॥ एकादशी उजमणो ए करिये
विधि विस्तार तो ॥ पाटी पोथी ठवर्णो ए
कवली ए अगियार तो पूजणी पूठा पूठिया ए ।
नवकर वाली अगियार तो । एकादशी नित
वदियए शत पंचास कल्याण तो ॥३॥ इत्यादि
ऊजमणों करो ए शासन देवि सहोय तो ।
जगम युग गुरु गुण निलो ए जिन चारित्र सूरि-
राय तो ॥ पद्म प्रमोद तर्णों कहे ए माणक ए
शुभ जाण तो । एकादशी नित वदिय ए शत
पंचास कल्याण तो ॥४॥ इति ॥

॥ पुनः ॥ २ ॥

अरनाथ जिनेश्वर दीक्षा नमि जिन ज्ञान । श्री
महि जनम व्रत केवल ज्ञान प्रधान । इग्यारस
मिगसिर सुदि उत्तम उरधार । ए पंच कल्या-
णक समरीजे जयकार ॥१॥ इग्यारे अनुपम

एक अधिक गुण धार । इग्यारेवारेप्रतिमा
 देसक धार । इग्यारे दुगुण दोय अधिक जिन
 राय । मन सूधे सेव्यां सत्र संकट मिट जाय
 ॥२॥ जिहां वरस इग्यारे कीजे व्रत उपवास ।
 बलि गुणनो गुणिये विधि सेती सुविलास ।
 जिन आगम वाणी जाणी जगत प्रधान । इक
 चित्त आराधो साधो सिद्ध विधान ॥३॥ सुर
 असुर भुवण वण सम्यग् दरसनवंत । जिन चंद्र
 सुसेवक वेया वच्च करंत । श्री संघ सकलमें
 आराधक बहु जाण । जिन शासन देवी देव
 करो कल्याण ॥४॥ इति ॥

८१ चतुर्दशीकी स्तुति

चौदह सुपन सूचित हरि पूजित सिंह सेन कुल
 चंदाजी । चौद रथण पति नरपति वंदित सुयसा
 राणी नंदाजी ॥ हय लंछन प्रभु चरण विराजे ।
 सोहे अनंत जिणंदाजी ॥ पाखी पर्व कह्यूं जिन
 राजे । आरोधो सुखकंदाजी ॥१॥ चौदह भेद

जीवका जाणों पामों अविचल ठामजी ।
 चौद नियमको नित्त चितारो श्रावक एह आ-
 चारोजी ॥ चौद पूरवको ज्ञानज लहिये जाणो
 जीवा जीवजी । पाखी पर्व कहु जिन राजे ।
 आराधो सुखकदाजी ॥२॥ चादस दस जिनवर
 को वदी पायें सुख अमदाजी । चउद सहस
 मुनि नित नित वदो, काटो कर्मना फंदाजी ॥
 चौदह राजसे ऊपर पहुँचा जिनराजे आराधो
 सुखकंदाजी ॥३॥ अंकुशा देवी जन सुखकरणी
 शासनकी रखवालीजी । श्री खतर-गच्छ नायक
 लायक जिन चारित्र सुराजेजी ॥ पद्म प्रमोद
 तर्णे कहे माणक सुख सवायाजी । पाखी पर्व
 कह्यू जिन राजे । आराधो सुख कंदाजी ॥४॥

॥ इति ॥

॥ पुनः ॥ २ ॥

अविरल कमल गवल मुक्ता फल कुवलय कनक
 भासुर । परिमल बहुल कमल दल कोमल पद

तल लुलित नरेश्वरं ॥ त्रिभुवन भुवन सुदीप
 प्रदीपक मणिक लोका विमल केवलं । नव नव
 युगल जलधि परमित जिनवर निकरं नमाम्यहं
 ॥१॥ व्यंतर नगर रुचक वैमानिक कुल गिरि
 कुंडल कुंडले । तारक मेरु जलधि नंदी सर
 गिरि गज दंत सुमंडले ॥ वक्षस्कार भवन वन
 जोतिष कुरुवे ताढ्य कुंजिण । त्रिजगति जयति
 विदित शाश्वत जिननतित तिरि हमो पाण ॥२॥
 श्रुत रत्नेक जलधि मधु मधु मधुरिम रस भर
 गुरु सरोवरं । परमततिमिरकिरणहरणेद्दूरे
 दिन कर किरण सहोदरं ॥ नैगम नय हेतु
 धंग गंभीरिमगणधर देव गीष्पदं । जिन वर
 वचन मवनि मवतात् सुचि दिशतु नतेषु संपदं
 ॥३॥ श्री मद्दीर चरम तीर्था धिप मुख कम-
 लाधि वासिनी । पावण चंद्र विशद वद नोज्जल
 राज मशाल गामिनी ॥ प्रदिशतु सकल देव
 देवी गण परिकलिता सता मियं विंच कलं

धवल कुवलयकल मूर्त्तिःश्रुतदेवीश्रुतो
च्ययं ॥४॥ इति ॥

॥ पुनः ॥ ३ ॥

द्रेंद्रेंकि धप मप धुधुमि धों धों ध्रसकि धर धप
धौरवं । दोदों कि दोदों दागिड़दि दागिडदिकि
द्रमकि द्रण रण द्रेंणव । झझि झेंकि झें झें
झणण रण रण निजकि निज जन रंजनं सुर
सयल सिखरे भवति सुखदं पार्श्वजिनपति
मज्जन ॥१॥ कट रेंगिनि थोंगिनि किटति गिग-
डदां धुधुकि धुट नट पाटवं गुण गुणण गुण
गण रणकि णों णों गुणण गुण गण गौरवं ।
झझि झेंकि झें झें झणण रण रण निज निज
जन सज्जना । कलयति कमला कलित कलमल
सुकल मीस महे जिनाः॥२॥ ठकि ठेंकि ठें ठें
ठहिं ठहिंक ठहिं पट्टा ताडयते । तल लोंकि
लों लों त्रैखि त्रैखिनि डेखित्रैखिनि वाचते ।
ओं ओं कि ओं ओं थुगि थुंगिनि धुंगि धुंगिनि

कलरवे । जिन मत मनंतं महिम तनुता नमति
 सुर नर सुच्छवे ॥३॥ खुंदांकि खुंदां खुखुड़दि
 खुंदां खुखुड़दि दों दों अंवरे । चाचपट चचपंट
 रणकि णें णें डणण डें डें डंवरे । तिहां सरग
 मप धुनि निधप मग रस सस ससस सुर सेवता ।
 जिन नाव्य रंगें कुशल मुनिसं दिसतु शासन
 देवता ॥४॥ इति ॥

८२ कार्तिक कृष्ण अमावस्याकी स्तुति ॥

सिद्धारथ ताता जगत विख्याता त्रिसला देवी
 माय तिहां जग गुरु जनम्पा सब दुख विरम्यो
 महावीर जिन राय प्रभु लेईदीक्षा करहित
 शिक्षा देइ संवत्सरी दान । बहु करम खपेवा
 शिव सुख लेवा कीधो तप शुभ ध्यान ॥१॥
 वर केवल पामी अंतरजामी वदिकाती शुभदीस
 अमावस जातें पिछली रातें मुगतिगया जग-
 दीस । वलि गौतम गणधर मोटा मुनिवर
 पाम्या पंचमज्ञान । थयातत्व प्रकासी शील-

विलासी प्रहृता मुगति निदान ॥२॥ सुरपति
 संचरिया रतन उधरिया रातथई तिहांकाली ।
 जन दीवा कीधा कारजसीधा निसाथई उज-
 वाली । सहलोकें हरखी निजरे निरखीपरव
 कियो दीवाली । वलि भोजन भगतें निज
 'निज सगतें जीमें सेवसुहाली ॥३॥ सिद्धायिका-
 देवीविघनहरेवीवंचितदेनिरधारी । करेसघनेसा-
 ताजिमजगमाताएहवीशक्ति अपारी । जिण गुण
 इम गावे शिव सुख पावे सुणज्यो भविजन
 प्राणी । जिन षंद जतीसर महामुनीसर जंपे
 एहवीं वाणी ॥ इति ॥

॥ पुनः ॥ २ ॥

पापाया पुरि चारु पण्ठतपसा पर्यङ्क पर्यासनः ।
 क्षमापाल प्रभुहस्त पाल विपुल श्री शुक्ल शाला-
 मनु ॥ गोसे कार्तिक दर्शनाग करणे तूर्यारकान्ते
 शुभे स्वातौयः शिवमाप पापरहितं संस्तौमि वीर

सुखकर हितकर जान । जो भवि जन सेवे पावे
केवल ज्ञान ॥१॥ तीर्थङ्कर शंकर सकल विश्व
आधार । अगणित गुण वरिया आत्म दान
उदार ॥ शिव पद जग उत्तम आनंद अनुभव
सार । पद पंकज सेवा सुख संपति दातार ॥२॥
श्रुत ज्ञान जगतमें करता बहु उपकार । शिर
ताज वखाण्या अनुयोगद्वार मझार ॥ अमृत
रस पीवो जिन आगम सुख कंद । जो नित
प्रति ध्यावे पावे परमा नंद ॥३॥ जिन आणा
मीठी प्रेमधरी चितलाय । निज गुरु प्रासादे
दुख दुर्गति मिट जाय ॥ आनंद मन रंगे भव-
सागर तिर जाय । श्रुत देवी सानिध निज
करणी हुलसाय ॥४॥ इति ॥

॥ पुनः ॥२॥

मूरति मन मोहन कंचन कोमलकाय । सिद्धा-
रथ नंदन त्रिसला देवि सुमाय ॥ मृग नायक
लंछन सात हाथ तनु मान । दिन दिन सुख-

दायक स्वामी श्री वर्धमान ॥१॥ सुर नर वर
 किन्नर वदित पद अरिविद । कामित भर पूरण
 अभिनव सुर तरु कद ॥ भवियण नें तारें प्रव-
 हण सम निशि दीस । चौबीसे जिनवर प्रणमू
 विसवा वीस ॥२॥ अर्थे करि आगम भाख्या
 श्री भगवंत । गणधर ते गूथ्या गुण निधि
 ग्यान अनत ॥ सुर गुरु पिण महिमा कहि न
 सके एकत । समरुं सुखदायक मन सुध सूत्र
 सिद्धन्त ॥३॥ सिद्धायिका देवी वार विघन
 विशेष । सहु सकट घूर पूरे आस असेष ॥ अह
 निस कर जोड़ी सेवे सुर नर इंद । जपई गुण
 गण इम श्री जिन लाभ सुरिद ॥ ४ ॥

॥ इति ॥

इसके बाद सामायिक पारनेकी समग्र
 विधि: करे ।

८५ सामाजिक पारनेकी विधि

सामायिक पारनेके पहले इरियावहि तसउत्तरी

करणेणंअन्नत्थउससिएणं अप्पाणंवोसरामि-
 कहकर १ लोगस्स अथवा ४ नवकारका
 ध्यान करे फिर प्रगट लोगस्म कहे इसके
 वाद सामायिक पारनेकी सुहुंपत्ति पढे
 मुहुंपत्ति पढनेके बाद इच्छामि खमास मणोकी
 पट्टी मत्थेण वंदामि पर्यन्त कहकर इच्छाकारेण
 संदिस्सह भगवन् सामायिक पारुं गुरू होय तो
 गुरू कहे पुणो विकाय व्वो । इसके बाद श्रावक
 कहे यथाशक्ति फिर दुवारा इच्छामि खमास-
 मणोकी पट्टी मत्थेण वंदामि पर्यन्त समग्र कह-
 कर इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन् सामायिक
 पारेमि तब गुरू कहे आयारो नमो तब्बो इसके
 बाद श्रावक तहत्ति कहकर १ णमुक्कारगुणे
 इसके बाद श्रावक इच्छामि खमासमणोकी
 पट्टी समग्र कहकर इच्छाकारेण संदिस्सह भग-
 वन् सामायिक पारवा भावना गाथा भणूं

॥ सामायिकसूत्र ॥

गुरु कहे भणेह सामायिकवयजुत्तो, जावमणे होड नियम संजुत्तो, छिन्नहअसुहंकम्मं, सामाडअजत्ति आगारा ॥१॥ सामाडअंमिउकए, समणोइव सावओ हवई जम्हा एएण कारणेणं, बहुसो सामाडयं कुज्जा ॥२॥ सामायिक विधि पूर्वक ली विधिपूर्वक पूर्ण की । यदिअग्यानता तथा प्रमादवश विधिपूर्वक लेने पारनेमें कोई अविधि आशातना हुई हो तथा दश मनके दश वचनके वारह कायाके इन बत्तीस दूषणोंमेंसे जो कोई दूषण लगा हो सो सर्व मन वचन काया ये करि मिच्छामि दुक्कडं ॥ इति ॥

॥नोट॥ सामायिक पारनेके समय आसनको उठा देना उपयुक्त है कारण गुरुयास्थापना-चार्यजीसे मुह पत्ति पढ़नेकी सामायिक पारनेकी आग्या विनीत भावसे ही मांगना ठीक है इसके बाद सामायिक पारनेके समय दोनरा

घुटने जमीनपर टेककर दहिना हाथ अपनी पूंजनीपर रख बायां हाथमें मुंह पत्ति ले मुंह पर लगा सामायिक पारनेकी उपरोक्त गाथा पढ़े । इसके अनन्तर देव वंदन करे ।

८६ श्री मन्दिरजीमें देव वन्दन करने की विधिः ।

भगवान्की प्रतिमाजीके सन्मुखसबसे प्रथमजिस दिन जिस वस्तुका आंबिल करना हो उसीका साथिया या गौंहुली करे उसके बाद उत्तरासन करके उत्तरासनके एक पल्लेसे पृथ्वीकी पड़ि लेह न कर तीन वार प्रतिमाजीको इच्छामि खमासमणोकी पट्टी मत्थेण वंदामि पर्यन्त पढ़कर वंदन करे इसके बाद इच्छा कारणे संदिस्सह भगवन् इरिया वहियं पडिक्क मामि पढ़नेकी प्रार्थना करे फिर इच्छं कहकर पडिक्कमि ऊं कहकर समस्त इरिया वही तस्सुत्तरी अनत्थउ ससिएणंकी पट्टी अप्पाणं वोसरामि पर्यन्त

कहकर १ लोगस अथवा ४ णमुकारका काउसग अर्थात् खड़ा होकर ध्यान करे का उसग समाप्त होनेके बाद णमो अरिहं ताणं ऐसा पद उच्चारण करनेके बाद प्रगट लोग-स्त कहे इसके अनन्तर तीन बार प्रतिमाजीके सन्मुख पृथ्वी प्रमार्जन कर इच्छामि खमास-मणोंका पाठ मत्थेण वंढामितक कहकर इच्छा करेण सद्विस्तह भगवन् वैत्य वंदन करूं ऐसा कहकर चैत्य वंदन करे ।

॥ श्री महावीर प्रभु का चैत्य वंदन ॥

चन्द्रू जगदाधार सार । शिव संपति कारण ॥
जन्म जरा मरणादिरूप । भव ताप निवारण ॥
श्री सिद्धारथ तात मात । त्रिशला तनु जात ॥
सोत्रन वरण शरीर वीर । त्रिभुवन विख्यात ॥
अमृत रूपे राजतो ए । चौबीसमो जिन राय ॥
क्षमा प्रमुख कल्याण मुनि । आपो करि सुप-
साय ॥१॥ इति ॥

॥ श्री पार्ष्वनाथजी का चैत्य वंदन ॥

पुरुसा दाणी पांस नाह । नमिये मन रंग ॥
 नील वरण अश्वसेन नंद । निरमल निःशंग ॥
 कामित पूरण कल्य साख । वामा सुत सार ॥
 श्री गौड़ीपुर स्वामि नाथ । जपिये निरधार ॥
 त्रिभुवन पति त्रेवीशमो ए । अमृत सम जसु
 वाण ॥ ध्यान धरंतां एहनूं प्रगटे परम
 कल्याण ॥२॥ इति ॥

॥ श्री नेमनाथजी का चैत्य वंदन ॥

प्रह सम प्रणमूं नेमि नाथ । जिन वर जय
 वंत ॥ यादव कुल अवतंस हंस । उत्तम गुण
 वंत ॥१॥ समुद्र विजय शिवो देवी जोस । मति
 सहित उदार ॥ सुन्दर श्याम शरीर ज्योति ।
 सोहे सुखकोर ॥ गढ़ गिरि नारें जिन लह्यूं ए ।
 अमृत पद अभिराम ॥ तास क्षमा कल्याण
 मुनि । निशि दिन नमत कल्याण ॥३॥ इति ॥

॥ श्री शांतिनाथजीका चैत्य वंदन ॥

सोलम जिनवर शांति नाथ सेवे सिर नामी ॥
 कंचन वरण शरीर कांति अतिशय अभिरामी ॥
 अचिरा अगज विश्वसेन । नरपति कुलघद ॥
 मृग लंछन धर पद कमल । सेवे सुर नर वृन्द ॥
 जगमां अमृतजेहवीए । जास अखंडित
 आण ॥ एक मने आराधतां । लहिये कोड़ि
 कल्याण ॥४॥ इति ॥

॥ श्री आदिनाथजीका चैत्य वंदन ॥

सुवर्ण वर्ण गज राज गामिनं । प्रलम्ब वाहु सु-
 विशाल लोचनम् ॥ नरा मरेद्रैः स्तुत पाद
 पंकजं नमामि भक्त्या ऋषभ जिनोत्तमम् ॥३॥
 चैत्य वन्दनके वाद जकिचिनामतित्य सग्गे
 पायालेकी समग्र पट्टी पढ़े फिर नमुत्थुणं अरि
 हताणं शक्रस्तव सघेतिविहेण वंदामि पर्यन्त
 पढ़कर नमोर्ह द्रसिद्धा चार्योपाध्याय सर्व

साधुभ्यः तक पढ़नेके इस पुस्तकमें भी नव पदके चैत्यवंदन पहले लिखे हैं उनमेंसे पढ़े । वादमें जयवीराय जगगुरूकापाठ समग्र पढ़े आश्विन खंडातक उसके वाद तीन बार इच्छा-मिखसासमणोका पाठ मत्थेणवंदामि पर्यन्त कह कर इच्छा कारण संदिस्सह भगवन् चैत्य वंदन करूं इसके वाद चैत्य वंदन पहले लिखे सुताविक करे । इसके वाद जंकिंचि नामतित्थं सग्गे पायाले ताईं सब्वाईं वंदामि पर्यन्त पढ़ कर नमुत्थुणं अरिहंताणं सव्वेतिविहेण वंदामि पर्यन्त कह कर अरिहंत चेइ आणं करेमिका उसगं कह कर वंदण वत्तिआए अनत्थउ ससि ए णं अप्पाणं वोसरामि पर्यन्त कह कर एक नव कारका काउसग्ग करे अर्थात् १ नवकार गुण कर थूई निम्न लिखित पढ़े नमोहर्द-

सिद्धा चार्योपाध्याय सर्व साधुन्यः ।

॥ नवपद थुई ॥

अरिहंतनमो नमो बलि सिद्ध नमो आ-
चार्य वाचक साहुनमो दंसण नाण धरित्तनमो
नमो तपससिद्धचक्रसटाप्रणमो ॥१॥ इसके
बाद लोगस्त उज्जोयगरेका पाठ सिद्धा सिद्धिं
ममदिसन्तु तक पढ़ कर सब्ब लोए अरिहंत
चेइ आणं करेमिकाउसगं वंदण वत्ति आए
अन्तत्थउससिएणं अप्पाणं वोसरामि पर्यन्त
कह कर १ नवकारका ध्यान अर्थात् काउसग
करके पोरनेके बाद निम्न लिखित दूसरी थुई
कहे ।

॥ पुनः ॥

अरिहंत अनन्तथया थाशे बलि भावनि
क्षेपे गुण गाशे, पड़िक्रमणा देव वन्दन विधिसूं,
आंविलतप गुण नो गुणो विधिसूं ॥२॥ इसके

बाद पुक्खर वरदीवद्धे सुअस भगवओ करेमि
 काउसग्गं वंदन वत्ति आए अनत्थउ ससिएणं
 अप्पाणं वोसरामि पर्यन्त कह कर १ नवकार
 का ध्यान अर्थात् काउसग्ग करे इसके बाद
 नमो अरिहंताणं कह कर निम्नलिखित तीसरी
 थुईं कहे ।

॥ पुनः ॥

छहरी पाली जे तपकरसे श्री पालतणी
 परे भव तरसे सिद्ध चक्र न कुण आवे तो ले
 एहवाजिनआगमबोले ॥ ३ ॥ इसके बाद
 सिद्धाणं बुद्धाणंकी पट्टी सिद्धासिद्धिं ममदिसंतु
 की समग्र पट्टी पढ़ कर वेयावच्चगराणं करे
 मिकाउसग्गं तक पढ़ कर अनत्थउ ससिएणं
 अप्पाणं वोसरामि पर्यन्त कह कर १ नवकार
 का काउसग्ग अर्थात् ध्यान करे ध्यान पारने
 के बाद नमो अरिहंताणं कह कर नमोहंद्
 सिद्धा चापौपाध्याय सर्व साधुभ्यः कह कर

निम्न लिखित ४ थी थुई पढ़े ।

॥ पुनः ॥

साढ़ा चारें वर्ष तप पूरो ए कर्म विडारण
तप सूरु सिद्ध चक्र ने मन मन्दिर आपो नय
विमलेश्वर वर आपो ॥४॥ ॥ इति ॥

इन चारो थूइयोके वाद फिर बैठ कर
केवल शक्रस्तव नमोत्थुणं सव्वे तिविहेण
वंदामि पर्यन्त कह कर अरिहंत घेइ आणं
करेमिका उसग खड़े होकर पढ़ना ।

वंदण वत्ति आए अन्नत्थउससिएण
अप्पाणं वोसरामि पर्यन्त कह कर १-नवकार
का काउसग अर्थात् ध्यान करके नमोर्हद्द
सिद्धा चारोपाध्याय सर्वा साधुभ्यं कह कर
निम्नलिखित थूई पढ़े ।

॥ नवपद थूई ॥ १ ॥

वीरजिनेश्वर भुवन दिनेश्वर जगदीश्वर

जयकारीजी श्रेणिक नरपति आगल जंपे सिद्ध
 चक्र तपसारीजी ॥ समकित दृष्टी त्रिकरण
 शुद्धिः जे भवियण आराधी जी । श्री श्री
 पाल नरिंद परेतस मंगल कमला वाधेजी ॥१॥
 इसके बाद लोगस अरिहंत चेइआणं वंदण
 वत्ति आए अनत्थउ ससिएणं अप्पाणं वोसरामि
 पर्यन्त कह कर १ नवकारका ध्यान अर्थात्
 काउसग करके निम्नलिखित थूई पढ़े ।

॥ पुनः ॥ २ ॥

अरिहंत बीच सिद्ध सूरि पाठक साधु चहुं
 दिसि शोहे जी । दंसणनाणचरणतप विधिसे
 ए नवपद मनमोहे जी ॥ आठ पांखड़ी
 हृदयाम्बुज रोपी लोपी रागनरीसें जी । ओं
 हींपद एकनी गुणिये नवकर वाली बीसें
 जी ॥२॥ इसके बाद पुक्खर वरदी वहुं
 सुअस्स भगवओ करेभि काउसगं वंदण वत्ति
 आए अनत्थउ ससिएणं अप्पाणं वोसरामि,

तक कह कर १ नवकारका ध्यान अर्थात् का-
उसग करके नमो अरिंह ताण कह कर निम्न
लिखित थूई पढ़े ।

॥ पुनः ॥ ३ ॥

आसो- चैत्र सुदिसातमथीमांडी शुभ
मडाणी जी । नवनिधिदायक नव नव, आंबिल
एम इक्यासी प्रमाणें जी ॥ देव वंदन पड़ि
क्रमणो पूजा स्नात्र महोत्सव घर्गे जी । ए
विधि सगली जिहा उपदेशो प्रणमू अग उपांगे
जी ॥३॥ इसके बाद सिद्धाण बुद्धाणं समग्र
वेयावच्च गराणं अनत्यउ ससि एण समग्र कह
कर १ नवकारका- ध्यान काउसग करके
निम्नलिखित चौथी थूई पढ़े ।

॥ पुनः ॥

तपपूरे उज्जमणे कीजे लीजे नर भव लाहो
जी । जिन गृह पढ़िमा साहमीवत्सल साधु

भक्त उत्साहें जी ॥ विमलेश्वर चक्रेशरिदेवी
 सानिधि केरी राजे जी । श्रीगुरु क्षमा विजय
 सुपसार्यें सुनि जिन महिमा गावें जी ॥ ४ ॥
 ॥ इति ॥

इसके बाद नमोत्थुणं जावन्ति घेइ याईं जावन्ति
 केवि साहू आदि समग्र पढ़ कर उवसग्ग हरं
 पासंका स्तोत्र पढ़े या स्तवन आता हो तो
 स्तवन पढे ।

॥ श्री नव पद स्तवन लावणी ॥

जगतमें नव पद जय कारी । पूजतां रोग टले
 भारी (ए आंकणी) प्रथम पद तीर्थ पति राजे ।
 दोष अष्टादश कुं त्याजे । आठ प्राति हारज
 छांजे । जगत प्रभु गुण वारें छांजे ॥ दोहा ॥
 अष्ट करम दल जीतके । सकल सिद्ध ते
 थाय । सिद्ध अनन्त भजो बीजे पद । एक समय
 शिव जाय । प्रगट भयो निज स्वरूप भारी ॥
 ज० ॥१॥ सूरि पदमें गौतम केशी । ओपमा

चन्द्र सूरज जैसी । उवार्यो राजा परदेशी ।
 एक भव मांहे शिव लेसी ॥ दोहा—चोथे पद
 पाठक नमूं । श्रुतधारी उवझाय । सव्व सांहु
 पंचम पदें । धन धन्नो मुनिराय । वखाण्यो
 वीर प्रभू भारी ॥ ज० ॥२॥ द्रव्य खटकी श्रद्धा
 जावे । सम सम्वेगादिक पावे । विना ए ज्ञान नहीं
 किरिया । जैन दरशनसे सब तरिया ॥ दोहा—
 ज्ञान पदारथ सातमें । पदमें आतम राम ॥
 रमता रम्य अध्यातमें । निज पद साधे काम ॥
 देखता वस्तु जगत सारी ॥ ज० ॥३॥ जोग-
 की महिमा बहु जाणी । चक्रधर छोड़ी सब
 राणी ॥ यती दश धरम करी सोहे । मुनि
 श्रावक सब मन मोहे ॥ दोहा—करम निका-
 चित काटवा । तप कुटार कर लाय ॥ क्षमा
 युक्त नवमू पद तेरे । कर्म मूल कट जाय ।
 भजो तुम नव पद सुखेंकारी ॥ पू० ॥ ज० ॥४॥
 श्री सिद्ध चक्र भजो भाई । अचामल तप विधि

सैं थाई । पाप त्रिहुं जोगें पीरहर जो । भाव
श्री पाल तणें करजो ॥ दोहा सम्बत् उगणीस
सत्तरसमें । जैपुर श्री जिन पास । चैत्र धवल
पूनम दिनें । सकल फली मुझ आस । बाल
कहे नव पद छवि प्यारी ॥ ज० ॥५॥ इति ॥
यदि स्तवन याद न हो तो इस पुस्तकमें
नवपदजीके स्तवन छपे हैं उनमेंसे पढ़
ले इसके बाद जयवीरायका समग्र पाठ
पढ़े इसके बाद इच्छामिखमासमणोंकी
पढी पढ़ कर इच्छाकारेण संदिस्सह भग-
वन् कह कर चैत्य वंदन करे । फिर जंकिचि
नमोत्थुणं आदि कह कर जयवीराय पूर्ण
बोल कर फिर भगवान्के सन्मुख उकड़ू बैठ
कर सञ्ज्ञायकी आज्ञा मांग कर मन्ह जिणाणं
की सञ्ज्ञाय पढ़े ।

॥ अथ मन्ह जिणाणं सञ्ज्ञाय ॥

मन्नह जिणाण माणं ॥ मिछं परि हरह

धरह सम्मत्तं ॥ छविह आवसयम्मि ॥ उज्जुत्तो
 होइपडदिवसं ॥ १ ॥ पव्वेसुपोसहवयं ॥ दाण
 सीलंतवोअभावोअ ॥ सञ्झाय णमुक्कारो ॥
 परोवयारोअ जयणा अ ॥ २ ॥ जिण
 पूआ जिण थुणणं ॥ गुरु थुअ साहम्मि आण
 वच्छल्ल ॥ ववहारस्सय सुद्धि ॥ रह जत्ताति
 त्यजत्ता य ॥३॥ उव सम विवेग सवर ॥ भासा
 समिई छजीव करुणाय ॥ धम्मिअजण संसग्गो
 करणदमो चरण परिणामो ॥४॥ सधो वरि
 बहु माणो ॥ पुत्थय लिहणं पभावणा तित्थे ॥
 सट्ठाणकिच्च मेअ ॥ निच्च सुगुरु व एसेणं ॥५॥

॥ इति ॥

देव वदना करके उठ कर शुचि होना
 और शुद्ध वस्त्र पहन कर जिनमदिर तथा
 घर टेरा सरमें जाना वहां जाकर स्नान करना
 शुद्ध वस्त्र पूजाके पहिनना धोती उत्तरासन
 आठ तहका मुक्कोस बांध कर जिन पूजा

करना तथा अष्ट प्रकारकी सामग्री (१) जल (२) केशर (३) पुष्प (४) धूप (५) दीप (६) अक्षत (७) नैवेद्य (८) फल वास क्षेप इत्यादि शुद्ध लेना ॥ पीछे जिन पूजा कर स्नात्र पूजा करना ॥ और वास क्षेप पूजा करना और बड़ी एक पूजा करना नवपद आरती करना । आरती करके तीन फेरी देना और जयती नमस्कार करना जिस पदका पूजा करना उस पदका चैत्य वंदन स्तवन थुई कहना ॥ शक्ति होय तो नव चैत्य वंदन व ९ थुई कहना और दोपहर-को देव वंदना करना । मन्ह जिणाणंकी सि-व्याय नहीं बोलना ।

बाद अपने स्थानक जा करके पञ्चरकाण पारके आंबिल करना चावलका ॥

८७ ॥ पञ्चरकाण पारने की विधि ॥

प्रथम इरिया वहियं । जग चिन्ता मणि ॥

का । चैत्य वंदन समग्र पढ़ कर जयवी
 राय पर्यन्त कहना ॥ पीछे । मन्ह जिणा
 णंकी सञ्जाय कह कर सुह पत्ती पड़िलेहे ॥
 पीछे ॥ खमासमण दे इच्छां कारणे सुदिस्सह
 भगवन् पच्चक्खाण पारुं यथा शक्ति ॥ इच्छा-
 मिं० इच्छां० पच्चक्खाण पारेमि ॥ तहत्ति ॥
 एम कही दहना हाथ कटासणां अथवा पूंजनी
 के ऊपर रख एक नवकार गुणे पच्चक्खाण
 करा होय उसका नाम कहके पारे
 ठग्गण सुरेजमुकारसहिअंपोरिसि सादपो-
 रिसि गठिसहिअ सुट्टिसहिअ पच्चक्खाण
 पारुं । चउ विहारआंवल । नीवीएका-
 सणू । वे आसणू । तिविहार पच्चक्खाण
 भीपारु पारिअं फ्रासिअ चैव । तीरिअ ।
 किट्टिअं तथा आराहिअ विराहिअ च तस्स मि-
 च्छामि दुक्कइ । ऐसा कह एक नवकार
 गिणे ॥ इति ॥ आंवल चावल का करना

आंवल करलेनके बाद स्यामको पाणहार पच-
क्खाण करना ॥

॥ पाणहारतिविहारका पच्चक्खाण ॥

पाण हार दिवस चरिम पच्चरकाइ तिवि
हंषि आहारं । अन्नत्थणा भोगेणं । सहसा
गारेणं । महत्त रागा रेणं । सब्ब समाहि
वत्तिया गारेणं वोसिरे ।

॥ इति ॥

स्यामकी देव वंदन करना जिसमें मन्ह
जिणाणंकी सिद्याय नहीं बोलना । बादमें
देवसि प्रतिक्रमणा करना ।

प्रतिक्रमण करनेवालेको सामायिक लेते
समय यह अवश्य जान लेना चाहिये तिविहार
उपवास किया होय तो केवल मुहुंपत्ति पढ़े और
भोजन एक समय या दोनों समय किया होय
तो वांदना अवश्य देनी होंगी फिर पच्चक्खान
करना होगा ।

८८ ॥ देवसी प्रतिक्रमण विधिः ॥

पूर्व लिखे अनुसार सामायिक ले लेनेके बाद देवसी प्रतिक्रमण करे प्रथम इच्छामि खमासमणोंकी पट्टीपढ़कर इच्छाकारेण सदिससह भगवन् चैत्य वंदन कह कर चैत्य वंदन करे । चैत्य वंदन करनेके अनन्तर जंकिं-धि नामतित्थं नमोत्थुण अरिह ताणं आदि शक्रस्तव समग्र कह कर खड़ा होकर अरिहंत चेइ आणं करेमि काउसग्ग वंदण वत्ति आए आदि अन्नत्थउ ससिएणं समग्र कह कर एक नवकार का काउसग्ग अर्थात् ध्यान कर नमोर्ह त्सिद्धा घायोपाध्याय सर्व साधुभ्यः कह कर एक निम्न लिखित थुई यानि स्तुति कहे ।

नव पद स्तुतिः

पहिले पद जपियें अरिहतवीजे सिद्ध जपो जयवत्तीजे आचारज संत चौथे नमो उव-

ज्ज्ञायां तंत नमो लोए सव्व साहु महंत पंचम
 पद विलसंत दंसण छट्टे जपो मति मंत सातमें
 पद नमो ज्ञाण अनंत आठमें चारित्रहंत
 नमो तव स्स नवमेंसोहंत श्रीसिद्धचक्रनुंध्यान
 धरंत पातक नो होवे अंत ॥१॥ इसके बाद
 लोगस्सकी पटी पढे सव्व लोए अरिहंत चेइ
 आणं करेमि काउसग्गं वंदण वत्ति आए आदि
 पढ अन्नत्थउससिण्णंअप्पाणंवोसरामिपर्यन्त
 पढ कर एक नवकारेका काउसग्ग (ध्यान)
 करके निम्नलिखित दूसरी थुई पढे ।

॥ पुनः ॥

केशर चंदन साथे घसिजे कस्तूरी वलिमांहि
 भेली जे घन घनसारठवीजे गंगोदकसुंन्हवण
 करीजे श्री सिद्ध चक्र निपूजाकरीजे सुरभि
 कुसुसचरचीजे कुंदरूअगरनोधूपडहीजे काम-
 धेनुघृतदीपभरीजे निरमल भाव रखीजे
 अनुपम नव पद ध्यान धरीजे रोगादिक

दुख दूर हरीजे मुगति वधू पर नीजे ॥२॥
 इसके बाद पुष्कर वरदा बहू को पट्टी पढ़े
 वंदन वक्ति आए अन्नत्यउ ससि एण कह
 कर १ नवकारका काउसग (ध्यान) करके
 निम्नलिखित थुई पढ़े ।

॥ पुनः ॥

आसो नें वलि चैत्र रसाल उज्जल पख
 औली शुविसाल नव औविल शुविसाल सादा
 चार वरस उजमाल रोग शोग नीसे तत्काल
 सेवोथई उजमाल तप उजमण करे सुविशाल
 तेलहे भोग सदा गुण माल जिम मयणा श्रीपाले
 छांडी अलगो आल पंपाल नित नित आराधो
 त्रिणकाल श्री सिद्ध चक्र गुणमाल ॥३॥ इसके
 बाद सिद्धाण बुद्धाणका पाठ समग वेयावच्च
 गराण अन्नत्यउ ससि एण समग्र कह कर १
 नवकारका काउसग (ध्यान) कर लेनेके बाद

निम्नलिखित थूई पढ़े । गजगामिनिचम्पक
दलकाय । चालेपगनेउरठमकाय । कुंकुमचंदन
तिलकरचाय । पहरेपीतपटोलीबनाय । लीलार्ये
ललकाय । बालीभोलीचक्केसरि माय । जे
सेवें श्रीसिद्ध चक्र राय देतेहनेसुसहाय । श्री
विजय प्रभसूरि तप गच्छ राय । प्रेम विजय
गुरु सेवा पाय । कांति विजय गुण गाय ॥४॥

॥ इति ॥

उपरोक्त चारों थूई पढ़नेके बाद बैठकर
नमोत्थुणं आदि समग्र शक्रस्तव पढ़नेके बाद
खमासमण देकर भगवान् हं कहे तथा दूसरी
खमासमण देकर आचार्यहं कहे तथा तीसरी
खमासमण देकर उपाध्यायहं कहे । तथा चौथी
खमासमण देकर सर्व साधु हं कहे । इस प्रकार
चार खमासमण देकर भगवानादि चारको
थोभ वंदन करना । फिर खमासमण देकर
इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन् देवसि प्रतिक्र-

मण ठाऊं ॥ इस प्रकार कह कर दाहिना हाथ चरवला कटासणां ऊपर रख कर बायें हाथमें मुंहपत्तिरखशिरझुकासव्व स्सवि देवसिअस्स का पाठ कहना ॥ फिर खड़ा होकर करेमिभते इच्छामि ठामि काउस्सगं जोमे देवसिओ० तस्स उत्तरी अन्नत्थउ ससिएणं समग्रकहे अतिघारकी आठ गाथा का काउस्सगग करना जो आठ गाथा न आती होय तो आठ नवकारका काउस्सगग करना । उसको पार कर प्रगट लोगस्स कहना वैठकर तीसरे आवड्यककी मुहपत्ति पड़िले हकरवांदणादो देना ॥ खड़ा होकर इच्छा कारेण सदिस्सह भगवन् देवसिअ आलोउं । इच्छ आलोएमि कह कर जो मे देवसिओ कहे फिर सात लाखपृथ्वीकाय कहकर अठारह पापस्थानक आलोयकर सव्वस्सवि देवसिअस्स कहे ॥ फिर नीचे वैठ कर दहिना घुटना ऊपर

रक्षते एक लवकार गिनकर करेभिभंते एक वार
इच्छामि पडिक्कमिउं कहकर वंदित्ता सूत्र संपूर्ण
पढना ।

८९ ॥ अथ वंदित्तु सूत्र ॥

वंदित्तु सव्वसिद्धे । धम्मायरिएअ सव्व-
साहूअ । इच्छामि पडिक्कमिउं । सावगधम्मा-
इआरस्स ॥ १ ॥ जोमे वया इआरो । नाणे
तह दंसणे चरित्तेअ । सुहमोअ वायरोवा ।
तंनिंदे तंच गरिहामि ॥ २ ॥ दुविहे परिग्ग-
हम्मी । सावज्जे बहुविहेअ आरंभे । कारावणे
अकरणे । पडिक्कमे देसिअंसव्वं ॥ ३ ॥ जंबद्ध
मिंदिएहिं । चउहिं कसाएहिं अप्पसत्थेहिं ।
रागेणव दोसेणव । तं निंदे तंच गरिहामि ॥ ४ ॥
आगमणे निग्गमणे ठाणेचंक्रमणे अणाभागे ।
अभिओगे अनिओगे पडिक्कमे ॥ ५ ॥ संकाकंखवि
गिच्छोपसंसतहसंथवो कुलिंगीसु । सम्मत्तस्सइ ।
आरे पडिक्क० ॥ ६ ॥ छक्काय समारंभे ॥ पयणेअ

पयावणेअ जेदोसा । अत्तट्टाय परट्टा । उभय
 ट्टाचेव तंनिदे ॥ ७ ॥ पंच पहमणुव्वयाणं ।
 गुणव्वयाणंचतिण्हमइआरे । सिक्खाणंच चउ-
 ण्ह ॥ पडिक्कमे० ॥ ८ ॥ पढम अण व्वयम्मी
 थूलगपाणाइवायविरइओ । आयरियमप्पसत्थे ।
 इत्थपमायप्पसगणं ॥ ९ ॥ वहधधचविच्छेए ।
 अइभारभत्तपाणवुच्छेए । पढम व्वयस्स इआरे ।
 पडिक्कमे० ॥ १० ॥ वीए अण व्वयम्मी । परि-
 थूलग अलिअवयणं विरइओ । आयरिअ मप्प-
 सत्थे । इत्थपमाय प्पसगणं ॥ ११ ॥ सहस्सा-
 रहस्सदारे । मोसुवणसेअ कूडलेहेअ ॥ वीअ-
 व्वयस्सइआरे । पडिक्कमे० ॥ १२ ॥ तइएअणु-
 व्वयम्मी । थूलगपरदव्वहरणं विरइओ । आय-
 रिअमप्पसत्थे । इत्थपमायप्पसगणं ॥ १३ ॥
 तेनाहइप्पओगे । तप्पडिरूवे विरुद्ध गमणेअ ।
 कूडतुलकूडमाणे । पडि० ॥ १४ ॥ चउत्थेअण-
 व्वयम्मी । निच्च परदारगमणं विरइओ । आ-

यरिअमप्पसत्थे । इत्थपमा० ॥ १५ ॥ अपरि
 ग्गहिआ इत्तर । अणंग विवाह तिक्कथणपुरागे ।
 चनुत्थवयस्सइआरे । पडिक्क० ॥ १६ ॥ इत्तो-
 अ णुक्कण्णपंचमस्मीआयरियमप्पसत्थंमि । परि-
 माण परिच्छेए । इत्थ० ॥ १७ ॥ धणधन्न-
 खित्तवत्थु रूप्पसुवन्नेअ कुविअ परिमाणे । दुप्प-
 ण्णउप्पयस्मी पडि० ॥ १८ ॥ गमणस्सय परि-
 माणे । दिसासुउट्ठं अहेयतिरिअंच । वुट्ठिस्सई
 अंतरद्धा । पढमम्मिगुणव्वएनिंदे ॥ १९ ॥
 मज्जंमिअ मंसंमिअ । पुप्फेअ फलेअ गंधमल्लेअ ।
 उवभोग परिभोगे । बीअम्मिगुणव्वएनिंदे ।
 ॥ २० ॥ सच्चित्ते पडिवुद्धे । अपोलदुप्पोलि-
 अंच आहारे । तुच्छोसहिभक्खणाया । पडि०
 ॥ २१ ॥ इंगाली वणसाढी भाडी फोडीसु-
 वज्जए कम्मं । वाणिज्जं चेव दंत लक्ख । रस
 केस विसविसयं ॥ २२ ॥ एवं खुज्जंतपिल्लणं
 कम्मं । निल्लंछणंच दवदाणं । सरदह तलाव-

सोसं । असईपोसंस वज्जिजा ॥ २३ ॥ सत्थ-
 ग्गिमूसल जंतग । तणकट्टेमंतमूलभेसिज्जे ।
 दिन्नेदिवावएवा । पडि० ॥ २४ ॥ ण्हाणुवट्टण
 वन्नगविलेवणे सदरूवरसगंधे । वत्थासणआ-
 भरणे । पडि० ॥ २५ ॥ कटप्पे कुक्कुडए ।
 मोहरिए अहिगरण भोगअइरित्ते । दंड मिअण-
 ट्टाए तेईअम्मिगुणव्वएनिंदे ॥ २६ ॥ तिविहे
 दुप्पणिहाणे । अणवट्टाणेतहासडविहुणे ।
 सामाडय वितहकए । पढमे सिक्खा वएनिंदे
 ॥ २७ ॥ आणवणेपेसवणे । सदरूवेअ
 पुग्गलक्खेवे । देसाविगासिअम्मी । वीएसि-
 क्खावएनिंदे ॥ २८ ॥ सथारुच्चारविही ।
 पमायतह चैव भोयणाभोए पोसहविहिविन्न-
 रीए । तडएसिक्खावएनिंदे ॥ २९ ॥ सच्चि-
 तेनिकखमणे ॥ पिहणेववएसमछरेचेव । काला-
 इक्कमदाणे । घउत्थेसिक्खावएनिंदे ॥ ३० ॥
 सुहिएसुअ दुहिएसुअ । जोमे असजएसुअणु-

कंपा । रागेणवदोसेणव । तंनिदेतं चगरिहा-
 सि ॥ ३१ ॥ साहसुसंविभागो । नकओ तव
 चरणं करणं गुत्तीसु । संतेफासुअदाणे । तंनि
 देतं चगरिहासि ॥ ३२ ॥ इहलोएपरलोए ।
 जीविअमरणेअं ओसंसपउगे । पंचविहो अइ-
 आरो । मांमझं हुज्जमरणंते ॥ ३३ ॥ काएणं
 काइअस्स । पडिक्कमे वाइअस्सवायाए । मणसां
 माणसिअस्स । संव्वस्संवयाइयारस्स ॥ ३४ ॥
 वंदणं थयंसिक्खागारवेसु । सन्नाकसाय दंडेसु ।
 गुत्तीसुअं समिईसुअं जोअइआरो तंनिदे ॥ ३५ ॥
 सम्मदिट्ठीजीवो । जइविहुपावं समायरइकिंचि ।
 अप्पोमिहोइवंधो । जेणननिद्धं धसंकुणंइ ॥ ३६ ॥
 तंपिहुसपडिक्कमणं । सप्परिआवंसं उत्तरगुणं च
 खिप्पं उवसामेई । वाहिव्वं सुसिक्खिओ विज्जो
 ॥ ३७ ॥ जहाविसं कुट्टगयं । मंतमूलं विसा-
 रयां । विज्जाहणंतं मंतेहिं । तोतं हवइ निव्वि-
 सं ॥ ३८ ॥ एवं अट्ठविहं कम्मं । रागं दोसं

समज्जिअं । आलोअंतोअ निदंतो । खिप्पं
हणडसुसावओ ॥ ३९ ॥ कयपावोविमणुस्सो ।
आलोइअनिदिअ गुरुसगासे । होइअइरेगल-
हुओओहरिअभरुव्वभारवहो ॥ ४० ॥ आवस्सएण
एण सावओ जडवि वहुरओ होइ । दुक्खा-
णमत किरिअ । काही अचिरेणकालेण ॥ ४१ ॥
आलोअणावहुविहा नयसंभरिआपडिक्कमणकाले
मूलगुणउत्तरगुणे । तनिदेतच गरिहामि ॥ ४२ ॥
तस्सधम्मस्सकेवलपन्नत्तस्स । अब्भुट्टिओमिआ
राहणाएविरिओमिविराहणएतिविहेणपडिक्क तो
वंदामिजिणेचउव्वीस ॥ ४३ ॥ जावंतिवेडआडं
उह्वेअअहेअ तिरिअलोएअ । सव्वाड ताइ वदे
इहसतोतत्थसंताइं ॥ ४४ ॥ (भगवन्) जा-
वति केविसाह । भरहेरवण महाविदेहेअ ।
सव्वेसितेसिपणओ । तिविहेणतिदडविरियाण
॥ ४५ ॥ चिरसंचिय पाव पणासणीए । भव
सय सहस्स महणीए । उव्वीसज्जिण विणिग्ग-

यकहां । वोलंतुमेदीअहा ॥ ४६ ॥ मममंगल
 भरिहंता सिद्धासाहूसुअंचधम्मोअ । सम्मदिही
 देवा । दिंतुसमाहिंचवो हिंच ॥ ४७ ॥ पडि-
 सिद्धाणं करणे । किच्चाणमकरणेपडिक्कमणं ।
 असदहणेअतहा । चिवरीअ परूवणाएअ
 ॥ ४८ ॥ खामेमिसव्वजीवे । सव्वेजीवा
 खसंतुमे । मित्तीमेसव्वभूएसु । वैरंमज्झनके-
 णइ ॥ ४९ ॥ एवमहंआलोइअनिंदिअ । गर-
 हियदुगंछियंसम्मं । तिविहेणपडिक्कंतो । वंदामि
 जिणेचउव्वीसं ॥ ५० ॥

॥ इति श्री श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र समाप्तः ॥

इसकेवाद वंदनादो देकर इच्छाकारेण संदिस्सह
 भगवन् अब्भुट्ठिओमि अब्भिन्तरदेवसियं खामेऊं
 ऐसाकहकर अब्भुट्ठिओमिखमाकरदोदफावंदना
 दे फिर खड़ा होकर आयरिय उवझाए कह
 कर करेमि भंते इच्छामि ठामि काउस्सगं
 जोमे देव सिओ० कहकर तस्स उत्तरी कहे दो

लोगस्त अथवा आठ नवकारका काउस्सग
करकेप्रगट लोगस्त कहकरपुक्खरवरदी ।
सुअस्तभगवओ । करेमि काउस्सगं वद-
ण० अन्नत्थ० कह कर एक लोगस्त
अथवा चार नवकारका काउस्सग पार कर
फिर ॥ सिद्धाणं वृद्धाणंका पाठ पढ़ कर
सुअ देवयाए करेमि काउस्सगं अन्नत्थउससि
एणं कह कर एक नवकारका काउसग कर
निम्न थूई पढ़ना ।

॥ श्रुत देवता स्तुतिः ॥

सुअ देवयाभगवई ॥ नाणा वरणीअ कम्म
संघाय ॥ तेसि खवेउ सययं ॥ जेसि सुअ
सायरेभत्ती ॥ १ ॥

॥ स्त्रियोके कहनेका कमलदल ॥

कमल दल विपुल नयना । कमलमुखी
कमल गर्भ सम गौरी कमले स्थितो भगवती ॥

ददातु श्रुत देवता सौख्यं ॥ १ ॥ इति ॥

इसके बाद क्षेत्र देवताका काउसग्न करके
निम्न थूई पढ़ना ।

॥ खेतदेवताकी स्तुति ॥

जीसे खित्ते साहू ॥ दंसण नाणेहिं चरण
सहि एहिं ॥ साहंति मुख मग्गं ॥ सादेवी
हरउं दुरिआईं ॥ २ ॥ इति ॥

उपरोक्त थूई पढ़नेके बाद इच्छामिखमा-
समणो पढ़ कर इच्छा कारणे संहिस्सह
भगवन् छट्टा आवश्यककी मुहपत्ती पड़िलेहे,
फिर दो वांदणा देकर इच्छा कारणे संहिस्सह
भगवन् सामयिक । चउविसत्था वंदणा पड़ि-
क्रमण । काउसग्न पच्चक्खाण, क्रिया है इस
प्रकार आवश्यक छ संभारना ॥ फिर इच्छा
मो अणु स ठियंनमो तेसिंखमासमणाणं गोय
माईणंमहामुणीणं नमोऽहंतु कहकर पुरुष

नमोऽस्तु वर्द्धमानाय कहे । और स्त्रियें ससार
दावाकी तीन गाथा कहैं ॥ फिर ॥

॥ नमोस्तु वर्द्धमानाय ॥

नमोस्तु वर्द्धमानाय ॥ स्वर्द्ध मानाय
कर्मणा ॥ तज्जया वास मोक्षाय ॥ परोक्षाय
कुतीर्थिनाम् ॥ १ ॥ येषा विकघार विंद राज्या
ज्याय क्रम कमलावलि दधत्या ॥ सदृशैरिति
सगत प्रशस्यं ॥ कथितं सतु शिवाय ते जिनेन्द्रा
॥२॥ कषाय तापार्दित जतु निर्वृति ॥ करोति
यो जैन मुखांबुदोद्गतः सशुक्रमासोद्भव वृष्टि
सन्निभो दधातु तुष्टि मधि विस्तरोगिराम् ॥३॥

ससार दावा

ससारदावानलदाहनीर, समाहधूलीहरणे
समीर । मायारसादारणमारसीर, नमामि
वीरं गिरिसारधीरं ॥ १ ॥ भावावनामसुर-
दानवमानवेन, चूलाविलोल कमलावलिमालि-

तानि । संपूरिताभिनतलोकसमीहितानि, कामं
 नमामि जिनराजपदानि तानि ॥ २ ॥ बोधा-
 गाधं सुपदपदवीनीरपूराभिरामं, जीवहिंसावि-
 रललहरीसंगमागाहदेहं । चूलावेलं गुरुगमम-
 णीसंकुलंदूरपारं, सारं वीरागमजलनिधिं सादरं
 साधु सेवे ॥ ३ ॥

नमोत्थुणं कहे फिर खमासमण देकर इच्छा
 कारेण संदिसह भगवन् स्तवन भणूं ऐसा
 कहकर नमोऽर्हत्० कहे स्तवन पांचगाथासे
 अधिक गोथा वाला कहना फिर वर कनक

॥ वर कनक ॥

वर कनक शंख विद्रुम ॥ मरकत घन
 सन्निभं विगत मोहम् ॥ सप्तति शतंजिनानां ।
 सर्वा पर पूजितं वंदे ॥ १ ॥ इति ॥

कह कर पूर्वकी तरफ खमासमण पूर्वक
 भगवान्, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु इन
 चारोंको वंदन करकेदहनाहाथपूजनीया

आसन ऊपर रख कर अष्टाङ्गसु मुनि वंदन
कहना ॥

॥ अष्टाङ्गसु ॥

अष्टाङ्गसु दीवसुमुद्गसु पनरस सुकम्म
भूमिसु जावंतके विसाहू रयहरण गुच्छ पङ्क्ति-
गहधारा पंचमहव्यधारा अठारसहस सीलग
धारा अखयावार चरिता तेसव्वे सिरसा
मणसा वयसा मत्थेण वंदामि फिर ॥
खमासमण देकर इच्छा कारण सदिसह भग-
वन् देवसिय पायच्छित्तविसोहणत्थ काउसग्ग
करुं । इच्छ देवसियपायच्छित्त विसोहणत्थं
करेमि काउस्सग्ग अन्नत्थउ ससिएण कह कर
घार लोगस्स अथवा सोलह नवकारका काउ-
सग्ग करे, पार कर प्रगट लोगस्म कह
कर फिर बैठे खमासमण देकर इच्छा
कारण सदिसह भगवन् सञ्जाय सदिसाउं
इच्छ कहे दूसरा खमासमण देकर इच्छाकारण

संदिहसह भगवन् सञ्ज्ञाय भणूं ऐसे सञ्ज्ञायका
आदेश मांग कर एक नवकार गिनकर सञ्ज्ञाय
पहे,

॥ अथ सिञ्ज्ञाय ॥

कर पडिक्कमणूं भावशूं । दोय घड़ीशुभ ध्यान
॥ लालरे ॥ परभवजातां जीवने । संवल साचूं
जाण ॥ लालरे ॥ कर० ॥ १ ॥ श्रीमुख वीर
इम ऊचरे । श्रेणिक रायप्रते जाण ॥ ला० ॥
लाख खांडी सोना तणी । दीजे दिनप्रति दान
॥ लालरे ॥ क० ॥ २ ॥ लाख वरस लगेते
बली । एम दीये द्रव्य अपार ॥ ला० ॥ एक
सामायिक तोलें । नावे तेहलगार ॥ ला० ॥
क० ॥ ३ ॥ सामायिक चउ विसत्था । भलूं
वंदन दोय वार ॥ लालरे० ॥ व्रत संभारारे
आपणां । ते भव कर्म निवार ॥ लालरे ॥ क०
॥ ४ ॥ कर काउसग्ग शुभ ध्यान थी । पच्च-
ब्रवाण सुधूं विचार ॥ ला० ॥ दो सञ्ज्ञायेंते

वली । टालो टालो अतिचार ॥ लालरे ॥

॥ क० ५ ॥ श्री सामायिक प्रसाद थी । ल-

हिये अमर विमान ॥ लालरे ॥ धर्मसिंह मुनि

एपभणे । एछे मुक्ति निदान ॥ लालरे ॥ क० ६ ॥

फिर एक नवकार गिने खमासमण दे

कर इच्छा कारेण सदिसह भगवन् दुखखखओ

कम्मखओ निमित्तं काउसग्ग करूं, इच्छं,

अन्नत्थउ कहकर संपूर्ण चार लोगस्स

अथवा शोलहनवकारकाकाउसग्गकरे, फिर

जिसने लघुशान्ति कहनी हो वह आदमी

या जो स्वयं शान्ति कहनेवाला हो तो स्वयं

नमोऽर्हत्तुं कहे । फिर छोटी शान्ति पढ़े

॥ अथ लघु शान्तिस्तव ॥

शान्ति शान्ति निशान्तं ॥ शान्ति शान्ता शिव

नमस्कृत्य । स्तोतुं शान्ति निमिरं ॥ मत्र पदे.

शान्तये स्तौमि ॥१॥ ओमिति निश्चितवचसे ॥

नमोनमो भगवतेऽर्हते पूजाम् ॥ शान्ति जिनाय

जयवते ॥ यशस्विने स्वामिने दमिनाम् ॥ २ ॥
 सकलाति शेषकमहा ॥ संपत्ति समन्विताय
 शस्याय ॥ त्रैलोक्य पूजिताय च ॥ नमोनमः
 शान्ति देवाय ॥ ३ ॥ सर्वामरसुसमूह ॥ स्वामि
 क संपूजिताय निजि ताय ॥ भुवन जन पाल-
 नोद्यत ॥ तमाय स ततं नमस्तस्मै ॥४ ॥ सर्व
 दुरितौघनाशनकराय ॥ सर्वा शिव प्रशमनाय ।
 दुष्ट ग्रह भूत पिशाच ॥ शाकिनी नां प्रमथ
 नाय ॥ ५ ॥ यस्येति नाम मंत्र ॥ प्रधान वा-
 क्यो पयोग कृततो षा ॥ विजया कुरुतेजनहित ।
 मिति च नुता नमत तं शांतिम् ॥ ६ ॥ भवतु
 नमस्ते भगवति ॥ विजये सुजयेपरा परैरजिते ॥
 अपराजिते जगत्यां ॥ जयतीति जयावहे भवति
 ॥ ७ ॥ सर्वस्यापिच संज्ञस्य ॥ भद्र कल्याण
 मंगल प्रददे ॥ साधूनां च सदा शिव तुष्टि
 पुष्टि प्रदेजीयाः ॥ ८ ॥ भव्यानां कृत सिद्धे
 निर्वृत्ति निर्वाण जननि सत्त्वानां ॥ अभय प्रदान

निरते । नम ऽस्तु स्वस्ति प्रष्टे तुभ्यं ॥ ९ ॥
 भक्तां ना जन्तूनां शुभावहे नित्य मुद्यते देवि ॥
 सम्यग्दृष्टिनां धृति रति मति बुद्धि प्रदानाय
 ॥ १० ॥ जिन शासन निरतानां शान्ति नतानां
 च जगति जनता नाम् ॥ श्री संपत्कीर्त्तियगो ।
 वर्द्धनि जयदेवि विजयस्व ॥ ११ ॥ सलिला
 नल विष विषयर । दुष्ट ग्रह राज रोग रण
 भयत' राक्षस रिपुगण मारी । चौरैतिव्वापदा
 दिभ्यः ॥ १२ ॥ अथ रक्ष रक्ष सुशिवं कुरु कुरु
 शान्तिच कुरुकुरु सवेति ॥ तुष्टि कुरु कुरु पुष्टि
 कुरुकुरु स्वस्तिच कुरुकुरु त्व ॥ १३ ॥ भगवति गुण
 वति शिव शान्ति तुष्टि पृष्टि स्वस्तीह कुरु कुरु
 जनानां ॥ ओमिति नमोनमो ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रंः य
 क्ष' ह्रीं फुट् फुट् स्वाहा ॥ १४ ॥ एवं यन्ना
 माक्षर । पुरस्सरं संस्तुता जया देवी ॥ कुरुते
 शान्ति नमतां । (पाठांतरे कुरुतेशान्ति निमित्तं)
 नमो नम' शान्तये तस्मै ॥ १५ ॥ इति पूर्व

सूरि दर्शित । मंत्र पद त्रिदिविर्भतः स्तवः
 शान्तेः ॥ सलिलादिभय विनाशी । शान्त्यादिक
 रश्च भक्ति मताम् ॥ १६ ॥ यश्चैनं पठति
 सदा । शृणोति भावयति वा यथा योग्यं ॥
 सहिशान्तिपदं यायात् (पाठांतरे शिव शान्तिपदं
 यायात्) सूरि श्रीमान् देवश्च ॥ १७ ॥ उप-
 सर्गाः क्षयं यान्ति । छिद्यंते विघ्न वल्लयः ॥
 मनः प्रसन्नतामेति । पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥ १८ ॥
 सर्व मंगल मागल्यं । सर्व कल्याण कारणं ॥
 प्रधानं सर्व धर्माणां । जैनजयति शासनं ॥ १९ ॥
 ॥ इति ॥

लघु शान्ति कहकर प्रगट लोगस्स कहे ॥
 फिर इरिया वहियं तस्स उत्तरी कहकर ।
 एक लोगस्स अथवा चार नव कारका काउ-
 स्सग करके प्रगट लोगस्स कहे,

॥ अथ चउक्कसाय ॥

चउक्कसाय पड़िमल्लुल्लूरणु ॥ दुज्जय मयण

वाणमुसुमूरणू ॥ सरसपिअंगु वन्नु गयगामिउ ।
जयउ पासु भुवणत्तयसामिउ ॥ १ ॥ जसुतणु
कति कडप्पसिणिद्धउ । सोहइ फणि मणि कि-
रणलिद्धउ ॥ ननवजलहरतडिल्लयलंछिउ । सो
जिणु पासु पयच्छउ वछिउ ॥ २ ॥ इति ॥

घउकसाय कहे केअनन्तर । नमुत्थुण कहकर
जावतिचेइआई कह खमासमण देकर जावतिके
विसाहू । उवसग्ग हरं कहकर । हाथ जोड म-
स्तक पर रखजयवीराय कहकर खमासमणदेकर
सामायिकपारवानि०मुहपत्तिपडिलेह॥ फिरखमा
समणदेकर इच्छाकारेण संदिसह भगवन् सामा
यिकपारूँ, (यदिस्थानपर स्वयगुरु विराजमानहो
तो वे कहेंकि पुणोवि कायव्वो । उसवक्त शिष्य
कहे, यथा शक्ति फिर खमासमण देकर इच्छा
कारेण संदिसह भगवन् सामायिक पारेमि ।
उसवक्त गुरु 'कहे आयारो न मुत्तव्वो' यह सुन-
कर शिष्य तहत्ति कहे । फिर दहना हाथ चर-

बला अथवा कटासणाके ऊपर रख एक नवकार गिनकर सामाङ्ग्य वय जुत्तो कहे स्थापन की हुई स्थापना हो तो उसके सामने दहना होथ रखकर एक नवकार गिनकर उठावे ॥ इति देवसि प्रतिक्रमण विधि समाप्त । फिर अपना स्वाध्याय ध्यान करे इति प्रथम दिन नव पद ओली तप विधि संपूर्णम् ॥

॥ द्वितीय सिद्ध पद तप आराधने की विधि ॥

प्रथम प्रभात (सवेरे) उठकर सामयिक लेवे । लेकर कुसुम दुसुम राई विसोह नार्थका काउस्सगमें चार लोगस्स अथवा १६ वनकारका ध्यान करे । प्रगट एक लोगस्स कहे । पीछे खमासमण देकर इच्छा कारणे संदिसह भगवन् श्रीसिद्ध पद आराध नार्थ करेमिकाउसगं अन्नत्थ० कह । आठ लोगस्सका काउस्सग करे । पारकर प्रगट

लोगस्स कहे । पीछे ॐ ह्रीं णमोसिद्धाणं इस पदकी बीस मालाफेरे । वादमें सामायिक लेकर राई प्रतिक्रमण करे । आंविलका पञ्चमखाण करे । प्रभात देव वंदना करे । फिर उठकर शुचि होवे, सुद्ध होकर जिन मंदिरमें जावे । वहां जाकर पूर्वोक्त पूजा करे । स्नात्र पूजा करे । वासक्षेप पूजा करे । तथा दूसरी सिद्धपदकी पूजा करे । तथा अष्ट प्रकारी पूजा करे और नवपद आरती करे । पञ्चमखाणकरे । ८फेरीदेवे । ८जयती करे सिद्धपदका चैत्यवदन, स्तवन और थुई कहे । दोपहरका देव वदन करे । फिर घरे जाकर पञ्चमखाण पार कर गहंका आंविल करे, गरम पानी पीवे । पाण हारका पञ्चमखाण करे, फिर संध्या समय देव वंदन करे । देवास प्रतिक्रमण करे, पीछे स्वाध्याय ध्यान करे ॥ इति ॥ द्वितीय दिवस श्री सिद्ध पद तप विधि संपूर्णम् ॥

॥ तृतीय आचार्य पद तप आराधने की विधि ॥

प्रथम प्रभात समय उठकर सामायिक लेवे कुसुम दुसुम राई विसोह नार्थ चार लोगस्सका काउस्सग कर प्रगट लोगस्स कहे; पीछे खमासमण देकरइच्छाकारेण संदिसह भगवन् श्री आचार्य पद आराधनार्थ करेसि काउस्सगं अन्नत्थ कहकर छत्तीस (३६) लोगस्सकाकाउस्सग करे, पारकर प्रगट लोगस्स कहे, फिर सामायिक लेवे । फिर ॐ ह्रीं नमो आयरियाणं इस पदकी वीसमोला फेरे । बाद सामायिक पूरी हुई हो तो तीसरी सामायिक लेवे । फिर राई प्रतिक्रमण करे । आंविलका पञ्चब्रह्मण करे; देववंदन करे । फिर उठकर शुचि होवे । शुद्ध होकर मंदिरमें जावे । वहां जाकर पूर्वोक्त पूजा करे । तथा स्नात्र पूजा

करे । तथा तीसरी आचार्य पदकी वासक्षेप पूजा करे । आचार्य पदकी बड़ी पंचामृत पूजा करे तथा अष्ट प्रकारी पूजा करे । आरती करे । पञ्चरकाण करे और फेरी छत्तीस (३६) ३६ जयती करे, श्रीआचार्य पदका चैत्यवन्दन स्तवन. थुई करे । दोपहरका देववन्दन करे, फिर घर जाकर पञ्चम्खाण पारकर चनेका आंविल करे । गरम पानी पीवे । पाणहार तिविहारकापञ्चम्खाण करे, फिर सभ्या देववन्दन करे, देवसि प्रतिक्रमण करे, फिर सद्याय ध्यान करे ॥ इति तृतीय दिवस श्रीआचार्य पद तप विधि

॥ संपूर्णम् ॥

॥ चतुर्थ उपाध्याय पद तप
आराधने की विधि ॥

प्रथम प्रभात समय उठकर सामायिक लेवे । कुसुम दुसुम राई विसोह नार्थका काउ-

सग्न करे । प्रगट लोगस्स कहे । फिर खमा-
समणदेकर इच्छा कारण संदिस्सह भगवन् श्री
उपाध्याय पद आराधनार्थ करमिकाउस्सगं
अन्नत्थ कहकर पचीस (२५) लोगस्सकाकाउ-
सग्न करे । पारकर प्रगट लोगस्स कहे । पीछे
सामायिक पूरी हुई हो तो दूसरी सामायिक
लेवे । फिर ॐ हीं नमो उक्ञ्जायाणं । इस पद
की बीस माला फेरे । वाद सामायिक पूरी
हुई हो तो तीसरी सामायिक लेवे । फिर
राई प्रतिक्रमण करे, आंविलका पञ्चक्खाण करे ।
देववांदन करे फिर उठकर शुचि होवे, शुद्ध
होकर मंदिरमें जावे । वहां जाकर पूर्वोक्त
पूजा करे ॥ तथा स्नात्र पूजा करे ।
वासक्षेप पूजा करे । चतुर्थ उपाध्य पदकी
पूजा करे । तथा अष्ट प्रकारी पूजा करे, आ-
रती करे । पञ्चक्खाण करे और पचीस (२५)
फेरी देवे । २५ जयती करे, श्रीउपाध्याय पदके

चैत्यवांदन स्तवन थुई कहे । टोपहरका देववां-
दन करे, फिर घर जाकर पच्चक्खाण पारकर
मूगका आंविल करे, गरम पानी पीवे । पाणहार
तिविहारं पच्चक्खाण करे, फिर सध्या देववांदन
करे । फिर देवसि प्रतिक्रमण करे ॥ इति
चतुर्थ दिवस उपाध्याय पद तप विधि
सपूर्णम् ।

॥ पञ्चम सर्वसाधु पद तप आराधने की विधि ॥

प्रथम प्रभात समय उठकर सामायिक
लेवे । कुसुम दुसुम राई विसोह नार्थ चार
लोगस्सको काउस्सग करे । प्रगट लोगस्स
कहे । फिर खमासमण देकर इच्छा करेणसंदि-
सह भगवन् श्रीसर्वसाधु पद आराधनार्थ करेमि
काउस्सगं अन्नत्थ कहकर । सत्ताइस (२७)
लोगस्सका काउस्सग करे । पारकर प्रगट

लोगरुस कहें । पूर्व सामायिक पुरी हुई हो तो दूसरी सामायिक लेवे । फिर ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं । इस पदकी वीसमाला फेरे । बाद सामायिक पुरी हुई हो तो तीसरी सामायिक लेवे । फिर राई प्रतिक्रमण करे । आंबिल का पच्चक्खाण करे, देववांदन करे । फिर उठ कर शुचि होवे, शुद्ध होकर मंदिरमें जावे वहां जाकर पूर्वोक्त पूजा करे । स्नात्र पूजा करे । वासक्षेप पूजा करे तथा पंचम सर्वसाधु पदकी पूजा करे । तथा अष्टप्रकारी पूजा करे । आरेतीकरे । पच्चक्खाण करे । और (२७) सत्ताइस फेरी करे । २७ जयती करे । श्री सर्वसाधु पदके चैत्यवांदन, स्तवन थुई कहे । दोपहरको देववांदन करे फिर घर जाकर पच्चक्खाण पारकरकाले उड़दका आंबिल करे, गरम पानीपीवे । फिर पाणहार तिविहार पच्चक्खाण करे । फिर संध्या देववांदन करे । फिर देवसि

प्रतिक्रमण करे । फिर सञ्ज्ञाय ध्यान करे ॥
इति पचम पद दिवस श्रीसर्वसाधुपद तप विधि

॥ संपूर्णम् ॥

॥ अथ सम्यग् दर्शन पद आराधन विधि ॥

प्रथम प्रभात समय उठ कर सामायिक लेवे । कुसुम दुसुम राई विसोह नार्थ चार लोगस्तका काउस्तग करे । प्रगट लोगस्त कहे । फिर खमासमण देकर इच्छा कारेण संदिसह भगवन् श्रीसम्यग् दर्शन पद आराधनार्थ करेमि काउस्तग, अन्नत्थ कहकर । सडसठ (६७) लोगस्तका काउस्तग करे । पारकर प्रगट लोगस्त कहे । फिर सामायिक दूसरी लेवे । ॐ ह्रीं नमो दंसणस्त । इस पदकी बीस माला फरे । सामायिक पूरी हुईहोतोतीसरीसामायिकलेवे । राई प्रतिक्रमण करे । आंविलका पञ्चखाण

करे । देववांदन करे । फिर उठकर शुचि होवे, शुद्ध होकर मंदिरमें जावे । वहां जाकर पूर्वोक्त पूजा करे । वासक्षेप पूजा करे । तथा सम्यग् दर्शन पद तपकी पूजा करे । और अष्ट प्रकारी पूजा करे । ओरती करे । पच्चक्खाण करे । और ६७ सडसठ फेरी करे । ६७जयती करे । श्रीसम्यग् दर्शन पदका चैत्यवंदन स्तवन थुईं कहे । दोपहरका देववांदन करे । फिर घर जाकर पच्चक्खाण पारकर चावलका आंबिल करे । गरम पानी पीवे । पाणहारका तिविहार पच्चक्खाण करे । फिर संध्या देववांदन करे । देवसि प्रतिक्रमण करे । सञ्ज्ञाय ध्यान करे ॥ इति ॥ षष्ठम दिवस श्रीसम्यग् दर्शन पद तप विधि संपूर्णम् ॥

॥ अथ सम्यग् ज्ञान पद
आराधने की विधि ॥

प्रथम प्रभात समय उठ कर सामायिक

लेवे । कुसुम दुसुम राई विसोह नार्थ^१
 चार लोगस्सका काउस्सग करे, प्रगट लोग-
 स्स कहे । फिर खमासमण देकर । इच्छा
 कारेण संदिसह भगवन् सत्तम ज्ञानपद
 आराधनार्थ^१ करेमि काउस्सगं अन्नत्थ
 कहकर इय्यावन ५१ लोगस्सका काउस्सग
 करे । पारकर प्रगट लोगस्स कहे । फिर
 सामायिक दूसरी लेवे । ३० ह्रीं नमोनाणस्स,
 इस पदकी वीस माला फेरे । सामायिक
 पूरी होगई हो तो तीसरी सामायिक लेवे ॥
 फिर राई प्रतिक्रमण करे । आंघिलका पच्च-
 क्खाण करे । देववांदन करे, फिर उठकर शुचि
 होवे । शुद्ध होकर मंदिरमें जावे । वहां जाकर
 पूवो क्त पूजा करे । तथा वासक्षेप पूजा करे ।
 श्री सम्यग् ज्ञान पदकी पूजा करे ।
 अष्ट प्रकारी पूजा करे, आरती करे,
 पच्चक्खाण करे । इय्यावन ५१ फेरी डेवे ।

५१ जयती करे तथा श्रीसम्यग् ज्ञान पदका चैत्य
 वंदन, स्तवन् थुई कहे । दोपहरका देव वंदन
 करे । घर जाकर पञ्चक्खाण पारे । पारकर
 चावलको आंविल करे । गरम पानी पीवे ।
 फिर पाणहार, तिविहार पञ्चक्खाण करे ।
 संध्यादेव वंदन करे । देवसि प्रतिक्रमण
 करे सज्झाय ध्यान करे ॥ इति ॥ सप्तम
 श्रीसम्यग् ज्ञान पद तप सम्पूर्णम् ॥

॥ सम्यग् चारित्र पद आराधन विधि ॥

प्रथम प्रभात समय उठ कर सामायिक
 लेवे । कुसुम दुसुम राई विसोह नार्थ
 चार लोगस्सकाकाउसग्ग करे, प्रगट लोगस्स
 कहे । फिर खमासमण देकर इच्छा कारेण
 संदिसह भगवन् अष्टम श्रीसम्यग् चारित्र पद
 आराधनार्थ करेमि काउस्सग्गं अन्नत्थ । कह

कर सत्तर ७० लोगस्सका काउसग्ग करे ।
 पारकर प्रगट लोगस्स कहे । सामायिक
 दूसरी लेवे । ॐ ह्रीं नमो चारित्तस्स । इस
 पदकी बीस माला फेरें । सामायिक पूरी होगई
 हो तो तीसरी सामायिक लेवे । फिर राई
 प्रतिक्रमण करे । आंबिलका पञ्चक्खाण करे,
 देववन्द करे । फिर उठकर शुचि हो । शुद्ध
 होकर मंदिरमें जावे । वहां जाकर पूर्वोक्त
 पूजा करे तथा वासक्षेप पूजा करे । और
 साम्यग् चारित्र्यपदकी पंचामृतपूजा करे । तथा
 अष्टप्रकारी पूजा करे, आरतीकरे । पञ्चक्खाण
 करे । सत्तर ७० फेरी देवे । ७० जयती करे ।
 साम्यग् चारित्र्य पदका चैत्य वंदन, स्तवन धुई
 कहे, दोपहरका देववन्दन करे । घर जाकर
 पञ्चक्खाण पारे । पारकर चावलका आंबिल
 करे । गरमपानी पीवे । फिर पाणहार तिविहार
 पञ्चक्खाण करे । सध्या देववन्दन करे । घादमें

देवसि प्रतिक्रमण करे । फिर सञ्ज्ञाय ध्यान करे ॥ इति अष्टम श्री सम्यग् चारत्र पद विधि ॥ सम्पूर्णम् ॥

॥ अथ नवम श्री तप पद आराधने की विधि ॥

प्रथम प्रभात समय उठ कर सामायिक लेवे । कुसुम दुसुम राई विसोह नार्थ चार लोगस्सका काउस्सग करे । प्रगट लोगस्स कहे । फिर खमांसमण देकर । इच्छा कारेण संदिसह भगवन् श्रीतप पद आराधनार्थ करेमि काउस्सगं कहकर, प्रगट लोगस्स कहे । खमांसमण देकर । इच्छा कारेण संदिसह भगवन् । श्रीनवम तप पद आराधनार्थ करेमि काउस्सगं अन्नत्थ । कहकर पचास ५० लोगस्सका काउस्सग करे । पारकर प्रगट लोगस्स कहे । फिर सामायिक दूसरी लेवे । बाद ३०

हां नमो तवस्त । इस पदकी बीस माला करे । फिर रोई प्रतिक्रमण करे । आंविलका पञ्चमखाण करे, देववन्दन करे । चाद उठ कर शुचि हो शुद्ध होकर मंदिरमें जावे । वहां जाकर पूर्वोक्त पूजा करे, वासक्षेप पूजा करे तथा श्री नवम तप पदकी पञ्चामृतपूजा करे । अष्टप्रकारी पूजाकरे, आरती करे । पञ्चमखाण करे । पचास ५० फेरी करे । ५०जयती करे, तप पदका चैत्य वन्दन, स्तवन थुई कहे । दोप-हरको देववन्दन करे । घर जाकर पञ्चमखाण पारे । पारकर चावलका आंचिल करे । गरम पानी पीवे । फिर पाणहार त्रिविहार पञ्चमखाण करके मंदिरमें जावे, मंदरजीमें पूजा करे, नवपदजीकी पूजा करे और आरती करे, सध्या देववन्दन करे, घर जाकर देवमि प्रतिक्रमण करे । फिर सञ्ज्ञाय ध्यान करे ॥इति नवम तप पद विधि समाप्तम् ।

॥ दशम दिन ॥

सवेरे उठे सामायिक लेवे, श्रीसिद्ध चक्र आराधनार्थ करेमि काउस्सगंग अन्नतथ कहकर नव लोगस्सका काउस्सगंग करे । ॐ ह्रीं श्री सिद्ध चक्राय नमः, इस पदकी ९ नव माला फरे । प्रतिक्रमण करे । फिर गुरु महाराजके पास जाकर ओली तप विधि सहित पारे । यथा शक्ति पच्चक्खाण करे ॥ इति ॥

अथ देव चंदजी कृत स्नात्र पूजा

ढाल पहली

चौतीस अतिसय जुओ । वच नातिसय संयुत्त ॥ सो परमेश्वर देखि भवि सिंहासन संपत्त ॥ १ ॥ ढाल ॥ सिंहासन बैठा जग भान । देखी भविजन गुण मणि खान ॥ जे दीठे तुझ निम्मल झाण । लहिये परम महोदय

ठाण कुसुमांजलि मेलो श्रीआदि जिणंदा तोरा ।
 चरण कमल सेवे चौसठ इंदा ॥ कु० ॥ तोरा
 चरण कमल चौवीस पूजोरे चौवीस ससोभागी
 चौवीस सवैरागी चौवीस सजिनन्दा कुसुमांजलि
 मेलोआदि जिनन्दा ओ ह्रीं परमात्मने अनंतानं
 तज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय
 श्रीमहादिजितेन्द्राय - कुसुमांजलि यजामहे
 स्वाहाः ॥ १ ॥ ऐसा कह कुसुमांजलि चढ़ावे
 और प्रभुके चरणे टीकी दे ।

दूसरी पूजा

दो० जो नियगुण पञ्चवरम्यो । तमु अनुभव
 एगत्त ॥ सुह पुग्गल आरोपतां । जो तिसु रग
 निरत्त ॥ २ ॥

ढाल ॥ २ ॥ जो निज आतम गुण आणंटी ।
 पुग्गल सगे जेह अफंटी ॥ जे परमेस्वर निज
 पढ लीन । पूजो प्रणमो भव्य अदीन ॥ कुसु-
 मांजलि मेलो श्रीशान्ति जिणंदा ॥ तो० ओं

हीं इत्यादि ॥ कु० ॥ २ ॥ प्रभुके गोड़े टीकी
दीजिये ।

तृतीय पूजा

दो० निम्मल नाण पयास कर । निम्मल गुण
सम्पन्न ॥ निम्मल धस्सु वएस कर । सो पर
सम्पाधन्न ॥ ढाल ॥ ३ ॥ लोकालोकप्रकाशकनाणी ।
भविजन तारण जेहनिवाणी ॥ परमानंद तणी
निसाणी । तसु भगतें सुज सति ठहरानी ॥
कुसुमांजलि मेलो श्रीनेम जिणंदा ॥ तो० ॥
कु० ॥ ओं हीं ऐसा कह प्रभुके दोनों हाथों
की पूजा करिए ।

चतुर्थ पूजा

दो० जे सिज्झा सिज्झंति जे ।
सिज्झ स्संति अणंत ॥ जसु आलंबत
ठवियमन । सो सेवो अरिहंत ॥ ढाल ॥ ४ ॥
शिव सुख कारण जेह त्रिकालें । सम परिणामे
जगत निहालें ॥ उत्तम साधन मार्ग देखाले ।

इन्द्रादिक जसु चरण पखाले ॥ कुसुमांजलि
मेलो श्रीपास जिणंदा ॥ तो० ॥ कु० ॥ ओ ह्रीं
ऐसाकह प्रभुके खधे पूजा करिये ।

पंचम पूजा

दो० समदीष्टी देश जय । साहु साहुणी सार ॥
आचरज उवज्झायमुणि । जोनिम्मल आधार ॥
ढाल ॥ ५ ॥ घोवीह सधे जे मन धारथो मोक्ष
तणो कारण निरधारथो ॥ विविह कुसुम वर
जोतिगहेवी । तसु चरणे प्रण मत ठवेवी ॥
कुसुमाजलि मेलो श्रीवीर जिणदा ॥ तो० ॥
ओं ह्रीं परमात्मने इत्यादि ऐसा उपरोक्त
कह प्रभुके मस्तककी पूजा करे ॥ इति ॥

॥ वस्तु छंद ॥

यहांसे चवर लेवे

सयल जिनवर सयल जिनवर । नमिय मन
रंग । कल्लाणक विहि संठणिय ॥ करि सुध-
म्म सुपणित्त ॥ सुन्दर सय डक सत्तरि तित्तं

कर ॥ एक समय विहरंति महियल । चवण
समय इगवीस जिण जम्म समय इगवीस ॥
भत्तिय भावे पूजियो करो संघ सुजगीस ॥१॥

॥ ढाल दूसरी ॥

भव त्रीजे समकित गुण रम्या । जिन
भक्ति प्रमुख गुण परणम्या ॥ तजि इन्द्रिय
सुख आसंसना । करी थानक वीशनी सेवना
॥ १ ॥ अति राग प्रसस्त प्रभावता । मन
भावना एहवी भावता ॥ सविजीव करूं सा-
सन रसी । ऐसी भाव दया मन उल्लसी ॥
२ ॥ लहि परिणाम एहवुं भलूं । निपजावी
निज पद निर्मलूं ॥ आयु बंधे विचे एक भव
करी । श्रद्धा संवेग ते थिर धरी ॥ ३ ॥ त्यांथी
घविह लहे नर भव उदार । भरते तिम ऐर
व तेज सारे ॥ महा विदेह विजय परधान ।
मध्य खंडे अव तरे जिन निधान ॥ ४ ॥

॥ सुपनोंकी ढाल तीसरी ॥

पुण्ये सुपनह देखें । मन मांहे हर्ष विशेषें ॥

गज वर उज्वल सुन्दर । निर्मल वृषभ मनोहर

॥ १ ॥ निर्भय केशरी सिंह । लक्ष्मी अतिहि

अवीह ॥ अनुपम फूरुनी माल । निर्मल शशि

सुकमाल ॥ २ ॥ तेज तरण अति दीपे । इन्द्र

ध्वजा जग झीपे ॥ पूरन कलस पंडूर । पद्म

सरोवर पूर ॥ ३ ॥ इग्यारमे रयणायर । देखें

माताजी गुण सायर ॥ चारमें भुवन विमान ।

तेरम रत्न निधान ॥४॥ अग्नि शिखा निरधूम ।

देखे मांवाजी अनुपम हरपे रायने भाखें । राजा

अरथ प्रकाशे ॥ ५ ॥ जगपति जिनवर सुख

कर । होसे पुत्र मनोहर ॥ इन्द्रोदिक जस

नमसे । शकल मनोरथ फलसे ॥ ६ ॥

वस्तु ॥ पुण्ण उदय पुण्ण उदय उपना

जिननाह । माता तव रयणीसमें । देखि सुपन

हरयांति जागीय । सुपन कही निज कंत ने ।

सुपन अरथ सांभलो सोभागी । त्रिभुवन तिलक महा गुणी । होशे पुत्र निधान ॥ इन्द्रादिक जसु पय नमी । करशे शिद्ध विधान ॥१॥

॥ ढाल चौथी ॥

सोहम पति आसन कंपिओ । देइ अवधि सन आणंदियो ॥ निज आतम निर्मल करण काज । भवजल तारण प्रगड्यो जहाज ॥ १ ॥ भव अडवी पारग सत्यवाह । केवल नाणाइय गुण अगाह ॥ शिव साधन गुण अंकूर जेह । कारण उलड्यो आसाढि मेह ॥ २ ॥ हरखे विकसी तव रोम राय । वलयादिक मां निज तनु न माय ॥ सिंहासन थी उड्यो सुरिंद । प्रण संतो जिनआनंद कंद ॥ ३ ॥ सग अडपय पमुहा आविततथ । करि अंजलि प्रणमीय मत्थ सत्थ ॥ मुख भाखे एक्षण आज सार । तीय लोय पहू दीठो उदार ॥ ४ ॥ रे रे निहुणो सुर लोय देव । विषयानल तापित तुम समेव ॥

तसु शान्ति करण जलधर समान । मिथ्या
 विष चूरण गरुड वान ॥ ५ ॥ ते देव सकल
 तारण समत्थ । प्रगद्यो तसु प्रणामी हुवो स-
 नत्थ ॥ एम जपी शक्रस्तव करेवि । तव देवदेवि
 हरखे सुणेवि ॥ ६ ॥ गावे तव रंभा गीत गान
 सुरलोक हुवो मंगल निधान ॥ नरक्षेत्रे आरज
 वंस ठाम । जिन राज वधे सुर हरप धाम
 ॥ ७ ॥ पिता माता घरे उच्छव अशेष । जिन
 सासन मंगल अति विशेष ॥ सुर पति देवो
 दिक हरप संग । संयम अर्थी जनने उमंग
 ॥ ८ ॥ शुभ वंला लगने तीर्थ नाथ । जनस्या
 इन्द्रादिक हरप साथ ॥ सुख पास्या त्रिभुवन
 सर्व जीव । वधाई वधाई थड अतीव ॥ ९ ॥
 ऐसा धोलके कुसुमांजलिसे प्रभुप्रतिमाकोवधायै
 फेर तीन प्रदक्षिणा देकर प्रभुप्रतिमाके सन्मुख
 शक्रस्तव कह कर हाथमें रोलीका स्वस्तिककरे
 और मौली बांधे । यहांसे घबर रख देना ।

॥ ढाल पांचमी ॥

श्रीतीर्थ पतिनो कलश मञ्जन । गाइए
 सुख कार ॥ नरेखित्त मंडण दुह विहंडण ।
 भविक मन आधार ॥ तिहां राव राणा हर्ष
 उच्छव । थयोजग जयकार ॥ दिशि कुमरि
 अवधि विशेष जाणि । लह्यो हर्ष अपार ॥१॥
 निय अमर अमरी संग कुमरी । गावती गुण
 छंद ॥ जिन जननिपासें आदि पोहोती । गह
 गहती आणंद ॥ हे मायते जिन राज जायो ।
 शुचिवधायो रम्म ॥ अम जम्म निम्मल करेण
 कारण । करिश सूई कम्म ॥ २ ॥ यहां अंग
 लूहणसे भूमि शुद्ध करे फिर भगवानको दर्प
 न दिखावे इसके बाद पंखा करे फिर भगवान
 को मौली बांधे । तिहां भूमि शोधन दीप
 दर्पण । वाय व्यंजन धार ॥ तिहां करिय क-
 दली गेह जिनवर । जननि मञ्जन कार ॥ यहाँ
 मौलि भगवानके हाथ पर चढ़ावे । वर राखड़ी

जिन पाणि बांधी । दीए एम आशीश ॥
जुग कोड़ि कोड़ी चिरंजीवो । धर्म दायक
ईश ॥ ३ ॥

॥ ढाल छट्टी ॥

जग नायकजी त्रिभुवन जन हितकारण ।
परमात्मजी चिदानन्द धन सारण ॥ जिन रथ
णीजी । दश दिशि उज्वलता धरे ॥ शुभलगने
जी । ज्योतिष चक्रते सधरे ॥ जिन जन्म्याजी
जिन अवसर माता धरे ॥ तिण अवसरजी ।
इन्द्रासन पण धर हरे ॥ (त्रुटक) धर हरे आ-
सन इन्द्र चिते । कौन अवसर ए बन्यो ।
जिन जन्म उत्सव काल जाणी । अतिहि आ-
नन्द ऊपन्यो ॥ निज सिद्धि सपति हेत जिन
वर । जाणि भगते ऊमद्यो । विक संत वदन
प्रमोद वधते । देव नायक गह गद्यो ॥ १ ॥
यहां पर स्नात्रियोंको मिलकर घन्टा अवश्य
बजाना चाहिये । ढाल तब सुर पति

जी । घंटानाद करावए ॥ सुर लोके
 जी । घोषणा एह देवरावए ॥ नर
 क्षेत्रेजी । जिनवर जन्म हुआ अछे ॥ तसु
 भगतें जी । सुरपति मंदिर गिरिगछे ॥ (त्रुटक)
 गछे मंदिर शिखर ऊपर । भुवन जीवन जिन
 तणो ॥ जिन जन्म उत्सव करण कारण ।
 आवजो सबि सुर गणो ॥ तुम शुद्ध समकित
 थारो निर्मल । देवोधिदेव निहालतां ॥ आपणा
 पातिक सर्व जाशे । नाथ चरण पखालतां ॥२॥
 (हाल) एम सांभलिजी । सुर वर कोडि बहू
 मिली ॥ जिन वंदन जी । मंदिर गिरि साहमी
 चली ॥ सो हम पति जी । जिन जननी घर
 आविया ॥ जिन माता जी । वंदे स्वामि व-
 धाविया ॥ यहां कुसुम अंजलिमें लेकर प्रतिमा
 जीको वधावे और निम्न पाठ बोले वधा-
 विया जिन वर हर्ष बहुलें । धन्य हुं कृत पु-
 न्नए ॥ त्रैलोक्य नाथक देव दीठो । मुजसमो

कुण अन्नए ॥ हे जगत जननी पुत्र तुम चोत ।
 मेरु मज्जन वर करी ॥ उत्सग तुम चैव लिय
 थापिश । आत्मा पुण्ये भरी ॥ ३ ॥ (ढाल)
 सुर नायरु जी । जिन निज कर कमलें ठव्या ॥
 पंच रूपें जी । अतिशय महिमाय स्तव्या ॥
 यहां पर स्नात्रियें प्रतिमा जी के सन्मुख
 डकट्टे होकर नाटक करें । नाटक
 विधि जी । तत्र घत्तीश आगल वहे ॥
 सुर कोड़ीजो । जिनदर्शनने ऊमहे ॥ (त्रूटक)
 सुर कोड़ि कोड़ी नाचती वलि । नाथ सच्चि
 गुण गावती ॥ अपसरा कोड़ी हाथ जोड़ी ।
 हाव भाव दिखावती ॥ जय जयो तू जिनराज
 जग गुरु । एम ठे आशीश ए ॥ अम्ह त्राण
 सरण आधार जीवन । एक तू जगदीश ए ॥
 ४ ॥ [ढाल] सुर गिरि वर जी । पांडुक वनमें
 चिहु दिशे ॥ गिरि गिल पर जी । सिंहासन
 सासय वसे ॥ तिहां आंणी जी ॥ शक्रें जिन

खोलें ग्रह्यां ॥ चौसठें जी । तिहां सुर पति
 आवी रह्यां ॥ त्रूटक—आविया सुरपति सर्व
 भगते । कलश श्रेणि वणावए ॥ सिद्धार्थ
 पमुहा तीर्थ औषधि । सर्व वस्तु अणावए ॥
 अच्चु अपति तिहां हुकुम कीनो । देव कोड़ा
 कोड़िने ॥ जित मज्जनारथ नीर लावो ।
 सवे सुर कर जोड़िने ॥ ५ ॥

॥ ढाल सातमी ॥

यहांसे स्नात्रिये सब हाथमें कलश
 पंचामृत दूध दही घृत मिसरी केशर उपरोक्त
 पांच चीजें जलके साथ मिलाकर छन्नेसे छान
 कलशमें भर लेकर खड़े हों और बोले
 ढाल आत्म साधन रसी देव कोड़ी हंसी ।
 उल्लसीने धसी क्षीर सागर दिशी ॥ पउमदह
 आदिदह गंग पमुहानई । तीर्थ जल अमल लेवा
 भणी तेगई ॥ १ ॥ जाति अड़ कलश करि
 सहस अट्टोत्तरा । छत्र चामर सिंहासणे सुभ

तरा ॥ उपग, रण पुष्प चगेरि पमूहा सवे ।
 आगमे भासिया तेम आणी ठवे ॥ २ ॥ तीर्थ
 जल भरिय कर कलश करि देवता । गावता
 भावता धर्म उन्नतिरता ॥ तिरिय नर अमरने
 हर्ष उपजावता । धन्य अम्ह शक्ति सूचि भक्ति
 इमभावता ॥ ३ ॥ समकिते, वीज निज आत्म
 आरोपतां । कलस, पाणी मिसे भक्ति जल सी-
 चतां ॥ मेरु सिहरोवरे सर्व आठ-ा वही । शक्र
 उच्छंग जिन देखि मन गह गही ॥४॥ (वस्तु)
 रह -हो देवा अणाडकालो अदिट्ट, पुव्वो ।
 तिलोय तारणो तिलोयवधु मिच्छत मोह विद्धं
 सणो ॥ अणाडे तिण्ह विणा सणो देवाहि
 देवो दिट्टवोहिय २कामेहिं ॥५॥ ढाल उपरोक्त
 एम पभणंत वण भवण जो ईशरा । देव वे
 माणियाभक्ति धम्मायरा ॥ केवि कप्पट्टियाके
 विमित्ताणुगा ॥ केवि वरं, रमणि वपणेण अई
 उच्छगा ॥६॥ (वस्तु) तच्छ अच्चुय तच्छ

अच्युय इन्द्रआदेश ॥ करजोड़ी सवि देव गण ।
 लैय कलश आदेश पामिय अदभुत रूप सरूप
 जुअ । कवण एह पुच्छंत सांमिय ॥ इंद्र कहे
 जग तारणो । पारग अस परमेस ॥ नायक
 दायक धम्म निहि । करिए तसु अभिसेस ॥१॥

॥ इति ॥

यहां प्रतिमाजी पर पंचामृत चढ़ाना

॥ ढाल आठमी ॥

पूरण कलश सुचि उदकनि धारा । जिन
 वर अंगे नामे ॥ आतम निर्मल भाव करंतां ।
 वधते शुभ परिणामें ॥ अच्युतादिक सुरपति
 मज्जन । लोक पाल लोकंत ॥ सामानिक
 इन्द्राणी वसुहा । एमअभिषेक करंत ॥ १ ॥
 [गाहा] तव ईसाण सुरिंदो ॥ सकं पभणेई
 करई सुप साओ ॥ तुम अंके मह नाहो ॥
 खिण मित्तं अम्ह अप्पेह ॥ २ ॥ ता सकिंदो
 पभणेई ॥ साहमी वच्छलंमि बहु लाहो ॥

आणा एवं तेणं ॥ गिन्हेंवोउकयच्छावो ॥३॥
 ढाल उपरोक्तसोहम सुरपति, वृषभरूप करि ॥
 न्हवण करं प्रभु अंग ॥ करिय विलेपण पुष्प
 मालठवि ॥ वर आभरण अभंग ॥ ४ ॥ तव
 सुर वर बहु जय जय रव करि ॥ निश्चय धरि
 आणंद ॥ मोक्ष मार्ग सारथ पति पास्यो ॥
 भांजसुं हवे भव फट ॥ ५ ॥ यहां पर फोड़ि
 वत्तीसेके बोलनेसे पहले निछरावलके लिये
 रोकना एग हाथमें लेकर निछावर प्रतिमा
 पर करता हुआ बोले कोड़ि वत्तीसे
 सोवण उवारी ॥ वाजते वर नादे ॥ सुरपति
 सध अमर श्री प्रभुने ॥ जननी नें सुप्रसादे
 ॥ ६ ॥ आपी थापी एम पयपे ॥ अम निस्न-
 रिया आज ॥ पुत्रतुमारो घणीय हमारो ॥
 तारण तरण जहाज ॥ ७ ॥ मात जतन करि
 राख जो पहने ॥ तुम सुन एम आधार ॥
 सुरपति भगति महिन नंदीसर ॥ करे जिन

भक्ति उदार ॥ ८ ॥ निय निय कप्प गया सवि
 निर्जर ॥ कहेतां प्रभु गुण सार ॥ दीक्षा के-
 वल ज्ञान कल्याणक ॥ इच्छा चित्त मझार ॥
 ९ ॥ खर तर गच्छ जिन आणा रंगी ॥ राज
 सागर उवझाय ॥ ज्ञान धर्म दीप चंद सुपाठक
 सुगुरु तणे सुप साय ॥ १० ॥ देव चन्द्र जिन
 भक्ते गायो ॥ जन्म महोत्सव छंद ॥ बोध
 बीज अंकूरो उलश्यो ॥ संघ सकल आनंद
 (सो०) ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ कलश राग वेलाउल ॥

इम पूजा भगते करो । आतम हित
 काज ॥ तजिय विभाव निज भावमें । रमता
 शिव राज ॥ इम० ॥ १ ॥ काल अनंते जे
 हुआ । होशे जेह अनन्त ॥ संपय सीमंधर
 प्रभु । केवल नाण दिणंद ॥ इम० ॥ २ ॥
 जन्म महोत्सव एणी परे । श्रावक रुचि वंत ॥
 विरचे जिन प्रतीमा तणो । अनुमोदन खांत

॥ इम० ॥ ३ ॥ देव चन्द्र जिन पूजना । क-
 रतां भवपार ॥ जिन पढ़िमा जिन सोरखी ।
 कही सूत्र मझार ॥ इम० ॥ ४ ॥ इति ॥
 (यहांपर सर्व स्नात्रिया मिलकर जलके कलश
 प्रभुके अंग ऊपर ढाले ॥ 'यदिकिसी स्थान पर
 प्रतिमांजीमें केशर लगी रह गई हो तो खस
 खूंचीसे साफ करले और फिर जल ढाले
 वादमें तीन अगलहण करे । पीछे जिन प्रतिमा
 के नव अंगकी पूजा करता हुआ निम्न लिखित
 दोहे बोले ॥)

॥ अथ जिन नव अंग पूजा ॥

॥ घरण पूजा ॥ १ ॥

जल भरि सपुट पत्रमां । युगलिक नर
 पूजंत ॥ रिपभ घरण अगृठडे । दायक भव
 जल अंत ॥ १ ॥

॥ जानु पूजा ॥ २ ॥

जानु बले काउसग्ग रह्या । विचरया देश

विदेश ॥ खड़ा खड़ा केवल लह्यूं । पूजो जानु
नरेश ॥ २ ॥

॥ दोनों हाथोंकी पूजा ॥ ३ ॥

लोकांतिक वचने करी । वरश्या वरशी
दान ॥ कर कंडे प्रभु पूजना । पूजो भवि बहु-
मान ॥ ३ ॥

॥ दोनों भुजाओंकी पूजा ॥ ४ ॥

मान गयूं दोय अंस थी । देखी वीर्य अनंत ॥
भुजा वले भव जल तरया । पूजो खंध महंत
॥ ४ ॥

॥ मस्तक पूजा ॥ ५ ॥

सिद्ध शिला कुण ऊजली । लोकांते भग-
वंत वसिया तिण कारण भवि । शिर शिखा
पूजंत ॥ ५ ॥

॥ अथ ललाट पूजा ॥ ६ ॥

तीर्थङ्कर पद पुन्य थी । तिहुं अण जन

सेवंत ॥ त्रिभुवन तिलक समाप्रभु । भाल तिलक जय वंत ॥ ६ ॥

॥ कंठ पूजा ॥ ७ ॥

सोल पहोर प्रभु देशना । कंठ विवर वर्तल ॥ मधुर ध्वनि सुरं नरसुणे । तिम गले तिलक अमूल ॥ ७ ॥

॥ हृदय पूजा ॥ ८ ॥

हृदय कमल उपशम वले । वाल्या रागने शेष ॥ हिम दहे वन खाडने । हृदय तिलक सतोय ॥ ८ ॥

॥ नाभि पूजा ॥ ९ ॥

रत्नत्रयी गुण ऊजली । कलश सुगुण विश्राम ॥ नाभि कमलनी पूर्जना । करता अविषल धाम ॥ ९ ॥

उपदेशक नव तत्वना । तेणे नव अग जिणंद ॥ पूजो बहु विधि रोग थी । कहे शुभ वीर मुर्णंद ॥ १० ॥ इति ॥

॥ अथ सिद्ध चक्रजीकी वास क्षेप पूजा ॥

॥१॥ श्री अरिहंत पद पूजा ।

परम मंत्र प्रणमी करी । तास धरी उर
ध्यान ॥ अरिहंत पद पूजा करो निज निज
शक्ति प्रमाण ॥ १ ॥

(कोव्य) जियंत रंगारि गणेशुनाणे सपाडि
हेराइ सयप्पहाणे ॥ संदेह संदोह रयं हरंते
झाहेह निच्चंपि जिणे रिहंते ॥ १ ॥ उप्पन्न
सन्नाण महो मयाणं । सप्पाडि हेरा सण सट्ठि
याणं ॥ सद्देसणाणं दिप सज्जणाणं । णमो
णमो होउ सया जिणाणं ॥ १ ॥ नमो नंत
संत प्रमोद प्रधानं । प्रधानाय भव्यात्मने भास्व
त्ताय ॥ थया जेहना ध्यान थी सौख्य भाजा ।
सदा सिद्ध चक्राय । श्री पाल राजा ॥ २ ॥
करथा कम्म दुर्मम्म चकचूर जेणें । भला भव्य

नव पद ध्यानेन तेणें ॥ करी पूजना भव्य भावें
 त्रिकालें । सदा वासियो आतमा तेण कालें
 ॥ ३ ॥ जिके तीर्थकर कर्म उदये करीने । दिये
 देशना भव्यने हित धरीने ॥ सदा आठ महा
 पाडिहारे समेता । सुरेशें नरेशें स्तव्या ब्रम्ह
 पूता ॥ ४ ॥ करचा घातिया कर्म चारे अल-
 ग्गा । भवोपग्रही चार छे जे विलग्गा ॥ जगत
 पच कल्याण के सौख्य पामें । नमो तेह तीर्थ
 दूरा मोक्ष गामें ॥ ५ ॥

(ढाल) तीरथ पति अरिहानमूं । धरम धुरं-
 धर धीरोजी ॥ देशना अमृत वरसता । निज
 वीरज वड़वीरोजी ॥

(उल्लालो) वर अखय निरमल ज्ञान भासन
 सर्व भाव प्रकाशता । निज शुद्ध श्रद्धा आत्म
 भावे चरण थिरता वासता । निज नाम कर्म
 प्रभाव अतिशय प्रातिहारज सोभता । जगजन्तु
 करुणावत भगवत भविक जननें थोभता ॥

ॐ ह्रीं परमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये ।
 जन्म जरा मृत्यु निवारणाय । श्रीमत सिद्ध
 चक्राय श्रीअरिहंत पदे भ्योवासक्षेपं यजामहे
 स्वाहाः ॥ १ ॥ यहाँ पर प्रतिमाजीके चरणों
 पर या सिद्ध चक्रजीके गद्दे पर वासक्षेप नौ
 पूजामें चढ़ानां चाहिये ।

॥ श्री सिद्ध पदकी पूजा ॥

॥२॥(दो०) दूजी पूजा सिद्धकी । कीजे दिल
 खुसियाल ॥ अशुभ करम दूरे टले । फले
 मनोरथ साल ॥

(काव्य) दुष्टदुष्ट कश्मा वरणप्य मुक्ते । अणंत
 नाणाइ सिरि चउक्ते ॥ समग्ग लोग्ग पयप्य
 सिद्धे झाएह निच्चंपि समस्ति सिद्धे ॥ २ ॥
 सकल करम मलक्षय करी । पूरण शुद्ध स्व-
 रूपोजी । अव्या बाध प्रभुता मयी । आतम
 संपति भूपोजी ।

॥ (उल्लालो) जे भूप आत्म सहज सपति
 शक्ति व्यक्ति प्रणें करी । स्वद्रव्य क्षेत्र स्वकाल
 भावे गुण अनता आदरी । स्व स्वभाव गुण
 पर्याय परिणति सिद्ध साधन पर भणी । मुनि
 राज मन सर हस सम वड़ नमो सिद्ध महा-
 गुणी ॥ ३० ॥ ह्रीं परमात्मने अनतानत ज्ञान
 शक्तये । जन्म जरा मृत्यु निवारणाय । श्रीमत्
 सिद्ध चक्राय सिद्ध पदेभ्यो वास क्षेपं यजा महे
 स्वाहाः ॥

॥ तृतीय आचारज पद पूजा ॥

॥३॥ (दो०) हिव आचारज पदतणी । पूजाकरो
 विशप ॥ मोह तिमिर दूरे हरे । सूझे भाव
 असेस ॥ १ ॥

(काव्य) नतं सुहृदेइ पिया न मायाजंदिति
 जीवाणि हसूरि पाया ॥ तम्हा हुते चैव सया
 महेह ज मुख सुखाइ लहु लहेह ॥ ३ ॥

ढाल आचारज मुनि पति गणी । गुण
छत्तीसे धामोजी । चिदानंद रस स्वादता ।
पर भावे निक्रामो जी ।

(उल्लालो) निक्राम निरमलशुद्ध चिदघन
साधु निज निरधार थी । वर ज्ञान दरक्षण
चरण वीरज साधना व्यापार थी । भवि जीव
बोधक तत्व शोधक सयल गुण संपति धरा ।
संवर समाधी गत उपाधी दुविध तप गुण
ओदरा ॥ ॐ ह्रीं परमात्मने अनंतानंत ज्ञान
शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमत्
सिद्ध चक्राय आचारज पदेभ्यो वासक्षोपं यजा
महे स्वाहाः ॥ इति ॥

॥ चतुर्थ उपाध्याय पद पूजा ॥

॥४॥(दो०) गुण अनेक जग जेहना । सुन्दर
सोभित गात्र ॥ उवज्ञाया पद अरविष्ये । अनु
भव रसनो पात्र ॥ १ ॥

(काव्य) सुत्तथ संवेग मयं सुएणं । संनीर
क्षीरा मय विस्सुएणं ॥ पीणांति जे ते उवझाय
राये । झाएह निच्चंपि कयप्पसाए ॥ २ ॥

(ढाल) खति जुआ मोर्ती जुआ । अज्जव
मइव जुत्ता जी ॥ सच्चं सोय अकिंघणा । तव
संजम गुण रत्ता जी ॥ १ ॥

(उल्ललो) जे रम्या ब्रम्ह सुगुत्ति गुत्ता ।
सुमति सुमता श्रुत्र धरा ॥ स्याद्वाट वादे
तत्व साधक । आत्म पर भवजन करा ॥ भव
भीरु साधन धीर शासन । वह न धोरी मुनि
घरा ॥ सिद्धांत वायण दोन समरथ । नमो
पाठरु पदधरा ॥ २ ॥ ॐ ह्रीं परमात्मने अन-
न्ना नंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवार-
णाय श्रीमत् सिद्ध चक्राय उपाशय पट्टेभ्यो
वासक्षेप यजामहे स्वाहाः ॥

॥ पांचमी साधु पद पूजा ॥

॥५॥(टो०)मोक्षमारग साधनभर्णा । मानधान

थया महे ॥ ते मुनिवर पद वंदतां । निरमल
थाये देह ॥

(काव्य) खंतेय दंतेय सुगुत्ति गुत्ते मुत्ते पसंते
गुण जोग जुत्ते ॥ गयप्प माए गय मोह माए
झाएह निच्चंपि मुणि राय पाए ॥ ५ ॥

(ढाल) सकल विषय विष वारिनें । निः
कामी निः संगी जी ॥ भवदव ताप समावतां ।
आतम साधन रंगी जी ॥१॥

(उल्लालो) जे रम्या शुद्ध स्वरूप रमणें ।
देह निर्मम निर्मदा ॥ काउस्सग्ग मुद्राधीर आ-
आसन । ध्यान अभ्यासी सदा ॥ तप तेजदीपे
कर्म झीपे । नैव छीपे पर भणी ॥ मुनिराज
करुणा सिंधु त्रिभुवन । वंधु प्रणमूं हित भणी
॥२॥ ॐ ह्रीं परमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये
जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमत् सिद्ध च-
क्राय साधु पदेभ्यो वासुक्षेपं यजामहे स्याहाः ॥

। छठी सम्यक्त्व दर्शन पद पूजा ॥

।६॥ (दो०) जिनवर भाषित शुद्ध नय । तत्त्व
तणी पर तीत ॥ ते सम्यग दर्शण सदा । आ-
दरिये सुभ रीत ॥

(काव्य) ज दव्व छक्काय सुसदहाणं । तं
दंसणं सव्व गुणप्प हाणं ॥ कुग्गाह वाही उव-
यंति जेण । जहा विसुद्धेण रसायणेण ॥६॥

(ढाल) सम्यग् दर्शन गुण नमो । तत्त्व
प्रतीत स्वरूपोजी ॥ जसुनिरधार स्वभाव छे ।
चेतन गुण जे अरूपी जी ॥१॥

(उल्लालो) जे अनूप श्रद्धा धर्म प्रगटे ।
सयल पर ईहा टले ॥ निज शुद्ध सत्ता भाव
प्रगटे अनुभव करुणाउच्छले ॥ बहु
मान परिणति वस्तुत्तर्वे । अहव तसु कारण
पणे ॥ निज साभ्य दृष्टे सर्व करणी । तत्त्वता
सपत्ति गणे ॥२॥ ॐ ह्रीं परमात्मने अनतानत
ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्री

मत सिद्ध चक्राय सम्यक्त्व दर्शन पदेभ्यो वास
क्षोपं यजामहे स्वाहाः ॥

॥ सप्तम सम्यग् ज्ञान पद पूजा ॥

॥७॥ (दो०) सप्तम पद श्री ज्ञान नो । सिद्ध
चक्र तप मांहि ॥ आराधी जे शुभमने । दिन
दिन अधिक उछाह ॥१॥

(काव्य) नाणं पहाणं नय सिद्ध चक्रं
तत्ताव बोहिक मयं प्रसिद्धं ॥ धरेह चिंतावसहे
फुरंतं माणिक दीवुव्व तमो हरंतं ॥७॥

(ढाल) भव्य नमो गुण ज्ञान ने । स्वपर
प्रकाशक भावे जी ॥ परयाय धर्म अनंतता ।
भेदा भेद स्वभावे जी ॥१॥

(उल्लालो) जे मुख्य परिणति सकल ज्ञा-
यक । बोध भाव विलक्षणा ॥ मति आदि पंच
प्रकार निर्मल । सिद्ध साधन लच्छना ॥ स्या-
द्धादसंगीतत्वरंगी । प्रथम भेदअभेदता ॥
सविकल्पने अवि कल्प वस्तु । सकल संशय

छेदता ॥२॥ ॐ ह्रीं परमात्मने अनंतानंत ज्ञानं
शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमत
सिद्ध चक्राय ज्ञान पदेभ्यो वासक्षेप यजा महे
स्वाहाः ॥

॥ अष्टम चारित्रि पद पूजा ॥

॥८॥ (दो०) अष्टम पद चारित्रि नो । पूजो
धरी उमेद ॥ पूजत अनुभव रस मिले । पातिक
होय उच्छेद ॥१॥

(काव्य) सुसं वरं, मोह निरोह सारं ।
पंचप्य यारं विगमा इयारं ॥ मूलो तण्णेय
गुणं पवित्तं । पालेह निच्चं पिहु सच्चरित्तं ॥८॥

(ढाल) चारित्रि गुण वलिवली नमूं । तत्त्व
रमण जसु मूलो जी ॥ पर रमणीय पणूं टले ।
सकल सिद्ध अनुकूलो जी ॥१॥

(उल्लालो प्रतिकूल आश्रव त्याग सयम ।
तत्त्व धिरता दममयी ॥ शुचि परम खंति मुनि
दश पद । पंच संवर उपचयी ॥ सामायिका

दिक भेद धर्मे यथा ख्याते पूर्णता ॥ अकषाय
 अकुलष अमल उज्वल । काम कश्मल चूर्णता
 ॥२॥ ॐ ह्रीं परमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये
 जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमत सिद्ध
 चक्राय अष्टम चारित्र पदेभ्यो वासक्षेपं यजा
 महे स्वाहाः ॥

॥ नवम तप पद पूजा ॥

॥९॥ (दो०) करम काष्ठ प्रति जालवा । पर-
 तिख अगनि समान । ते तप पद पूजो सदा ।
 निरमल धरिये ध्यान ॥९॥

(काव्य) वाह्यं तहाभितरे भेय मेयं । कयाइ
 दुब्भेय कुकम्म भेयं ॥ दुक्ख क्खयत्थं कय पाव
 नासं तवं तवेहा गमियं निरासं ॥ एयाइ जे के
 विनव प्पयाइ । आरा हयं तिह फलप्पयाइं
 लहंति ते सुक्ख परं पराणं सिरी सिरी पाल
 नरेस रुव्व ॥९॥

(ढाल) इच्छा रोधन तप नमो । वाह्य अ-
भ्यंतर भेदें जी ॥ आत्म सत्ता एकता । पर
परिणति उच्छेदें जी ॥१॥

(उल्लालो) उच्छेद कर्म अनादि संतति ।
जेह सिद्ध पणूं वर ॥ शुभ योग सग आहार
टाली । भाव अक्रियता करे ॥ अंतर मुहूरत
तत्त्व साधें । सर्व संवरता करी ॥ निज आत्म
सत्ता प्रगट भावें । करो तपगुण आदरी ॥२॥

(ढाल) इम नव पद गुण मंडल । चउनि
क्षेप प्रमाणें जी ॥ सात नयें जे आदरें । स-
म्पग् ज्ञानें जाणोजी ॥३॥

(उल्लालो) निर्द्धारिसेंती गुणीय गुणने ।
करे जे बहुमान ए ॥ जशु करण ईहा तत्त्व
रमणें । थाय निर्मल ध्यान ए ॥ एम शुद्धसत्ता
भल्यो चेतन । सकल सिद्धि अनुसरे ॥ अक्षय
अनत महत चिदधन । परम आनदतावरे ॥४॥

(कलश) इम सयल सुखकर गुण पुरंदर ।
 सिद्ध चक्र पदावली ॥ सवि लद्धि विजा सिद्धि
 मंदिर । भविक पूजो मन रली ॥ उवज्ञाय
 वर श्रीराज सागर । ज्ञान धर्म सुराजता ॥
 गुरु दीप चन्द्र सुचरण सेवक । देव चन्द्र सु-
 शोभता ॥१॥ ओं ह्रीं परमात्मने अनंता नंत
 ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्री
 मत् सिद्ध चक्राय नवम तप पदेभ्यो वासक्षेपं
 यजामहे स्वाहाः ॥ इति वास क्षेप पूजा
 ॥ सम्पूर्णम् ॥

॥ अथ श्रीनव पद सिद्ध चक्रजी
 की बडी पंचामृत पूजा ॥

नमोऽर्हत्सिद्धाचार्यो पाध्याय सर्व साधुभ्यः

(दो०) परमं मंत्र प्रणामी करी । तासधरी
 उर ध्यान ॥ अरिहंत पद पूजा करो । निज
 निज शक्ति प्रमाण ॥१॥

[काव्य] जियंति रागारि गणेशु नोणे स-
 प्पाड़ि हेराइ सयप्प हाणे ॥ संदेह संदोह रयं
 हरते । झाएह निच्चंपि जिणे रिहंते ॥ १ ॥
 उप्पन्न सन्नाण महो मयाणं । सप्पाड़ि हेरा
 सण संट्टियाणं ॥ सद्देसणा णंदिय सज्जणाणं
 नमो नमो होउ सया जिणाणं ॥२॥ नमो नत
 संत प्रमोद प्रदानं । प्रधानाय भव्यात्मने
 भास्वताय ॥ तथा जेहना ध्यान थी सौख्य
 भाजा । सदासिद्ध चक्राय श्रीपाल राजा ॥३॥
 करथा कर्म दुर्मर्म चकचूर जेणें । भला भव्य
 नव पद ध्यानेन तेणें ॥ करी पूजना भव्य भावे
 त्रिकाले । सदा वासियो आतमा तेण काले
 ॥४॥ जिंके तीर्थ कर कर्म उदये करीने । दिये
 देशना भव्यने हितधरी ने ॥ सदा आठ महा
 पाड़ि हारे समेता । सुरेसे नरेसे स्तव्या ब्रम्ह
 पूता ॥५॥ करथा घातिया कर्मच्यारे अलगा ।
 भवोप ग्रही च्यार छे जे विलगा ॥ जगत्पंच

कल्याणके सौख्य पामें । नमो तेह तीर्थ डूरा
सोक्ष कामें ॥ ६ ॥

[ढाल] तीरथ पति अरिहा नमूं । धरम
धुरंधर धीरोजी ॥ देशना अमृत वरसता ।
निज वीरज बड़वीरो जी ।

[उल्लालो] वर अखह निरमल ज्ञान भा-
सन सर्व भाव प्रकासता । निज शुद्ध श्रद्धा
आत्म भावे चरण थिरतो वासता । निज नाम
कर्म प्रभाव अतिशय प्राति हारज शोभता ।
जग जंतु करुणा वंत भगवंत भविक जननें थो-
भता ॥

[ढाल] श्रीसीमंधर साहिव आगे एदेशी ॥
त्रीजे भव वर थानक तप करि । जिन वांध्यूं
जिन नाम । चउसठ इन्द्रे पूजित जेजिन ।
कीजे तास प्रणामरे ॥

[भविका] सिद्ध चक्र पद वंदो । जिम
चिर काले अनंदोरे (भ०) उपशम रसनो कंदो

रे ॥ (भ०) रत्न त्रयीनो वृंदो रे ॥ (भ०) सेवे
सुर नर इंदो रे ॥ (भ० सिद्ध०) ॥१॥

(आंकणी) जेहणे होइ कल्हाणक दिवसे ।

नरके पिण अजु आलूं । सकल अधिम गुण
अतिशय धारी । जे जिननमी अघ टालूं रे ॥२॥

(भ०) जे तिहु नाण सम्मग उपपन्ना । भोग
करम क्षिण जाणी । लेइ दिक्षा शिक्षा दिय
जगनें । ते नमिये जिन नाणीरे ॥ (भ० सि०) ॥३॥

महा गोप महा माहण कहीये ॥ निरयामक
सत्यवाह । ओपमा एहवी जेहनें छाजे । जे
जिन नमियें उच्छाहरे ॥ (भ० सि०) ॥४॥ आठ

प्राति हाग्ज जसुछाजे । पेंत्रीस गुणयुतवाणी ।
जे प्रति बोध करे जग जननें । ते जिन नमियें
प्राणी रे ॥ भ० सि० जिम० चि० उ० र० से० ॥५॥

(ढाल) अरिहंत पद ध्यातो थको । दव्वह

गुण पर्याये रे । भेद छेद करि आतमा । अरि-
हंत रूपी थाये रे ॥ वीर जिणे सर उपदिसे ।

सांभल जो घितलाई रे ॥ आतम ध्याने आ-
 तमा । रिद्धि मिले सब आई रे ॥ वी० ॥ ३०
 ही परमात्मने अनंता नंत ज्ञान शक्तये । जन्म
 जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमत् सिद्ध चक्राय श्री
 अरिहंत पदेभ्यो पंचामृत सहित अष्ट द्रव्यं
 यजामहे स्वाहा ॥ इति ॥

॥ द्वितीय श्रीसिद्ध पद पूजा ॥

नमोऽर्हत्सिद्धाचार्यो पाध्याय सर्व साधुभ्यः

(दो०) दूजी पूजा सिद्ध की, कीजे दिल
 खुसियाल । अशुभ करम दूरे टले । फले मनो
 रथ माल ॥

(काव्य) बुद्ध कम्मा वरणप्य मुक्के ।
 अणंत नाणाइ सिरि चउक्के ॥ समग्ग लोग्ग
 पयप्य सिद्धे । ज्ञाएह निच्चंपि प्रणंमि सिद्धे
 ॥१॥ सिद्धाण माणंद रमालयाणं । नमो नमो
 णंत चउक्क पाणं ॥ समग्ग कम्मक्खय कार
 गाणं । जम्मं जरा दुक्ख निवार गाणं ॥ २ ॥

करी आठ कर्म क्षर्ये पार पाम्या । जरा जन्म
मरणादि भय जेण वांम्या ॥ निरा वरण जे
आत्म रूपे प्रसिद्धा । थया पारे पामी सदा
सिद्ध बुद्धा ॥३॥ त्रिभागो न देहा वगाहात्म
देशो । रह्यो ज्ञान मय जाति वर्णा दिलेशा ॥
सदा नद सौख्या श्रिता जोति रूपा । अना
वाध अपु नर्भवादि स्वरूपा ॥४॥

(ढाल) सकल करम मलदायकरी । पूरण
सुद्ध स्वरूपोजी ॥ अव्यावाध प्रभुता मई ।
आतम सपति भूपोजी ।

(उल्लालो) जे भूप आतम सहज संपति
शक्ति व्यक्ति पर्णे करी । स्वद्रव्य क्षेत्र स्वकाल
भावे गुण अनंता आदरी । स्व स्वभाव गुण
पर्याय परणति सिद्ध साधन परे भणी । मुनि-
राज मन सर हंस सम वड़ नमो सिद्ध महा
गुणी ॥

[ढाल] समय पये संतर अणकरसी । चरम

तिभाग विशेष ॥ अवगाहन लहीजे शिव पुहुता
 सिद्ध नमो ते असैस रे ॥ भ०सि० ॥१॥ पूर्व
 प्रयोगनें गति परिणामे । वंधन छेद असंग ।
 समय एक ऊरेध गति जेहनी । ते सिद्ध प्रणमो
 रंग रे ॥भ०सि०॥२॥ निरमल सिद्ध शिलाने
 ऊपरि । जोयण एक लोकंन । सादि अनंत
 तिहां थिति जेहनी । ते सिद्ध प्रणमो संत रे
 ॥भ०सि०॥३॥ जाणेपिण नसके कहि पुरगुण ।
 प्राकृत तिम गुण जास । ओपमा विण नाणी
 भवमांहे । तेसिद्ध दिओ उल्लासे ॥भ०सि०॥४॥
 ज्योति सूं ज्योति मिली जसु अनुपम । विरमी
 सकल उपाधि । आतम रामरमा पति समरो ।
 ते सिद्ध सहज समाधि रे ॥ भ० सि० ॥ ५॥

[ढाल] रूपा तीत स्वभाव जे । केवल
 दंसण नाणी रे । ते ध्याता निज आतमा ।
 होइं सिद्ध गुण खाणी रे ॥ वी० ॥१॥ ॐ ह्रीं
 परमात्मने अनंता नंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा

मृत्यु निवारणाय श्रीमत् सिद्ध चक्राय श्रीसिद्ध
पदेव्यो पंचामृत सहित अष्ट द्रव्यं यजामहे
स्वाहाः ॥ इति ॥

॥ तृतीय आचार्य पद पूजा ॥

नमोऽर्हत्सिद्धाचार्यो पाध्याय सर्व साधुभ्यः

हिव आचारज पदं तणी । पूजा करो

विशेष ॥ मोह तिमर दूरे हरे । सूझे भाव

असेस ॥

(काव्य) न त सुहं देइ पिया न माया जं
दिति जीवाणि हसूरि पाया ॥ तम्हा हु ते चेव
सया महेह जं सुक्ख सुक्खाइ लहु लहेह ॥१॥
सूरीण दूरी कय कुग्गहाणं । नमो नमो सूरि
सम प्पहाणं ॥ सद्दे सणा दाण समाय राणं ।
अखंड छत्तीस गुणाय राणं ॥२॥ नमूं सूरि
राजा सदा तत्व ताजा । जिनेन्द्रागमें प्रौढ़
सम्राज्य भाजा ॥ पट्त्वर्ग वर्गित गुणे शोभ
माना । पचा चारनें पालवे सावधाना ॥ ३ ॥

भवि प्राणिनें देशना देश काले । सदा अप्र
मत्ता यथा सूत्र आले ॥ जिके सासना धार
दिग्दंत कल्पा । जगत्ते चिरंजीव ज्यो शुद्ध
जल्या ॥४॥

(ढाल) आचारज मुनि पति गणी । गुण
छत्तीसे धामोजी ॥ चिदानंद रस स्वादता ।
पर भावे निकामो जी ॥

[उल्लालो]निकाम निरमल शुद्ध चिदधन
साध्य निज निरधार थी । वर ज्ञान दरशण
चरण वीरज साधना व्यापार थी ॥ भवि जीव
बोधक तत्व शोधक सयल गुण संपति धरा ।
संवर समोधी गत उपाधी दुविध तप गुण
आदरा ॥

[ढाल] पांच आचारज जे सूधा पाले ।
मारग भाखे साचो । ते आचारज नमिये
तेहसूं । प्रेम करीने जाचो रे ॥भ०सि०॥१॥
चर छत्तीस गुणें करि शोभे । युग प्रधान जग

॥ यह चित्र मंडल पूजनका है ॥



इस चित्र में श्रावक किशनचदजी कोचर और उनके सुपुत्र श्रावक धनराजजी कोचर सर्व सामग्रो सहित नवपद मंडलका पूजन कर रहे हैं ॥

बोहे । जग मोहे नरहे खिणकोहे । सूरिनमो
 ते जो हेरे ॥भ०सि० ॥२॥ नित अप्रमत्त धरम
 उव एसे । नहीं विकथा न कषाय । जेहनें ते
 आचारज नमिये । अकलुस अमल अमाय रे ॥
 भ०सि०॥३॥ जे दिडं सारण वारण चोयण ।
 पडिं चोयण वलि जननें । पटधारी गच्छथंभ
 आचारज । तेमान्या मुनिमननें रे ॥भ०सि०॥४॥
 अत्य मिये जिन सूरज केवल । चंदी जे जग
 दीवो । भुवन पदारथं प्रगट नपटु ते । आचा
 रज चिरंजीवो रे ॥ भ०सि० ॥५॥

(ढाल) ध्याता आचारज भला । महामंत्र
 शुभ ध्यानी रे ॥ पंचे प्रस्थाने आत्मा । आचा
 रज होइ प्राणी रे ॥वी०तु०इति॥ ओं ह्रीं परमा-
 त्मनेअनंतानंत ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्यु निवा
 रणाय श्रीमत् सिद्ध चक्राय तृतीय आचार्य
 पदेभ्यो पचामृत सहित अष्ट द्रव्यं यजा महे
 स्वाहाः ॥

॥ चतुर्थ उपाध्याय पद पूजा ॥

नमोऽर्हत्सिद्धाचार्यो पाध्याय सर्व सौधुभ्यः

(दो०) गुण अनेक जग जेहना । सुन्दर
शोभित गात्र ॥ उवझाया पद अरचिये । अनु
भव रसनो पात्र ॥

(काव्य) सुत्तत्थ संवेग मयंसुएणं संनीर
क्षीरा मय विस्सुएणं । पीणंति जे ते उवझाय
राये झाएह निच्चंपि कयप्प साए ॥१॥ सुत्तत्थ
वित्था रण तप्पराणं । नमो नमो वायग कुंज
राणं ॥ गणस्स संधारण साधराणं । सव्वप्प-
णावज्जिय मच्छ राणं ॥२॥ नहीं सूरिपिण सूरि
गुणनें सुहाया । नमूं वोचका त्यक्त मद मोह
माया ॥ वली द्वादशांगादि सूत्रार्थ दाने ।
जिके सावधाने निरुद्धा भिधाने ॥३॥ धरे पंच
नें वर्ग वर्गित गुणौघा । प्रवादी द्विपोच्छेद ने
तुल्य सिंधा ॥ गुणी गच्छ संधारणे स्थंभ पूता ।
उपाध्यायते वंदिए चित प्रमूता ॥४॥

।। (ढाल) खंति जुआ मुत्ति जुआ । अज्जव
मद्व जुत्ता जी सच्चसोय अकिंचणा । तव
सयम गुण रत्ता जी ॥

(उल्लालो) जे रंम्या ब्रह्म सुगुप्त गुप्ता
सुमति सुमता श्रुतधरा । स्याद्वा द्वा दइ तत्व
साधक आत्म पर भविजन करा । भव भीरु
साधन धीर । शासन वहन धोरी मुनि, वरी सि-
द्धांत वायनदान समर्थ, नमो पाठक पदधरा ॥

(ढाल) द्वादश अग सिंज्ञाय करेजे । पारग
धारग तास । सूत्र अरथ विस्तार, रसिक ते ।
नमो उवज्ञाय उल्लास रे ॥ भ० सि० ॥ १ ॥ अर्थ
सूत्रने दान विभागे । आचारज उवज्ञाय ।
भव त्रिण्हे जेल हे शिव संपद । नमिये ते सुप-
सायरे ॥ भ० सि० ॥ २ ॥ मूरख शिष्य निपजाये जे
प्रभु । पाहण पल्लव आर्णे । ते उवज्ञाय सकल
जन पूजित । सूत्र अरथ सवि जाणें रे ॥ भ०
सि० ॥ ३ ॥ राजकुमर सरिखा गण चितर्का आ-

घारज्ज पदयोग । जे उवझाय सदा ते नमतां
 नावें भव भय सोगरे ॥भ०सि०॥४॥ वावना
 चंदन रस सम वयणें । अहित ताप सविटाले ।
 ते उवझाय नमी जे जेवलि । जिन शासन अ-
 जुवाले रे ॥ भ० सि० ॥५॥

(ढाल) तप सझार्यें रत सदा । द्वादश
 अंगनो ध्याता रे । उपोध्याय ते आतमा । जग
 बंधव जग भ्राता रे ॥वी०तु०॥१॥ इति ॥ ओं
 ह्रीं परमात्मने अनंता नंत ज्ञान शक्तये जन्म
 जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमत् सिद्ध चक्राय
 श्रीउपाध्याय पदेभ्यो पंचामृत सहितअष्ट द्रव्यं
 यजा महे स्वाहाः ॥

॥ पांचमी साधू पद पूजा ॥

नमोऽर्हत्सिद्धाचार्यो पाध्याय सर्व साधुभ्यः

मोक्ष मारग साधन भणी । सावधान
 यथा जेह । ते मुनिवर पद वंदतां । निरमन
 थार्यें देह ॥१॥

(काव्य) संतेय दंतेय सुगुत्ति गुत्ते मुत्ते
 पसते गुण जोग जुत्ते ॥ गयप्प माए गय मोह
 माए भाएह निच्चं मुणि राय पाए ॥१॥ सा-
 हूण ससाहिय सयमाणं । नमोनमो शुद्ध दया
 दमाणं ॥ तिगुत्त गुत्ताण समाहियाणं । सुणीण
 माणंद पयट्टियाणं ॥२॥ करे सेवनां सूरि वायग
 गणीनी । करू वर्णनां तेहनी सी सुणीनी ॥
 समेता सदा पंच सुमते तिगुप्ता । तिगुत्ते नहीं
 काम भोगेपु लिप्ता ॥३॥ बली बाह्य अभ्यंतरे
 ग्रंथ टाली । हुई मुक्ति नें जोग चारित्र
 पाली ॥ शुभ ष्टाग घोये रमे चित्त वाली ।
 नमूं साधुनें तेह निज पाप टाली ॥४॥

(ढाल) सकल विषय विष वारिनें । नि-
 क्कामी निस्संगीजी ॥ भव दव ताप समावता ।
 आत्म सोधन रगी जी ॥

(उल्लालो) जे रम्या शुद्ध स्वरूप रमणें
 देह निर्म्मम निर्म्मदा । काउसग्ग मुद्रा धार

आसन ध्यान अभ्यासी सदा । तप तेज दीपे
कर्म जीपे नैव छीपे पर भणी । मुनिराज
करुणा सिंधु त्रिभुवन बंधु प्रणमूं हित भणी ।

(ढाल) जिम तरु फूले भमरो वेसे । पीड़ा
तसुन उपाय । लेई रस आतम संतोषे । तिम
मुनि गोचरि जाय रे ॥भ०सि०॥१॥ पांच इंद्रि
नें जे नित जीपे । षट काया प्रतिपाल । संयम
सतर प्रकार आराधे बंदूं दीन दयाल रे ॥
भ०सि०॥२॥ अठार सहस शीलांगना धोरी ।
अचल आचार चरित्र । मुनि महंत जयणायुंत
वंदी । कीजे जनम पवित्र रे ॥भ०सि०॥३॥
नव विध ब्रह्म गुपति जे पाले । वारंह विहं तप
सूरा ॥ एहवा मुनि नमिये जो प्रगटे । पूरब
पुन्य अंकूरा रे ॥भ०सि०॥४॥ सोना तणी परे
परिक्षा दीसे । दिन दिन चढ़ते वाने । संयम
खप करता मुनि नमिये । देश काल अनुमान
० रे ॥भ०सि०॥५॥

। (ढाल) अप्रमत्त जे नित रहे । नवि हरखे
नवि सोचे रे । साधु सुधा ते आत्मा । स्यूं
मूंडेस्यूं लोचे रे ॥वी०तु०॥१॥ओहीं परमात्मने
अनतानंत ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्युनिवारणाय
श्रीमत् सिद्ध चक्राय साधु पदेभ्यो पंचामृत
सहित अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहाः ॥

॥ छठी सम्यक्त्व दर्शन पद पूजा ॥

नमोऽर्हत्सिद्धाचार्या पाध्याय सर्व साधुभ्यः -

(दो०) जिनवर भाषितः सुद्ध नय । तत्त्वं
तणी परतीत ॥ ते सम्यग - दर्शन सदा ।
आदरिये शुभरीत ॥

। (काव्य) जंदव्व छकाय, सुसदहाण नं दंसणं
सव्व गुणप्पहाण ॥ कुग्गाह् वाही उवयंति जेण
जहा विशुद्धेण रसोयणेण ॥१॥ जिणुत्त तत्ते
रुइ लक्खणस्स । नमो नमो निम्मलं दंसण-
स्स ॥ मिच्छत्ता नासाइ समुग्ग मस्स । मूलस्स
सद्धम्म महा दुमस्स ॥२॥ विपर्या सहोवासना

रूप मिथ्या । टले जे अनादी अछेजे कुपथ्या ॥
 जिनोक्ते हुई सहज थी शुद्ध ध्यानं । कही ई
 दर्शनं तेह परमं निधानं ॥३॥ बिनां जेह थी
 ज्ञान भज्ञान रूपं । चरित्रं विचित्रं भवारण्य
 कूपं ॥ प्रकृति सातनें उप समइ क्षयते होवे ।
 तिहां आप रूपें सदा आप जोवे ॥४॥

(ढाल) सम्मग् दरशण गुण नमो । तत्त्व
 प्रतीत सरूपी जी ॥ जसु निरधार स्वभाव छे ।
 चेतन गुणजे अरूपी जी ॥

(चाल) जे अनूप श्रद्धा धरम प्रगटे सयल
 पर ईहां टले । निज शुद्ध सत्तो भाव प्रगटे
 अनुभव करुणा उच्छले ॥ बहुमान परणति
 वस्तु तत्वे अहवत सुकारण पर्णे । निज साध्य
 दृष्टे सर्व करणी तत्वता संपति गिणे ॥

(ढाल) शुद्ध देव गुरु धर्म परिक्षा । सह-
 हणा परिणाम । जेह पामी जे तेह नमी जे ।
 सम्यग् दर्शन नामरे ॥भ०सि०॥१॥ मल उप-

शम क्षय उपशम जेह थी । जे - होइ त्रिविध
 अभग । सम्यग्दर्शन तेह नमीजे । जिन धरमें
 दृढ़ रंग रे ॥ भ० सि० ॥ २ ॥ पांच वार उपशम
 लहीजे । क्षय उपसमीय - असख । एक वार
 क्षायक ते सम्यक । दर्शन नमिये असंख रे ॥
 भ० सि० ॥ ३ ॥ जे विण नाण प्रमाण न होवे ।
 चारित्र तरु नवि फलिओ । सुख निरवाण न
 जे विण लहिये । समकित दर्शन बलि ओरे ॥
 भ० सि० ॥ ४ ॥ सड़सट्ट बोले जे अलंक रिओ ।
 ज्ञान चारित्रनुं मूल । समकित दर्शन ते नित
 प्रणमूं । सिव पथनुं अनुकूल रे ॥ भ० सि० ॥ ५ ॥
 ढाल सम सवेगादिक गुणां खय उपशम जे
 आवे रे । दर्शन तेहिजे आतमां । स्थूं होय
 नाम धरावे रे ॥ वी० तुम० ॥ ओ ह्रीं परमा-
 त्मने अनता नत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु
 निवारणाय श्रीमंतु सिद्ध चक्राय श्री दर्शन प-
 देभ्यो पंचामृतसहित अष्टद्रव्य यजामहेस्वाहाः ॥

॥ सप्तम ज्ञान पद पूजा ॥

नमोऽर्हत्सिद्धाचार्यो पोध्याय सर्व साधुभ्यः

(दो०) सप्तम पद श्री ज्ञान नो । सिद्ध चक्र तप मांहि ॥ आराधी जे शुभ मनै । दिन दिन अधिक उच्छाह ॥

(काव्य) नाणं पहाणं नय सिद्धि चक्रं तत्ताव वोहिक मयं पसिद्धं ॥ धरेह चित्ताव सहे फुरंतं माणिक दीवुव्व तमो हरंतं ॥ १ ॥ अन्नाण सम्मोह तमो हरस्त । नमो नमो नाण दिवाय रेस्त ॥ पंचप्प यारस्सुवगा रगस्त सत्ताण सव्वत्थ पयोस गस्त ॥ २ ॥ होई जेह थी ज्ञान शुद्ध प्रबोधे । यथावर्ण नासे विचित्रा विबोधे ॥ तिणे जाणिये वस्तुषट्द्रव्य भावा । नहोवे विकच्छा निजोच्छा स्वभावा ॥ ३ ॥ होई पंच मत्यादि सुग्यान भेदे । गुरु पास थी योग्यता तेह वेदई ॥ वली ग्येय हेयो उपादेय रूपे । लहे चित्तमां जे मध्यान प्रदीपे ॥ ४ ॥

(ढाल) भव्य नमो गुण ज्ञान नें । स्वपर
प्रकाशक भावे जी ॥ परयाय धरम अनतता ।
भेदा भेद स्वभावे जी ॥

(घाल) जे मोख्य परणति, सकल ज्ञायक
बोध वास विलासता । मति आदि पंच प्रकार
निरमल सिद्ध सार्धन लच्छना । स्याद्धोद सगी
तत्त्वरंगी प्रथम भेद अभेदता । सवि कल्पनें
अवि कल्प वस्तु सकल संशय छेदता ॥

(ढाल) भज्ञः अभज्ञन जे विण लहिये ।
पेय अपेय विचार ॥ कृत्य अकृत्य न जे विण
लहिये । ज्ञान ते सकल आधार रे ॥भ०॥१॥
प्रथम ज्ञान नें पछे अहिंसा श्री सिद्धां ते भा-
ख्युं । ग्यान नें वदो ज्ञान मनिदो । ज्ञानिये
शिव सुख चारण्यु रे ॥भ०सि०॥२॥ सकल
क्रियानुं मूलते श्रद्धा । तेहनु मूलजे कहिये ।
तेह ज्ञान नित नित वंदीजे । ते विण कहो
किम रहिये रे ॥भ०सि०॥३॥ पांच ग्यान माहि

जेह सदा गम । स्वपर प्रकाशक तेह । दीपक
 परे त्रिभुवन उपगारी । वलि जिम रवि शशि
 मेह रे ॥भ०सि०॥४॥ लोक ऊरध अध तिर्यग
 जोतिष । वे मानिक नें सिद्धि । लोक अलोक
 प्रगट शवि जेह थी । तेग्यानें मुझ शुद्धि रे ॥
 भ० सि० ॥ जि० उ० र० मे० व० ॥५॥

(ढाल) ज्ञाना वर्णी जे कर्म छे । क्षय
 उपशम तसु थाये रे । तो होइए हिज आत्मा
 ज्ञान अवोधता जाई रे ॥ वी० तु० ॥ आ० ॥
 ॥१॥ ॐ ह्रीं परमात्मने अनंतानंत ग्यानशक्तये
 जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्री मत् सिद्ध
 चक्राय ग्यान पदेभ्यो पंचामृत सहित अष्ट
 द्रव्यं यजा महे स्वाहाः ॥

॥ अष्टम चारित्र पद पूजा ॥

नमोऽर्हत्सिद्धाचार्यो पाध्याय सर्व साधुभ्यः

(दो०) अष्टम पद चारित्र नो । पूजो

धरी उमेद । पूजत अनुभव रसमिले । पातिक
होय उच्छेद ॥

(काव्य) सुसवर मोह निरोह सार पंचप
यारं विगमाइ यारं ॥ मूलोत्त णेग गुणं
पवित्तं पालेह निच्चं पिहु सच्चरित्तं ॥ १ ॥
आरो हिया खंडिय सक्कि यस्स । नमो नमो
सयम वीरि यस्स ॥ सज्जावणा सग विवट्ठि
यस्स । निव्वाण दाणाइ समुज्ज यस्स ॥ २ ॥
वली ग्यान फलते धरीये सुरंगे । निरा ससता
द्वार रोध प्रसंगे ॥ भवां बोध संतारणे यान
तुल्यं । धरू तेह चारित्र अप्रोप्त मूल्य ॥ ३ ॥
होई जास महिमा थकीरेंक राजा । वली द्वा-
दशांगी भणी होइ ताजा ॥ वली पाप रूपोपि
निःपाप थाये । थई सिद्धते कर्मनें पार जाये
॥ ४ ॥

(ढाल) चारित्र गुण वलि वलि नमूं । तत्व

रक्षण जस मूलोजी । पर रमणीय पणोटले ।
सकल सिद्ध अनुकूलो जी ।

(चाल) प्रति कूल आश्रव त्यागसंयम तत्व
थिरता दम मयी । शुचि परम खंती मुनि दसे
पद पंच संवर उपचयी । सामायिकादिक भेद
धरमें यथा ख्याते पूर्णता । अकषाय अकुलस
अमल उज्वल काम कस्मल चूरणता ॥

(ढाल) देश विरतिनें सर्व विरति जे ।
ग्रही यतिनें अभिराम । ते चारित्र जगत जय
वंत । कीजे तास प्रणाम रे ॥भ०सि०॥१॥
तृण परे जेषट् खंड सुख छंडी । चक्रवर्ति
पिण वरिओ । ते चारित्र अखय सुख कारण ।
तेमें मन मांहि धरिओ रे ॥भ०सि०॥२॥ हुआ
रांक पणे जे आदरि । पूजित इंद नरिंद ।
असरण सरण चरण ते वंदूं । वरिऊ ग्यान
आनंद रे ॥भ०सि०॥३॥ बार मास परे याइं
जेहनें । अनुत्तर सुख अति क्रमिये । शुक्ल

शुकल अभि जात्यते उपरि । ते चारित्रि नें
 नमिये रे ॥ भ० सि० ॥ ४ ॥ चयते आठ करमनो
 संचय । रिक्त- करे जे, तेह । चारित्रि नाम
 निरुक्ते भाख्युं । ते वंदूं गुण गेह रे ॥ भ०
 सि० ॥ जि० उ० र० से० व० ॥ ५ ॥

(ढाल) जाणि चारित्रि ते आत्मा । निज
 स्वभाव मांहि रमतो रे । लेश्या शुद्ध अलंक-
 रयो । मोह-वर्णो नवि भमतो रे ॥ वी० तु० ॥
 इति ॥ ॐ ह्रीं परमात्मने- अनंता, नंत ग्यान
 शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमत्
 सिद्ध चक्राय श्री चारित्रि पदेभ्यो पञ्चामृत
 सहित अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहाः ॥

॥ नवम तप पद पूजा ॥

नमोऽर्हत्तिद्धा चाहो पाध्याय सर्व साधुभ्यः
 (दो०) करम काण्ठ प्रति जालवा । पर
 तिख अगनि समान । ते तप पद पूजो सदा
 निरमल धरिये ग्यान ॥

[काव्य] बाह्यं तहाभितरं भेय मेयं कयाइ
दुवभेय कुकर्म भेयं ॥ दुवल वखयत्थं कय पाव
नासं तवं तवेहा गमियं निरासं ॥ एवाइ जे
केवि नव प्याईं । आरा हयं तिफलप्य याईं ॥
लहंति ते सुवल परं पराणं सिरी सिरी पाल
नरेश रुव्व ॥ २ ॥ कम्मद् मोन्मूलन कुंज
रस्स । नमो नमो तिव्व तवोभ रस्स ॥ अणेग
लद्धीण निबंध णस्स । दुस्सज्ज अत्थाणय साह
णस्स ॥ ३ ॥ इय नव पय सिद्धिं लद्धिं विजा
समिद्धं । पपडिय सरवग्गं हीं तिरेहा समग्गं ॥
दिशि वय सुर सारं खोणि पीडा वयारं ।
तिजय विजय चक्कं सिद्ध चक्कं नमामि ॥ ४ ॥
त्रिकालक षण्णे कम्म कषाय टाले । निका चित्त
षण्णे बांधिया तेह वाले ॥ कयो तेह तप बाह्य
अभ्यांतर दुभेदे । क्षमा युक्ति निर्हेत दुध्यानि
छेदे ॥ ५ ॥ होइं जास महिमा थकी लब्धि
सिद्धि । अवांचक षण्णे कम्म आवरण शुद्धिः ॥

तपो तेह तपजो महीनंद हेतों । होइ सिद्धि
सीमंतनी निज संकेते ॥ ६ ॥ । इम नव पद
ध्यावे परम आनंद पावे । नव भव शिव जावे
देव नर भव जपावे ॥ ज्ञान विमल गुण गावे
सिद्ध षक्र प्रभावे ॥ सब दुरित समावे विश्व
जयकार पावे ॥७॥

(ढाल) इच्छा रोधन तप नमो । बाह्य
अभ्यंतर भेदे जी । आत्म सत्ता एकता । पर
परणित उच्छेदे जी ॥१॥

(उल्लाळो) उच्छेद कर्म अनादि सं-
तति । जेह सिद्ध पणो वरइ । सुभ योग सग
आहार टाली भाव अक्रियता करे । अंतर
मुहूरत तत्व साधे सर्व सवरता करी । निज
आत्मसत्ता प्रगट भावेकरो तपगुण आदरी ॥२॥

(ढाल) इम नव पद गुण मंडलें । घड
निक्षेप प्रमाणें जी ॥ सात न ये जे आदरे ।
सम्मगु ज्ञानें जाणें जी ॥३॥

(चाल) निरधार सेती गुणें गुणणो करइ
 जे बहुमानए । जस करण ईहा तत्त्व रमणें
 थाये निरमल ध्यान ए । इम शुद्ध सत्ता भलो
 चेतन सकल सिद्धि अनुसरे । अक्षय अनंत म-
 हंत चिदधन परम आनंदता वरे ॥४॥

(कलश) इम सयल सुख कर गुण पुरंदर
 सिद्ध चक्र पदावली । सविलद्धि विज्ञा सिद्धि
 मंदिर भविक पूजो मन रली । उवझाय वर
 श्री राज सागर ज्ञान धर्म सुराजता । गुरु दीप
 चंद सुचरण सेवक देव चन्द्र सुशोभता ॥५॥

(ढाल) जाणंता त्रिहुं ज्ञाने संयुत । तेभव
 मुगति जिणंद । जेह आदरे करम खपेवा ।
 ते तप सुरे तरु कंदरे ॥ भ० सि० ॥१॥ करम
 निकाचित्त पिण क्षय जाई । क्षमा सहित जे
 करतां । ते तप नमिये । तेह दिपावे । जिन
 शासन उज मंतां रे ॥ भ० सि० ॥२॥ ओमो
 सही पमुहा बहु लद्धी । होवे जास प्रभावे ।

अष्ट महा सिधि नव निधि प्रगटेः । नमिये ते
 तप भावे रे ॥ भ० सि० ॥ ; फल, शिव सुख
 मोट्ट सुर नर वर । संपति जेहनू फूल ॥ ते तप
 सुर तरु सरिखो वदू । शम, मकरंद अमूल रे
 ॥ भ० सि० ॥३॥ सर्व मंगल मांहि ; पहिलो
 मंगल । वरण वियो जे ग्रंथ । ते तप पद
 त्रिकरण नित नमिये । वरे सहाय शिव पंथ रे
 ॥ भ० सि० ॥४॥ इम नव पद थुणतो, तिहां
 लीणो । हुओ तन मय श्री पाल ॥ सुजस
 विलास छे चौथे खंडे । एह डग्यारमि ढाल रे
 ॥ भ० सि० जि० उ० र० से० वं० ॥५॥

(ढाल) इच्छा रोधन संवरी । परणति
 समता योगे रे । तप ते एहिज आत्मा । वरते
 निज गुण भोगे रे ॥ वी० ॥१॥ आगमनो आगम
 तणो । भाव ते जाणो साचो रे । आत्म
 भावे थिर हुओ । पर भावे मत राचो रे
 ॥ वी० ॥२॥ अष्ट सकल समृद्धिनी । घट माहि

रिद्धि दाखी रे ॥ तिम नव पद रिद्धि जाण-
 ज्यो । आत्म राम छे साखी रे ॥ वी० ॥ ३ ॥ योग
 असंख्य छे जिन कहा । नवपद मुख्यते जाणो
 रे । एह तणे अवि लंबने । आत्म ध्यान
 प्रमाणो रे ॥ वी० ॥ ४ ॥ ढाल वारमी एहवी चौथे
 खंडे पूरी रे । वाणी वाचक जस तणी । कोई
 यन रहीय अधूरी रे ॥ वी० ॥ ध० तु० अ०
 रि० ॥ ५ ॥ ॐ ह्रीं परमात्मने अनंता नंत ज्ञान
 शक्तये । जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमत्
 सिद्धे चक्राय श्रीतपपदेभ्यो पंचामृतसहित अष्ट
 द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति ॥ सर्व सनात्रिया
 कलश पंचामृतके ढाल कर बादमें जलसे प्रक्षा
 लन करके ३ अंगलुहणा कर भगवान् की
 प्रतिमांजीको अपने स्थान पर विराजमान कर
 निम्न लिखित अष्ट प्रकारी पूजा करे ।

॥ अर्थ अष्ट प्रकारी पूजा ॥

प्रथम जल पूजा ।

(दो०) गंगा मागध क्षीर निधि । औषध
मिश्रित सार । कुशुमें वासित शुचि जलें ।
करो जिन स्नात्र उदार ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

(ढाल) मणि कनकादिक अडविध करि
भरि कलश सफार । शुभ रुचि ज जितवर नमें
तसुनहीं दुरित प्रचार ॥ मेरु शिखर जिम सुर
वर जिनवर न्हवर्णा अमान । करता वरता निज
गुण समकिते वृद्धि निधान ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

(छं०) हर्षभरी अप्सरा वृ द आवे । स्नात्र
करि एम आसीस भावे । जिहां लगे सुर गिरि
जंवे दीवो । अमर्तणा नाथ जीवातु जीवो ॥
(श्लोक) विमल केवल भासन भास्करं ।
जगति जतु महोदय कारणं ॥ जिन वर बहु
मान जलौघतः । शुचिमनः स्नपयामि विशुद्धये
॥१॥ ॐ ह्रीं परमात्मने अनंतानत ज्ञानशक्तये ।

जन्म जरा मृत्यु निवारणाय । श्री मज्जिनेन्द्राय
जलं यजामहे स्वाहाः ॥

द्वितीय चंदन पूजा ।

(दो०) वावन चंदन कुम कुमा । मृग
मदने घन सार ॥ जिन तनु लेपे तसु टले ।
मोह संताप विकार ॥१॥

[ढाल] सकल संताप निवारण तारण सह
भवि चित्त । परम अनीहा अरिहा तनु चरचो
भवि नित्त । निज रूपे उपयोगी धारी जिन
गुण गेह ॥ भाव चंदन सुह भाव थी टाले दु-
रित अछेह ॥२॥

[चाल] जिन तनु चरचता सकल नाकी ।
कहे कुग्रह उष्णता आज थाकी ॥ सकल अनि
मेखता आज ह्यांकी ॥ भव्यता अम्ह तणी
आज पाकी ॥३॥

[श्लोक] सकल मोह तिमिश्रविनासनं । परम
शीतल भाव युतं जिनं । विनय कुंकुम चंदन

दर्शने । सहज तत्र धिर्काश कृतोच्चये ॥१॥
 ॐ ह्रीं परमात्मने । अनन्तानंत ग्यानशक्तये ।
 जन्मजरा मृत्यु निवारणाये । श्रीमज्जिनेन्द्राय ।
 घदनं यजामहे स्वाहाः ॥ इति चंदन पूजा ॥
 केशर घदन घड़ावे ।

तृतीय पुष्प पूजा ।

(दो०) शत पत्री वर मोगरा । चंपक
 जाड गुलाब ॥ केतकी दमणो वौल सिरि ।
 पूजो जिन भरि छाव ॥१॥

(ढाल) अमल अखडितमंडितविक सित शुभ
 कुसुमनी - घन जाति । लाखीणो टोडर ठवी
 अगी रघो बहु भांति ॥ गुण कुसुमे निज आ-
 तममंडित कर वा भव्य ॥ गुणरागी जड़त्यागी
 पुष्प घड़ावो नव्य ॥२॥

(वाल) जग धणी पूजतां विविध फूले ।
 सुर वराते गिणो क्षण अमूले ॥ खंति धर

आनवा जिन पद पूजे । तसु तणा पाप संताप
धूजे ॥३॥

(श्लोक) विकच निर्मल शुद्ध मनो रमैः ।
विशद चेतन भावं समुद्भवैः ॥ सुपरिणामप्रसून
घनैर्नवैः । परम तत्त्व भयं हि यजाम्यहं ॥१॥
ॐ ह्रीं परमात्मने अनन्ता नन्त ज्ञान शक्तये ।
जन्म जरा मृत्यु निवारणाय । श्री मज्जिनेन्द्राय
पुष्पं यजा महे स्वाहाः ॥ इति पुष्प पूजा ॥
पुष्प चढ़ावे ॥

चतुर्थ धूप पूजा ।

(दो०) कृष्णागर मृग मद तगर । अंबर
तुरंग लोवान । मेल सुगंध घन सार घन ।
करो जिनने धूप दान ॥१॥

(ढाल) धूप घटी जिम महमहे तिम दहे
पातिक वृन्द ॥ आरति अनादिनी जावे । पावे
मन आनंद ॥ जै जिन पूजे धूपे । भव कूर्पे

फिर तेह ॥ नावे पावे ध्रुवघरणी आवे सुख
अछेह ॥

(चाल) जिने घरे वासतां धूपपूरे । मिच्छत
दुर्गन्धता जाईदूरे ॥ धूम्र जिम सहजे उद्ध
गर्त स्वभावे । कारिका उच्च गति भाव पावे ॥
॥ (श्लोक) सेकल कर्म , महें धन दिहनं ।
विमल संवर भावसुधूपनं ॥ अशुभ , पुङ्गल
संग विवर्जितं । जिन पतेः पुरतोस्त सुहर्षितः
ॐ ह्रीं परिमात्मने अनंती नंतः ज्ञान शक्तये ॥
जन्म जरा मृत्यु निवारणाय । श्री मज्जिनेद्राय
धूपं यजामहे स्वीहाः ॥ इति धूप पूजा ॥ धूपया
अंगर वत्ती खेवे ॥

गोपंचम दीप पूजा ।

(दो०) मणि मय रजत ताम्रना । पात्र
करी घृत पूर ॥ वत्तीःसूत्र कसुं वनी ॥ करो
प्रदीप सनूर ॥

(ढाल) मंगल दीप वधावो । (गावो) जिन

गुण गीत ॥ दीप तणी जिम आलिका । मा-
लिका मंगल नीत ॥ दीप तणी शुभ ज्योती
द्योती जिन सुख चंद ॥ निरखि हरखो भवि
जन । जिस लहो पूर्णा नंद ॥२॥

(चाल) जिन गृहे दीप माला प्रकासे । तेह
थी मिमिर अज्ञान नासे ॥ निज घटे ज्ञान
ज्योति विकासे । तेह थी जग तणा भव भासे
॥ ३ ॥

(श्लोक) भविक निर्मल बोध विकासकं ।
जिन गृहे शुभ दीपक दीपनं । सुगुण रोग वि-
शुद्ध समन्वितं । दधतु भाव विकास कृतेर्जना
॥१॥ ॐ ह्रीं परमात्मने अनंतानंत ग्यानशक्तये ॥
जन्म जरा मृत्यु निवारणाय । श्री मज्जिनेंद्राय
दीपं । यजा महे स्वाहाः ॥ इति दीप पूजा ॥
मंगल दीप चढ़ावे ॥

छठी अक्षत पूजा ।

(दो०) अक्षत अक्षत पूर सूं । जे निज

आगे सार-॥ स्वस्तिक धरघतां विस्तरे । निज
गुण भर विस्तार ॥ १ ॥

[बाल] उज्जल अमल ; अखंडित मंडित
अक्षत चंग । पुंज त्रय करो स्वस्तिक अस्तिक
भावे रंग । निज सत्ताने सन्मुख उन मुख
भवि जेह ॥ ज्ञानादिक गुण ठावे भावे स्वस्तिक
एह ॥ २ ॥

[चाल] स्वस्तिक पूरेतां जिनप आगे ।
स्वस्तिक श्रीभद्र कल्याण जागे ॥ जन्म जरा
मरणादि अशुभ भागे । नियत शिव शर्म रहे
तासु आगे ॥ ३ ॥

[श्लोक] सकल मंगल केलि तिक्तेतनं ।
परम मंगल भाव मयं जिनं । श्रयति भव्य
जना इति दर्शयन् । दधतु नाथ पुरोक्षत स्व-
स्तिक ॥ १ ॥ ओ ह्रीं परमात्मने अनंतानंत ।
ज्ञान शक्तये ॥ जन्म जरा मृत्यु निवारणाय ।
श्री मज्जिनेद्राय अक्षतिं यजा महे स्वाहाः ॥

इति अक्षत पूजा ॥ अखंड चावल चढ़ावे ।

सप्तम नैवेद्य पूजा ।

[दो०] सरस सुची पकवान बहु । शालि
दालि धृत पूर । धरो नैवेद्य जिन आगले ।
क्षुधा दोष तसु दूर ॥१॥

[ढोल] लपन श्रीवर घेवर मधु कर मोती
चूर । सिंह केसरिया सेविद्या दालिया मोदक
पूर । साकर द्राख सिंधोडा भक्ति व्यंजन धृत
सद्य धरो नैवेद्य जिन आगले जिम मिले सुख
अन वद्य ॥२॥

(चाल) ढोवतां भोज्य पर भाव त्यागे ।
भवि जना निज गुण भोज्य मांगे । अम्ह भणी
अम्ह तणो स्वरूपं भोज्यं । आप ज्यो तापजी
जगत पूज्य ॥३॥

(श्लोक) सकल पुद्गल संग विवर्जनं ।
सहज चेतन भाव विलासकं । सरस भोजन
नव्य निवेदनात् । परम निर्वृति भाव महं स्पृहे

॥१॥ ॐ ह्रीं परमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये
जन्म जरो मृत्यु निवारणाय । श्री मज्जिनेन्द्राय
नैवेद्यं यजामहे स्वाहाः इति नैवेद्य पूजा ।
नैवेद्य मिठाई पकवान घड़ावे ॥

अष्टम फल पूजा ।

(दो०) पक विजोरुं जिम करे । ठवर्ता
शिव पद देई । सरस मधुर रस फल गिणे ।
इह जिन भेट करैई ॥१॥

(ढाल) श्री फल केदली सुरग नारंगी
आंवा सार । अंजिर वंजिर दाड़िम करणा पेट
बीज सफार ॥ मधुर सुस्वादिक उत्तम लोक
आनदित जेह । वरण गधादिक रमणीक बहु
फल ढोवे तेह ॥२॥


(घाल) फल भर पूजतां जगत स्वामी ।
मनुज गति बेल हे सफल पामी । सकल मनु
ध्येय गति भेट रगे । ध्यावतां फल समाप्ति
प्रसंगे ॥३॥

धिना लंकार वस्त्रादिकं । पूजा तीर्थ कृतां
 करोति सततं शक्त्या तिभक्त्या हतः । नीरा
 गस्य निरंजनस्य विजता राते स्त्रिलोकी पते ।
 स्वस्थान्यस्य जनस्य निर्वृत्ति कृते क्लेशक्षया
 कांक्षया ॥ ओं ह्रीं परमात्मने अनंतानंत ज्ञान
 शक्तये । जन्म जरा मृत्यु निवारणाय । श्री
 मजिर्नोद्राय वस्त्रं यजा महे स्वाहाः इस
 पूजामें वस्त्र अंगलूहन दो नग प्रतिमाजी
 के पीछे चढ़ावे ॥ इति वस्त्र पूजा । इति अष्ट
 प्रकारी पूजा ॥

॥ अथ नमक उत्तारण पूजा ॥

अह पडि भग्गा पसरं । पया हिणं सुणिय
 वयं करि ऊणं । पडइ सलूण तण लज्जि यंच ।
 लूणंहू अब हरंती ॥१॥ पिकखे विणुं मुह जिण
 वरह । दोहर नयण सलूण । न्हावइ गुरु सत्थह
 भरिय । जलण पइस्सइ लूण ॥२॥ लूण उता
 रिह जिण वरह । तिन्नि पयाहिणि देव । तड

॥ यह चित्र नवपद मंडलका है ॥



नवपद मंडल को अखंड अक्षतों (घावलो) द्वारा पंच रंगोंसे शुद्ध रीत्यनुसार भरना चाहिये और उद्यापनमें इस मंडल की पूजा गुरुमहराज के मुखसे अवश्य ही करानी चाहिये ॥

तड़ शब्द कर तिये । विज्जा विज्ज जलेण ॥३॥
जजेण विज्जव थुई । जलेण तं तहइ अत्थ सद-
स्स । जिण रूवा मत्थरेणव । फुट्टइ लूणं तड़
तड़स्स ॥४॥ इन चार गाथाओंके पढ़नेके बाद
एक लूणकी डली भगवद् प्रतिमाजी पर उवा-
रनेके बाद अग्निमें डाल दे । इसके बाद लूण
तथा पानीका कलश हाथमें लेकर निम्न गाथा
पढ़े सव्ववि मुणवड जल विजल । ततह भमडड
पास । अहवि कयंतस्स निम्मल । निग्गुण बुद्धि
पयास ॥५॥ जलण अणे विणु जलणहि पास ।
भरवि कयजल भावहि पास । तिन्नि पयाहिणि
दिन्निय पास । जिम जिय छूटे भव दुह पास
॥६॥ जल निम्मल कर कमलेहि लेविणुं । सुर
वड भावहि मुणिवई सेवणुं । पभणड जिणवरं
तुह पड सरण । भय तुट्टइ लब्भइ सिद्धि गमण
॥ ७ ॥ उपरोक्त गाथायें पढ़नेके बाद एक डली
नमककी प्रतिमाके ऊपर उवार जलमें डाल दें

॥ इति नमक उतारण पूजा ॥

पुष्प माला पहरोवण पूजा ।

अन्नय पयय भक्तस्स । नियठाणे संठियं
कुणं तस्स । जिण पासे भमिय जणस्स । पिच्छ
तुह हुय वहे पड़णं ॥ १ ॥ सव्वो जिणप्पभावो
सरिस्सा सरि सेसु जेण रच्चंती । सव्वन्नूण
अपासे । जडस्स भमणं न संकमणं ॥ २ ॥
अच्चंत दुःकरं पिहू । हुय वह निवडेण जडेण
कयं । आणा सव्वन्नूणं । न कया सुकयत्थ
सूल मिणं ॥ ३ ॥ एक माला चढावे ॥

छोटे फूलोंके चढ़ानेकी पूजा ।

उवणेव मंग लेवो । जिणाण मुह लालि
संवलिया । तित्थ पवत्तण समई । तिय से वि-
विमुक्का कुसुम बुट्टी ॥१॥ एक फूल उछालना
भगवत् प्रतिमापर बाकीप्रभुकेआगे चढादे ॥इति॥

॥ अथ नव पद आरती ॥ १ ॥

जय जय जग जन वंछित पूरण । सुर तरु

अभिरामी । आत्म रूप विमल कर तारक ।
 अनुभव परिणामी ॥ (जय जय जगसारा) ॥
 आरति पार उतारा । सिद्ध चक्र सुख कारा)
 ॥ १ ॥ जग नायक जग गुरु जिन वटा । भज
 श्रीभगवता । आत्म राम रमा सुख भोगी ।
 सिद्धा जयवंता ॥ जय०२ ॥ पंचा चार दीपे
 आचारज । जुगवर गुणधारी । धारक वाचक
 सूत्र अर्थना पाठक भव तारी ॥ जय० ॥ ३ ॥
 सम दम रूप सकल गुण ज्ञायक । मोटा मुनि
 राया । दशण नाण सदा जय कारक । सजम
 तप भाया ॥ जय० ॥ ४ ॥ नव पद सार परम
 गुरु भाखे । सिद्ध चक्र सुख कारी । एभव पर
 भव रिद्धि सिद्धि दायक । भव सायर
 चारी ॥ जय० ॥ ५ ॥ कर जोड़ी सेवक गुण
 गावे । मनवंछित पावे । श्रीजिन चंद अखय
 पद पूजत । शिव कमला पावे ॥ जय० ॥ ६ ॥
 इति ॥

सुखियो करजो । हां रे जाणि पोतानो वोल
॥ अ० ॥ ६ ॥

मोटी आरती ॥ ४ ॥

पेहेली रे आरती प्रथम जिणंदा । शत्रुंजा
लंडण रिषभ जिणंदा ॥ जयजय आरति आदि
जिणंदा ॥ ए आंकड़ी ॥ दूसरी आरति मरु
देवी नंदा । जुगला रे धरम निवार करंदा
॥ ज० ॥१॥ तीसरी आरति त्रिभुवन मोहे ।
रत्न सिंहासन म्हारा प्रभुजी ने सोहे ॥ ज० ॥
चौथी आरति नित नवि पूजा । देव रिषभ
अवर न दूजा ॥ जय० ॥२॥ पांचमी आरति
प्रभुजी नें भावे । प्रभु जीना गुण सेवक इम
गावे ॥ जय० ॥ ३ ॥

आरती कीजें प्रभु शान्ति जिणंद की ।
मृग लंछनकी में जाउं वलिहारी ॥ जय जय
आरती शान्ति तुमारी । विश्व सेन अचिरां
देविके नंदा ॥ शान्ति जिणंद मुख पूनम चंदा

॥ ज० ॥४॥ आरति कीजें प्रभु नेम जिणंदकी
 शंख लंछनकी में जाउं वलिहारी ॥ आ० ॥
 समुद्र विजय शिवां देवीके नंदा । नेम जिणंद
 मुख पूनम चंदा ॥ आ० ॥५॥ आरति कीजें
 प्रभु पास जिणंद की । फणिंद लंछनकी में
 जाउं वलिहारी ॥ आ० ॥ अश्व सेन वामा
 देवीके नंदा । पास जिणंद मुख पूनम चंदा
 ॥ आ० ॥६॥ आरति कीजें महावीर जिणंद
 की । सिंह लंछनकीमें जाउं वलिहारी । आ० ।
 सिद्धा रथ राय त्रिशला देवीके नंदा । वीर
 जिणंद मुख पूनम चंदा ॥ आ० ॥७॥ आरति
 कीजें प्रभु चौबीश जिणंद की । चौबीशे जिणंद
 की में जाउं वलिहारी ॥ आ० ॥ चौबीशे
 जिणंद मुख पूनम चंदा ॥ आ० ॥ ८ ॥ कर
 जोड़ी सेवक इम घोले । नही कोई हमारा
 प्रभुजि ने तोले ॥ आ० ॥ ९ ॥ इति आरती
 सम्पूर्णा ।

पंच तीर्थनी आरती ॥ ५ ॥

पहेली आरति प्रथम जिणंदा । शेत्रुंजा
 मंडण रिषभ जिणंदा ॥ श्रीसिद्धा चल तीर्थे
 आव्या । पूर्व नवाणूं भविक मन भांव्या ॥
 आरती कीजे श्री जिनवर की ॥ आ० ॥ १ ॥
 दुसरी आरति शान्ति जिणंदकी । शान्ति करे
 भ्रभु शिव मारग की ॥ पहोतो जिणे शरणे
 राख्यो । केवल पामीनें धर्म प्रकाश्यो ॥ आ०
 ॥ २ ॥ तीसरी आरति श्रीनेम नाथ । राजुल
 नारी तारी निज हाथ ॥ सहस पुरुषशूं संयम
 लीधो । करीनिज आतम कारेज सीधो ॥ ओ०
 ॥ ३ ॥ चौथी आरति चिहंगति वारी । पारस
 नाथ भविक हित कारी ॥ गाडी पास शंखे-
 श्वरो पास । भवि जननी पूरेमन आश ॥ आ०
 ॥ ४ ॥ पांचमी आरति श्री महावीर । मेरुपरें
 जेम रह्या धीर ॥ साडा वार वरस तप तपिया
 कर्म खपावी नें शिव पर वसिया ॥ ओ० ॥ ५ ॥

इंणि परें प्रभु जीनी आरति करशे । शुभ परि
णामे शिवपुर वरसे ॥ इंणि परें जिन जीनी
आरति गावे । शुभ परिणामें शिवपुर जावे ॥
आ० ॥६॥ कर जोडी सेवक इम बोले । नही
कोइ माहाश जिन जीने तोले ॥ आ० ॥७॥

॥ इति ॥

शिष्य-देव स्वामी की आरती

जय जय आरति आदि जिणंदा । नाभि
राय मरु देवी के नन्दा ॥ जय० ॥ पहली
आरति पूजा कीजे । सुख सपति अरु सिव
सुख वरजे ॥ जय० ॥ दुसरी ओरति दीन
दयाला । धले वा मंडन जग उजयाला ॥ जय० ॥
तीसरी ओरति त्रिभुवन देवा । चौसठ्ठ इन्द्र
करे तोरी सेवा ॥ जय० ॥ पांचमी आरति पुन्यउ
पावे । मूल चंद्र प्रभुका गुण गावे ॥ जय० न० ॥

॥ इति ॥

- ॥१३॥ प्रसंत वदन गुण संयुक्ताय श्री आ०
 ॥१४॥ क्षमा गुण संयुक्ताय श्री आ० ॥१५॥
 रिजु गुण संयुक्ताय श्री आ० ॥१६॥ मृदु गुण
 संयुक्ताय श्री आ० ॥१७॥ सर्व संग मुक्ति
 गुण संयुक्ताय श्री आ० ॥१८॥ द्वादश विधि
 तप गुण संयुक्ताय श्री आ० ॥१९॥ सप्त दश
 विध संयम गुण संयुक्ताय श्री आ० ॥२०॥
 सत्य व्रत गुण संयुक्ताय श्री आ० ॥२१॥ सौ-
 च्य गुण संयुक्ताय श्री आ० ॥२२॥ अकिंचण
 गुण संयुक्ताय श्री आ० ॥२३॥ ब्रह्मचर्य गुण
 संयुक्ताय श्री आ० ॥२४॥ अनित्य भावना
 भाव काय श्री आ० ॥२५॥ असरण भावना
 भाव काय श्री आ० ॥२६॥ संसारे स्वरूप
 भावना भावकाय श्री आ० ॥२७॥ एकत्व स्व-
 रूप भावना भावकाय श्री आ० ॥२८॥ अन्य-
 त्व भावना भाव काय श्री आ० ॥२९॥ अशुचि
 भावना भाव काय श्री आ० ॥३०॥ आश्रव

भावना भाव काय श्री आ० ॥३१॥ निज
 वना भाव काय श्री आ० ॥३२॥ निज
 भावना भाव काय श्री आ० ॥३३॥ लोके
 स्वरूप भावना भाव काय श्री आ० ॥३४॥
 बोधि दुर्लभ भावना भाव काय श्री आ० ॥३५॥
 धर्म दुर्लभ भावना भाव काय श्री आ० ॥३६॥
 इति ।

॥ उपाध्याय पदकी २५ जयती ॥

आचारांग सूत्र पठनगुण युक्ताय श्रीउपा-
 ध्याय नमः ॥१॥ सुयगड़ाग सूत्र पठन गुण
 युक्ताय श्री उ० ॥२॥ श्री ठाणांग सूत्र पठन
 गुण युक्ताय श्री उ० ॥३॥ श्री समवा यांग
 सूत्र पठन गुण युक्ताय० ॥४॥ श्री भगवती
 सूत्र पठन गुण युक्ताय० ॥५॥ श्री ज्ञाता सूत्र
 पठन गुण युक्ताय० ॥६॥ श्री उपाशक दशा
 सूत्र पठन गुण युक्ताय० ॥७॥ श्री अंत गढ़

- दशा सूत्र पठन गुण युक्ताय० ॥८॥ श्री अणु-
 त्तरो व वाई सूत्र पठन गुण युक्ताय० ॥९॥
 श्री प्रश्न व्याकरणे सूत्र पठन गुण युक्ताय०
 ॥१०॥ श्री विपाक्र सूत्र पठन गुण युक्ताय०
 ॥११॥ उत्पाद पूर्व पठन गुण युक्ताय० ॥१२॥
 ओग्रायणी पूर्व पठन गुण युक्ताय० ॥१३॥ वीर्य
 प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय० ॥१४॥ अस्ति
 प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय० ॥१५॥ ज्ञान
 प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय० ॥१६॥ सत्य
 प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय० ॥१७॥ आत्म
 प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय० ॥१८॥ कर्म
 प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय० ॥१९॥ प्रत्या
 ख्यान प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय० ॥२०॥
 विद्या प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय० ॥२१॥
 अविध्य प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय० ॥२२॥
 प्राणायाम प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय० ॥२३॥
 क्रिया विशाल पूर्व पठन गुण युक्ताय ॥२४॥

लोक विदु सार पूर्वपठन गुण युक्ताय० ॥२५॥
॥ इति ॥

॥ साधु पदकी २७ जयती ॥

प्राणातिपात विरमण व्रत युक्ताय श्री
साधवे नमः ॥१॥ मृषा वाद विर मण व्रत
युक्ताय श्री सा० ॥२॥ श्रद्धा दान विरमण
व्रत युक्ताय श्री ॥सा०॥ मैथुन विरमण व्रत
युक्ताय श्री सा० ॥४॥ परिग्रह विरमण व्रत
युक्ताय श्री सा० ॥५॥ रात्रि भोजन विरमण
युक्ताय श्री सा० ॥६॥ पृथ्वी काय रक्ष काय
श्री सा० ॥७॥ अप्पकाय रक्षकाय श्रीसा०॥८॥
तेऊकाय रक्षकाय श्री सा० ॥९॥ वाउकाय
रक्षकाय श्री सा० ॥१०॥ वनस्पति काय रक्ष
काय श्री सा० ॥११॥ व्रस काय रक्षकाय श्री
सा० ॥१२॥ एकेंद्री जीव रक्षकाय श्री सा०
॥१३॥ वेइंद्री जीव रक्ष काय श्री सा०॥१४॥

तेइंद्री जीव रक्षकाय श्री सा० ॥१५॥ चौरिंद्री
 जीव रक्षकाय श्री सा० ॥१६॥ पंचेद्री जाव
 रक्षकाय श्री सा० ॥१७॥ लोभ निग्रह काय
 श्री सा० ॥१८॥ क्षमा गुण युक्ताय श्री सा०
 ॥१९॥ शुभ भावना भाव काय श्रीसा०॥२०॥
 प्रति लेखनादि क्रिया शुद्ध कार काय श्री सा०
 ॥२१॥ संयम योग युक्ताय श्री० सा० ॥२२
 मनो गुप्ति युक्ताय श्री सा० ॥२३॥ वचनगुप्ति
 युक्ताय श्री सा० ॥२४॥ काय गुप्ति युक्ताय
 श्री सा० ॥२५॥ शीतादि द्वाविंशति परी सह
 सहण तत्पराय श्री सा० ॥२६॥ मरणांत उप
 सर्ग सहन तत्पराय श्री सा० ॥२७॥ इति ॥

सम्यक्त दर्शनपदकी ६७ जयती

परमार्थ संस्तव रूप श्री सदृशनायनमः ॥१॥
 परमार्थ ज्ञातृ सेवन रूप सदृशनाय नमः ॥२॥
 व्यापन्न दर्शन वर्जन रूप सदृशनाय नमः ॥३॥
 कुदर्शन वर्जन रूप सदृशनाय नमः ॥४॥ शु-

श्रु पा रूप सद्दर्शनाय नमः ॥५॥ धर्म राग रूप
सद्दर्शनाय नमः ॥६॥ वेया वृत्त रूप सद्दर्शनाय
नमः ॥७॥ अहंदा विनय रूप सद्दर्शनाय नमः ॥८॥
सिद्ध विनय रूप सद्दर्शनाय नमः ॥९॥ चैत्य
विनय रूप सद्दर्शनाय नमः ॥१०॥ श्रुत विनय
रूप सद्दर्शनाय नमः ॥११॥ धर्म विनय रूप
सद्दर्शनाय नमः ॥१२॥ साधु वर्ग विनय रूप
सद्दर्शनाय नमः ॥१३॥ आचार्य विनय रूप
सद्दर्शनाय नमः ॥१४॥ उपायाय विनय रूप
सद्दर्शनाय नमः ॥१५॥ प्रवचन विनय रूप स-
द्दर्शनाय नमः ॥१६॥ दर्शनविनय रूप सद्दर्शनाय
नमः ॥१७॥ ससारे जिन सार मिति चिन्तन
रूप सद्दर्शनाय ॥१८॥ ससारे जिन मति सार मिति
चिन्तन रूप सद्दर्शनाय ॥१९॥ ससारे जिन मति
स्थित साध्वादिसार मिति चिन्तन रूप सद्दर्शनाय
॥२०॥ शंका दूषण रहिताय सद्दर्शनाय नमः
॥२१॥ कांक्षा दूषण रहिताय सद्दर्शनाय नमः

॥२२॥ विचिकित्सा रूपदूषण रहिताय० ॥२३॥
 कुदृष्टि प्रसंसा दूषण रहिताय० ॥२४॥ तत्परि-
 चय दूषण रहिताय० ॥२५॥ प्रवचन प्रभावक
 रूप सदृशनाय नमः ॥२६॥ धर्मकथा प्रभावक
 रूप सदृ० ॥२७॥ वादी प्रभावक रूप सदृ०
 ॥२८॥ नैमित्तिक प्रभावक रूप सदृ० ॥२९॥
 तपस्वी प्रभावक रूप सदृ० ॥३०॥ प्रज्ञप्तादि
 विद्या मृत्युप्रभावक रूप स० ॥३१॥ घूर्ण जनादि
 सिद्ध प्रभावक रूप स० ॥३२॥ कवि प्रभावक
 रूप स० ॥३३॥ जिन शासने कौशलता भूषण
 रूप स० ॥३४॥ प्रभावना भूषण रूप स०
 ॥३५॥ तीर्थ सेवा भूषण रूप स० ॥३६॥
 धैर्यता भूषण रूप स० ॥३७॥ जिन शासने
 भक्ति भूषण रूप स० ॥३८॥ उपसम गुणरूप
 स० ॥३९॥ संवेग गुण रूप श्री स० ॥४०॥
 निर्वेद गुण रूप श्री स० ॥४१॥ अनुकंपा गुण
 रूप श्री स० ॥४२॥ आस्तिका गुण रूप स०

॥४३॥ परं तीर्थं कादि वंदनं वर्जनंरूपं श्री स०
 ॥४४॥ परं तीर्थंकादि नमस्कारं वर्जनं रूपं श्री
 स० ॥४५॥ परंतीर्थंकादि आलापं वर्जनं रूपं
 श्री स० ॥४६॥ परंतीर्थंकादि संलापं वर्जनं रूपं
 श्री स० ॥४७॥ परं तीर्थंकादि असनादि दानं
 वर्जनं रूपं श्री स० ॥४८॥ परंतीर्थंकादि गंध
 पुष्पादि श्रेषणं वर्जनं रूपं श्री स० ॥४९॥
 राजां भियोगां कारं युक्तं श्री स० ॥५०॥ ग
 णांभि योगां कारं युक्तं श्री स० ॥५१॥ वज्रा
 भि योगां कारं युक्तं श्री स० ॥५२॥ सुराभि
 योगां कारं युक्तं श्री स० ॥५३॥ कांतारं वृत्या
 कारं युक्तं श्री स० ॥५४॥ गुरु निग्रहं कारं
 युक्तं श्री स० ॥५५॥ सम्यक्तं चारित्र्यं धर्मस्य
 मूलमिति चिंतनं रूपं श्री स० ॥५६॥ चारित्र्यं
 धर्मं पुरस्य द्वारं मिति चिंतनं रूपं श्री स०
 ॥५७॥ चारित्र्यं धर्मस्य प्रतिष्ठानं मिति चिंतनं
 रूपं श्री स० ॥५८॥ चारित्र्यं धर्मस्यो धारं मिति

चिंतन रूप श्री स० ॥५९॥ चारित्र धर्मस्य
 भाजन मिति चिंतन रूप श्री स० ॥६०॥ चा-
 रित्र धर्मस्य निधि सन्निभ मिति चिंतन रूप
 श्री स० ॥६१॥ अस्ति जीवेति श्रद्धान स्थान
 युक्त श्री स० ॥६२॥ सचजीव नित्येति श्रद्धान
 स्थान युक्त श्री स० ॥६३॥ सचजीव कर्माणि
 करोतीति श्रद्धान स्थान युक्त श्री स० ॥६४॥
 सचजीव कर्माणि वेदयतीति श्रद्धान स्थान
 युक्त श्री स० ॥६५॥ जीव स्यास्ति निर्वाण
 मिति श्रद्धान स्थानयुक्त श्री स० ॥६६॥ अस्ति
 पुनर्माक्षो पयेति श्रद्धान स्थान युक्त श्री स०
 ॥६७॥ इति ॥

॥ श्रीज्ञान पदकी ५१ जयती ॥

स्पर्श नेंद्री व्यंजनाव ग्रह मति ज्ञानाय नमः
 ॥१॥ रसनेंद्री व्यंजनाव ग्रह मतिज्ञानाय नमः
 ॥२॥ घ्राणेंद्री व्यंजनावग्रह मति ज्ञानान नमः
 ॥३॥ श्रोत्रेंद्री व्यंजनाव ग्रह मतिज्ञानाय नमः

- ॥४॥ स्पर्शनैद्री अर्थाव ग्रह मति ज्ञानाय नमः ।
 ॥५॥ रसनैद्री अर्थाव ग्रह मति ज्ञानाय नमः ।
 ॥६॥ घ्राणैद्री अर्थाव ग्रह मति ज्ञानाय नमः ।
 ॥७॥ चक्षुरिद्री अर्थाव ग्रह मति ज्ञानाय नमः ।
 ॥८॥ श्रोत्रैद्री अर्थाव ग्रह मति ज्ञानाय नमः ।
 ॥९॥ मनऽर्थाव ग्रह मति ज्ञानाय नमः ॥१०॥
 स्पर्शनैद्री ईहा मति ज्ञानाय नमः ॥११॥ रस
 नैद्री ईहा मति ज्ञानाय नमः ॥१२॥ घ्राणैद्री
 ईहा मति ज्ञानाय नमः ॥१३॥ चक्षुरिद्री ईहा
 मति ज्ञानाय नमः ॥१४॥ श्रोत्रैद्री ईहा मति
 ज्ञानाय नमः ॥१५॥ मन करी ईहा मति ज्ञा-
 नाय नमः ॥१६॥ स्पर्शनैद्री-अपायमतिग्यानाय
 नमः ॥१७॥ रसनैद्री अपायमति ज्ञानाय नमः
 ॥१८॥ घ्राणैद्री अपायमति ग्यानाय नमः ॥१९॥
 चक्षुरेन्द्री अपाय मति ग्यानाय नमः ॥२०॥
 श्रोत्रैद्री अपाय मति ज्ञानाय नमः ॥२१॥ मन
 करी अपाय मति ज्ञानाय नमः ॥२२॥ स्पर्श

नेत्री धारणा मति ग्यानायनमः ॥२३॥ रसनेत्री
 धारणा मति ग्यानायनमः ॥२४॥ घ्राणेत्री धा-
 रणा मति ज्ञानायनमः ॥२५॥ चक्षुर्हित्रीधारणा
 मति ग्यानायनमः ॥२६॥ श्रोत्रेत्री धारणामति
 ग्यानाय नमः ॥२७॥ मनो धारणा मति ग्या-
 नाय नमः ॥२८॥ अक्षर श्रुत ग्यानाय नमः
 ॥२९॥ अनक्षर श्रुत ग्यानायनमः ॥३०॥ संज्ञी
 श्रुत ग्यानाय नमः ॥३१॥ असंगी श्रुत ग्या-
 नाय नमः ॥३२॥ सम्यक् श्रुत ग्यानाय नमः
 ॥३३॥ असम्यक् श्रुत ग्यानाय नमः ॥३४॥
 सादि श्रुत ग्यानाय नमः ॥३५॥ अनादि श्रुत
 ग्यानाय नमः ॥३६॥ सर्पयवसति श्रुत ज्ञानाय
 नमः ॥३७॥ अपर्य वसति श्रुत ग्यानाय नमः
 ॥३८॥ गमिक श्रुत ग्यानाय नमः ॥३९॥ अग
 मिक श्रुत ग्यानाय नमः ॥४०॥ अंग प्रविष्ट
 श्रुत ग्यानाय नमः ॥४१॥ अनंग प्रविष्ट श्रुत
 ग्यानाय नमः ॥४२॥ अणुंगामि अवधि ग्यानाय

नमः ॥४३॥ अणूणगामि अवधि ग्यानाय नमः
 ॥४४॥ बहुमाने अवधि ग्यानाय नमः ॥४५॥
 हीय मान अवधि ग्यानाय नमः ॥४६॥ प्रति
 पाती अवधि ग्यानाय नमः ॥४७॥ अप्रति पाती
 अवधि ग्यानाय नमः ॥४८॥ रिजुमति मनपर्यव
 ग्यानाय नमः ॥४९॥ विपुल मति मन पर्यव
 ग्यानाय नमः ॥५०॥ लोका लोक प्रकाशरु
 श्री केवल ग्यानाय नमः ॥५१॥ इति ॥

॥ श्रीचारित्र पदकी ७० जयती ॥

प्रोणाति पातं विरमणरूप चारित्राय नमः ॥१॥
 मृपा वाद विरमण रूप चारित्राय नमः ॥२॥
 अदत्ता दान विरमण रूप चारि० ॥३॥ मैधुन
 विरमण रूप चारि० ॥४॥ परिग्रह विरमण
 रूप चारि० ॥५॥ क्षमा धर्म रूप चारित्रेभ्यो
 नमः ॥६॥ आर्यधर्म रूप चारित्रेभ्यो नमः
 ॥७॥ मृदुता धर्म रूप चारित्रेभ्यो नमः ॥८॥

सुक्त धर्म रूप चारित्र्येभ्यो नमः ॥९॥ तपो-
 धर्म रूप चारित्र्येभ्यो नमः ॥१०॥ संयम ध-
 र्म रूप चारित्र्येभ्यो नमः ॥११॥ सत्य धर्म
 रूप चारित्र्येभ्यो नमः ॥१२॥ शौच धर्म रूप
 चारित्र्येभ्यो नमः ॥१३॥ अकिंचन धर्म रूप
 चारि० ॥१४॥ बंभ धर्म रूप चारि० ॥१५॥
 प्रथ्वी रक्षा संयम चारि० ॥१६॥ उदग रक्षा
 संयम चारि० ॥१७॥ तेउ रक्षा संयम चारि०
 ॥१८ ब्राउ रक्षा संयम चारि० ॥१९॥ वन-
 रूपति रक्षा संयम चारि० ॥२०॥ वेइंद्री रक्षा
 संयम चारि० ॥२१॥ तेइंद्री रक्षा संयम
 चारि० ॥२२॥ चौरिंदी रक्षा संयम चारि०
 ॥२३॥ पंचेन्द्री रक्षा संयम चारि० ॥२४॥
 अजीव रक्षा संयम चारि० ॥२५॥ प्रेक्षा संयम
 चारि० ॥२६॥ उपेक्षा संयम चारि० ॥२७॥
 अतिरक्त वस्त्र भक्तादि परठण त्याग रूप संयम
 चारि० ॥२८॥ प्रमार्जन रूप संयम चारि० ॥

- ॥२९॥ मनः संयम चारि० ॥३०॥ वाक् संयम
 चारि० ॥३१॥ काया संयम चारि० ॥३२॥
 आचार्य वेया वृत्य रूप सयम चारि० ॥३३॥
 उपाध्याय वेया वृत्य रूप सयम चारि० ॥३४॥
 तपस्वी वेया वृत्य रूप चारि० ॥३५॥ अधु क्षि-
 प्यादि वेया वृत्य रूप चारि० ॥३६॥ श्लान
 साधु वेया वृत्य रूप चारि० ॥३७॥ साधु वेया
 वृत्य रूप चारि० ॥३८॥ श्रमणो पाशय वेया
 वृत्य रूप चारि० ॥३९॥ संघ वेया वृत्य रूप
 चारि० ॥४०॥ कुल वेया वृत्य रूप चारि०
 ॥४१॥ गण वेया वृत्य रूप चारि० ॥४२॥ पशु
 पङ्गादि रहित वशति वसण ब्रह्म गुप्त चारि०
 ॥४३॥ स्त्री हास्यादि विकथा वर्जन ब्रह्म गुप्त
 चारि० ॥४४॥ स्त्री आशन वर्जन ब्रह्म गुप्त
 चारि ॥४५॥ अगोपांग निरीक्षण
 ब्रह्म ॥४६॥ तर सहित स्त्री व
 सुणन - त्त चारि० ॥४७॥

स्त्री संभोग चिंतन वर्जन ब्रम्ह० ॥४८॥ अति
 सरस आहार वर्जन ब्रम्ह० ॥४९॥ अति आहार
 करण वर्जन ब्रम्ह० ॥५०॥ अंग विभूषण वर्जन
 ब्रम्ह ॥५१॥ अणशण तपो रूप चारि० ॥५२॥
 उणो दरी तपो रूप चारि० ॥५३॥ वित्ति सं-
 खेव तपो रूप चारि० ॥५४॥ रस त्याग तपो
 रूप चारि० ॥५५॥ काय किलेस तपो रूप
 चारि० ॥५६॥ संलेखणा तपो रूप चारि०
 ॥५७॥ प्रायच्छित्त तपो रूप चारि० ॥५८॥
 विनय तपो रूप चारि० ॥५९॥ वेद्या वच्च तपो
 रूप चारि० ॥६०॥ सज्ज्ञायतपो रूप चारि०॥
 ॥६१॥ ध्यान तपो रूप चारि० ॥६२॥ उपसर्ग
 तपो रूप चारि० ॥६३॥ अनंत ग्यान संयुक्त
 चारि० ॥६४॥ अनंत दर्शन संयुक्त चारि०
 ॥६५॥ अनंत चोरित्र संयुक्त चारि० ॥६६॥
 क्रोध निग्रह करण चारि० ॥६७॥ मान निग्रह
 करण चारि० ॥६८॥ माया निग्रह करण

चारिः ॥६९॥ लोभनिग्रह करण चारित्र्येभ्यो
नमः ॥७०॥ इति ॥

॥ श्रीतप पदकी ५० जयती ॥

यावत् कथत् तपसे नमः ॥१॥ इत्वर तप
भेद तपसे नमः ॥२॥ वाह्य उणो दरी तपभेद
तपसे नमः ॥३॥ अभ्यन्तर उणोदरी तप भेद
तपसे नमः ॥४॥ द्रव्य तप वित्ती संखेप तप
भेद तपसे नमः ॥५॥ क्षेत्र तप वित्ती संखेप
तप भेद तपसे नमः ॥६॥ काल तप वित्ती
संखेप तपभेद तपसे नमः ॥७॥ भावतप वित्ती
संखेप तप भेद तपसे नमः ॥८॥ काय किलेश
तप भेद तपसे नमः ॥९॥ रस त्याग तप भेद
तपसे नमः ॥१०॥ इ ड्री कपाय जोग विषयक
संलीणता तपसे नमः ॥११॥ स्त्री पशु पंड-
कादि वर्जित स्थान अवस्थित सलीणता तपसे
नमः ॥१२॥ आलोयण प्रायश्चित्त तपसे नमः

॥१३॥ पडिक्रमण प्रायश्चित्त तपसे नमः ॥१४॥
 मिश्र प्रायश्चित्त तपसे नमः ॥१५॥ विवेक प्राय
 श्चित्त तपसे नमः ॥१६॥ उपसर्ग प्रायश्चित्त तप
 से नमः ॥१७॥ तप प्रावृत्त तपसे नमः ॥१८॥
 भेद प्रायश्चित्त तपसे नमः ॥१९॥ मूल प्राय-
 श्चित्त तपसे नमः ॥२०॥ अणवस्थित प्रायश्चित्त
 तपसे नमः ॥२१॥ पारं चिय प्रायश्चित्त तपसे
 नमः ॥२२॥ त्याग विनय रूपतपसे नमः ॥२३॥
 दर्शन विनय रूप तपसे नमः ॥२४॥ चारित्र
 विनय रूप तपसे नमः ॥२५॥ गुर्वादिक मन
 विनय रूप तपसे नमः ॥२६॥ वचन विनय रूप
 तपसे नमः ॥२७॥ काय विनय रूपतपसे नमः
 ॥२८॥ उपचारक विनय रूपतपसे नमः ॥२९॥
 आचार्य वेद्या वच्च तपसे नमः ॥३०॥ उपा-
 ध्याय वेद्या वच्च तपसे नमः ॥३१॥ साधू वेद्या
 वच्च तपसे नमः ॥३२॥ तपस्वी वेद्या वच्च
 तपसे नमः ॥३३॥ लघु सिष्यादि वेद्या वच्च

तपसे नमः ॥३४॥ गिलाण साधु वेया वच्च
 तपसे नमः ॥३५॥ श्रमणो, पांसक वेया वच्च
 तपसे नमः ॥३६॥ संघ वेया वच्च तपसे नमः
 ॥३७॥ कुल वेया वच्च तपसे नमः ॥३८॥
 गण वेया वच्च तपसे नमः ॥३९॥ वायणा तप
 से नमः ॥४०॥ प्रच्छन्ना तपसे नमः ॥४१॥
 परा वर्त्तना तपसे नमः ॥४२॥ अनु, प्रेक्षा
 तपसे नमः ॥४३॥ धर्मकथा तपसे नमः ॥४४॥
 आर्त्त ध्यान निवृत्त तपसेनमः ॥४५॥ रौद्रध्यान
 निवृत्त तपसे नमः ॥४६॥ धर्मध्यान चित्तन तप
 से नमः ॥४७॥ शुक्ल ध्याद चित्तन तपसेनमः
 ॥४८॥ बाह्य उपसर्ग तपसे नमः ॥४९॥ अभ्यं
 तर उपसर्ग तपसे नमः ॥५०॥ इति ॥

॥ नव पद चैत्य वंदन स्तवन

शुद्ध प्रारम्भ ॥

अरिहंत पद चैत्य वंदन ।

जय जय श्री अरिहत भानु । भवि कमल

विकाशी ॥ लोका लोक अरूपि रूप । सम
 वस्तु प्रकाशी ॥१॥ समुद्रघात शुभ केवले ।
 क्षय कृत मल राशी ॥ शुक्ल चरम शुचि पाद
 सैं । भयो वर अविनासी ॥२॥ अंत रंग रिपु
 गण हणिण । हुय अप्पा अरिहंत ॥ तसु पद
 पंकज में रहत । हीर धरम नित संत ॥३॥
 ॥इति॥ जिंकिंचि० नमो च्छुणं० जावंति० जा-
 वंति के० नमोऽर्हत् ॥

॥ श्री अरिहंत पद स्तवन ॥

श्री तेमर गुण वसिके कंत । कर्म कूं भंज
 श्री अरिहंत ॥ मन मान ले० ॥ अष्ट समय
 में समय तीन । सर्व आहार थी होवें हीन ॥
 म० ॥१॥ वादर कोय मनवच भोग । तनु तनु
 सैं फुन दृढ़ तनु योग ॥ म० ॥ सुखम कायते
 मन वच रोक । निज वीर्ये ताकुं कर फोक
 ॥ म० ॥२॥ संज्ञी मात्रके मन व्यापार । वे

इंद्रो नें वाक्य प्रचार ॥ म० ॥ आदि समय
 रह्यो पणक सुजाव । सुखम लह्यो तिण जोग
 अतीव ॥म०॥३॥ एपां योग थी समये एक ।
 हीना संख गुणो कर छेक ॥ म० ॥ समया
 संखें जोग निरोध । कृत्वा जो लह्यो जोगी
 सोध ॥म०॥४॥ वेद समें ना हारता पाय ।
 कुशल कहे ते श्री जिनराय ॥ म० ॥ तेरमे
 गुण में गुण समें देव । आपोसा जग कू नित
 मेव ॥ म० ॥५॥ इति ॥

॥ श्री अरिहत पद थुई ॥

सकल द्रव्य पर्याय प्ररूपक । लोका लोक
 स्वरूपो जी ॥ केवल ग्यानकी ज्योति प्रकाशक
 अनंत गुणों करि पूरोजी ॥ तीजे भव थानक
 आराधी । गोत्र तीर्थ कर नूरो जी ॥ वारे
 गुणां करी एहवां अरिहत आराधो गुण भूरो
 जी ॥१॥ इति ॥

॥ सिद्ध पद चैत्य वंदन ॥

श्री शैलेसी पूर्व प्रांत । तनु हिनत भागी
 पुव्व पओगप संग सों । ऊरध गत जागी ॥१॥
 समथ एक में लोक प्रांत । गये निगुण निरागी
 चैतन भूपें आत्म रूप । सुदिसा लही सागी
 ॥ २ ॥ केवल दंसण नाण थी ए । रूपा तीत
 स्वभाव ॥ सिद्ध भये तसु हीर धर्म । वंदे धरि
 सुभ भाव ॥ ३ ॥ इति ॥

॥ सिद्ध पद स्तवन ॥

थार महिला ऊपर मेह झरोखे वीजली ।
 (ए चाल) अष्ट वरस नग मास हीना कोड़ी
 पूर्व में (म्हारा लाल ही०) । उतकृष्टो करे
 वास संयोगी धाममे (म्हा०स०) ॥ अजोगी
 के अंत तजे भव भव्यता (म्हारा० त०) ।
 शैले शील हे कर्म दले-गुण श्रेणिता (म्हा०
 द०) ॥१॥ हस्वाक्षर पंच काल रहे ते योगमें

(म्हा० र०) । तेरस प्रकृतिनो अंत करीनें
 अंतमें (म्हा० क०) ॥ गमन करे नगरजसों ।
 अक्रिय होय नें (म्हा० अ०) पुव्व पयोग
 असंग स्वभाव अवंधनें (म्हा० स्व०) ॥२॥ इपु गुण
 नव परमाण जोजन लक्षे कही (म्हा० जो० ॥
 वर्तुल विसदा भाश निरालंबन सही (म्हा०
 नि०) मध्ये जोजन अष्ट घना कृति अंतमें
 (म्हा० घ०) मक्षी पक्ष थी हीनभणी सिद्धांत
 में (म्हा० भ०) ॥३॥ तनु पवभारा नाम शिला
 सों जोयनें (म्हा० शि०) लघु अंगुल वत्तीस
 प्रमाणऽवगाहना (म्हा० प्र०) वृद्धि धनु शत-
 पंच गुणासैं हीनता (म्हा०) मिलिया एकमें
 नंत अवाधा नालही (म्हा० अ०) ॥४॥ अष्ट प्राण
 धरि रम्य, सिरीही जो सही (म्हा० सि०)
 वीजो पद श्री सिद्ध धरो । मन गेहमें (म्हा०
 धरो०) कुशल भेय जग जीव मिलोगा तेह में
 (म्हा० मि०) ॥५॥ इति ॥

॥ सिद्ध पद थुई ॥

अष्ट करम कूं धमन करीनें । गमन कियो
 शिव वासी जी ॥ अव्या बाध सादि अनादि ।
 चिदा नंद चिदराशीजी ॥२॥ पर मातम पदपूरण
 विलाशी । अघ घन दाघ विनाशी जी ॥ अनंत
 चतुष्टमय शिव पद ध्यावो । केवल ज्ञानी
 भाशी जी ॥२॥ इति ॥

आचार्य पद चैत्य वंदन

जिन पद कुल मुखरस अनिल । मित रस
 गुण धारी ॥ प्रबल सबल घन मोहकी । जि-
 णते चमुहारी ॥१॥ ऋज्वादिक जिन राज गीत
 नय तय विस्तारी ॥ भव कूपे पापें पड़त । जग
 जन निस्तारी ॥२॥ पंचा चोरी जीव के । आ-
 चारज पद सार । तिन कूं वंदे हीर धर्म ।
 अहोत्तर सो वार ॥३॥ इति ॥

॥ आचार्य पद स्तवन ॥

खंति खड़ग थी जेणें । हणयो क्रोध सुभट

सम देणों हो (गणपति गुणपेखी) । मान महा
 गिरि वयरें । अतिसोभनमद्ववयरें (होग०) । १ ।
 दंभ रूप विश वेली । वर अज्जव कीले ठेली
 हो (ग०) । मूर्च्छा वेल थी भरियो । लोह
 सागर मुत्तें तरियो हो (ग०) ॥ २ ॥ मदन
 नाग मद हीनो । जिण दम शंम जंत्रे कीनो
 हो (ग०) मोह महो मल्ल ताड्यो । पुण
 वैराग मुगरें पाड्यो हो (ग०) ३ ॥ दोष
 गयंद वश कीनो । धरि उपशम अंकुश लीनों
 हों (ग०) अंत रंग रिपु भेद्या । सुर वर
 पिण जिणणिपेध्या हो (ग०) ॥ ४ ॥ रस कृति
 गुण थी लीनो । सूत्र अरथे आगम पीनो हो
 (ग०) आचारज पद एहवो । धरि जीव
 कुशलता सेवो हो । (ग०) ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ आचार्य पद थुई ॥

पंचा धार कूंपाले उज वाले । दोष रहित
 गुण धारी जी ॥ गुण छत्तीसे आगम धारी ।

द्वादश अंग विचारीजी ॥ प्रबल सबल धनमोह
हरण कूं । अनिल समो गुणवाणीजी ॥ क्षमा
सहित जे संयम पाले । आचारज गुण ध्यानी
जी ॥१॥ इति ।

उपाध्याय पद चैत्य वंदन

धन धन श्री उवझाय राय । सठता धन
भंजन । जिनवर दिसत दुवाल संग । कर कृत
जन रंजग ॥१॥ गुण वण भंजण मण गयंद ।
सुय श्रृणि किय गंजण । कुणा लंघ लोय लो-
यणें । जत्थय सुय मंजण ॥२॥ महा प्राण में
जिन लह्यो ए । आगम सें पद तुर्य । तिनपें
अहि निशि हीर धर्म । वंदे पाठक वर्य ॥३॥
इति ।

उपाध्याय पद स्तवन

सांवलिया अलगा रहोनें (ए चाल) हुयनें
हुयनें हुयनें दूरी हुयनें । चेतन भाखें सठनें

(दूरी होयने) तुं मुझपास क्यूं आवे (दू०)
 तुझने कुण बतलावे । (दू० आंकणी) तो संगे
 निज पंचेंद्रीनो । रचना चरम भुलाणो । नाणा
 बरिणी खय उपशम , सें । भावेंद्री मंडाणो
 (दू०) ॥१॥ द्रव्येते परजाप्तें कीना । जाति
 नाम व्यपदेशें । एवंतो गो तुरग गजादिक क्ष-
 णकमें उपदेशें (दू०) ॥२॥ इत्यादिक बहु मुझ कूं
 शंका । तेरे संते लागी । नील वर्ण की समता
 सेती । मैं भयो तोमूं रागी (दू०) ॥३॥ उप
 कहियें हणियो भवि यानो । अधियां लाभत
 आय । आधीनां मन पीड़ाना में । मायो येन
 विलाप (दू०) ॥४॥ आधिक्ये स्मरिये वर आ-
 गम । सूत्र सें ते उवझाय । तत् सेवा ते हणि
 सठता कूं । चेतन कुशलता पाय (दू०) ॥ ५ ॥
 इति ।

॥ उपाध्याय पद शुद्ध ॥

अंग डग्यारे घड दे पूरव । गुण पच वी-

ले । नव विध ब्रम्ह व्रत पाले जी ॥ पंच महा
 व्रत सूधा पाले । धर्म शुल्क उज वाले जी ॥
 क्षपक श्रोणी करि कर्म खपावे । दम पद गुण
 उपजावे जी ॥इति॥

॥ दर्शन पद चैत्य वंदन ॥

हुय पुग्गल परि यट्ट । अट्ट परमित संसा-
 र । गंठि भेद तव करिल हे । सब गुण आ-
 धार ॥१॥ क्षायक वेदक शशि असंख उव शम
 पणवार । विना जेण चारित्र नाण । नहिं हुवे
 शिव दातार ॥२॥ श्री सुदेव गुरु धर्म नीए ।
 रुचि लंछन अभिराम । दरशन कूं गणि हीर
 धर्म । अह निश करत प्रणाम ॥३॥ इति ॥

॥ दर्शन पद स्तवन ॥

रामचन्द्रके बाग आंवो मोह रह्योरी (ए
 चाल) देवें श्री जिनराज । गुरुते साधु भ-

प्योरी । धर्म जिनेश्वरं प्रोक्त । लक्षण बोधि
तणोरी ॥१॥ बोध लाभके काज । सप्तम
नरक भलोरी । तेण विना सुर लोक । तासे
अधिक बुरोरी ॥२॥ मिथ्यां तोपे तप्त । बोध
ही छांहल, हेरी । उपशम ख्यापक वेद । ईश्व-
र तीन, कहेरी ॥३॥ , भव सागर हे अपार ।
फुण अस्ताथ कह्यो री । जसु लाभे ते होय ।
गोस पद मात्र खरोरी ॥४॥ यद भावें अप्र-
माण । नाण चारित्त भलारी । बोध धर्ममें
जीव । लाभे कुशल कलारी ॥५॥ इति ॥

॥ दर्शन पद थुई ॥

जिन पन्नत्त तत्व सूधा सरधे । सम कित गुण
उजवावे जी ॥ भेद छेद करि आत्म निरखी
पशु टाली सुर पावे जी ॥ प्रत्या ख्या ने सम
तुल्य भाख्यो । गण धर अरि हत सूरुा जी ॥
ए दरशन पद नित नित वंदो । भव सागर
को तीरा जी ॥इति॥१॥

॥ ज्ञान पद चैत्य वंदन ॥

क्षिप्रादिक रस राम अन्हि । तिम आदम ना-
ण । भाव मिलाप सें जिन जनित । सुय वीश
प्रमाण ॥१॥ भव गुण पञ्चव ओहि दोय ।
जगलोचन नाण । लोका लोक स्वरूप जाण
इक केवल भाण ॥२॥ नाना वरणी नास थि-
ये । चेतन नाण प्रकाश । सप्तम पद में हीर
धर्म । नित चाहत अवकाश ॥३॥ इति ज्ञान
पद चैत्य वंदन ॥

॥ ज्ञान पद स्तवन ॥

म्हारे अनि उछ रंगे (एचाल) जिनवर
भाषित आगम भणियो तत्व यथा स्थिति ग-
मिया जी ॥ (म्हारे जग जन तारू) ते उत्तम
वर नाण कहाये । भवि जन अह निशि चाहें
जी (म्हा०) ॥१॥ भक्षा भक्ष कुपंथ सुपंथा ।
पेया पेय अग्रन्था जी (म्हा०) देव कुदेव

अहित हित धारी । जाणे जेण विचारीजी
 [म्हा०] ॥२॥ श्रुति मति दोयछे इंद्री सारू
 तेण परीक्ष विचारू जी [म्हा०] ओही मण
 केवल हें वारू । जीव प्रत्यक्ष सुधारू जी (म्हा०)
 अयवि जस्त वलें जग जाणें लोकादिक अनु-
 मानें जी [म्हा०] त्रिभुवन पूजे जासु पसार्यें ।
 धारी शुभ अद्य वसार्यें जी [म्हा०] ॥४॥
 नाणा वरणी उपशम क्षय थी । चेतन नाण कूं
 विलसैजी [म्हा०] सप्तम पदमें भविजन हरखें ।
 निश दिन कुशलता निरखें जी [म्हा०] ॥इति॥

॥ ज्ञान पद शुद्ध ॥

मति श्रुति इन्द्री जन्मित कहिये । लहिये गुण
 गम्भीरा जी ॥ आत्म धारी गण धर वि-
 चारी । द्वादश अंग विस्तारी जी ॥ अवधि
 मन पर्यव केवल वलि । प्रत्यक्ष रूप अवधारो
 जी ॥ ए पांच ग्यान कूं वंदो पूजो । भविजन
 नें सुकारो जी ॥इति॥१॥

॥ चारित्रि पद चैत्य वंदन ॥

जस्त पसायें साहु पाय । जुग जुग समितें
 दें । नमन करे सुभ भाव लाय । फुण नरपति
 वृन्दें ॥१॥ जंपे धरि अरिहंत राय ॥ करि
 कर्म निकंद । सुमति पंच तीन गुप्ति युत । दे
 सुख अमंद ॥२॥ इखु कृति मान कषाय
 थीये । रहित लेश सुचि वंत । जीव चरित्त कूं
 हीर धर्म । नमन करत नित संत ॥३॥इति॥

॥ चारित्रि पद स्तवन ॥

निर्वि कल्प अज निर्गुणी । चिदा भास
 निस्संग । [सुग्यानी सांभलो] मूर्ति हीन
 चेतन करे । रूपी पुदगल रंग ॥[सुग्यानीसा०]
 ॥१॥ स्यद्धक कारण वर्गणो ॥ कार्ये कारण
 भाव (सु०)कृत्वा जोग सुधो भता । लब्धा संख
 स्वभाव [सु०] ॥२॥ पर्याप्तो लघु जोग में ।
 वृद्धि लहे जुग मान [सु०] मध्ये वसु समयें

लहे । अतें द्वौ तेजाण[सु०] ॥३॥ सहकारी
 मानस सुखा । कारण रम्य वलेण (सु०] प्रा-
 प्ता घल्ल प्रकारता सप्त प्रभृत कातेन ।
 (सु० सा०) ॥४॥ तद्रो धन रूपी भलो । चे-
 तन सयम धाम (सु०) करघन मिल पद धर्म मे
 कुशल भवतु अभिराम (सु० ॥५॥इति॥

चारित्र पद थुई

करम अपचप दूर खपावे । आत्म ध्यान
 लगावे जी ॥ वारे भावना सूधी भावे । सा-
 गर पार उतारें जी ॥ पट खंड राज को दूर
 तजीने । चक्रीसंयम धारें जी ॥ एहवो चारित्र
 पद नित वंदो । आत्म हित गुण कारे जी ॥
 ॥इति॥

तपपद चैत्य वंदन

श्री ऋषभादिक तीर्थ नाथ । तद्भव शिव
 जाण । विहि अंते रपि वाह्य । मध्य द्वादश प-

विमान ॥१॥ वसु कर मित ओमो सही ।
 आदिक लब्धि निदान । भेदे समता युत
 क्षिणो । दृग्घन कर्म विमान ॥२॥ नवमो श्री
 तप पद भलोए । इच्छा रोध सरूप । बंदन से
 नित हीर धर्म । दूर भवतु भवकूप ॥३॥ इति ॥

तप पद स्तवन

वारश भेद भणया जिन राजे । बाह्य
 मध्य तणा जग काजे रे ॥ शिव पदनी श्रेणी
 तिण भव सिद्धि तणा बर ग्याता । जिन वर
 पिण तपना कर्ता रे । शि० ॥१॥ शमता सहिते
 जिनते भारी । भली कर्म चणं पिण हारी रे
 शिव० जीव कनक से कर्म कचोरा । दहे तप
 पावक का जोरारे । शि० ॥२॥ तप तरु वग्ना
 कुगम हे ऋद्धि । देव नरनी फल ते सिद्धि रे
 शि० पाप सकल है तमनी राशी । तप भानू
 से जाये नाशी रे शि० जस्त पसाये लहिये

वारू । लब्धा -सगळी जग,हित ,कारू,रे,।
 ॥शि०॥ अतिदुकर फुण,साध्यत ,हीना । काम
 -तातें वारू क्रीनारे ॥,शि० ॥४॥ इच्छा रोधन
 -रूपी कहिये । तप पद ही चेतन बहिये-रे ॥
 शि० ॥५॥ इति ॥

॥ तप पद थुई ॥

इच्छा रोधन तपंते भाख्यो आगम तेहनो
 साखी जी । द्रव्य भाव सें द्वादश दाखी जोग
 समाधी राखी जी । 'चेतन'निज गुण परिणत
 पेखी । 'तेहित तप गुण दाखी जी ॥ लब्धि
 सकलनो कारण देखी । 'ईश्वर से मुख भाखी
 जी ॥ इति ॥ श्री नव पद चैत्य वंदन स्तवन
 थुई सम्पूर्णम् ॥

॥ अथ सिद्ध चक्र स्तुति ॥

प्रण,मत सुर,नर पाय पकज सिद्ध साधू
 न सुख करू । श्री,सिद्ध चक्रनो ध्यान धरतां ।

विकथा मदभवभयहरूं । श्रीतीर्थकर सिद्धिसूरि
 पाठक मुनि दर्शन ध्याइये न्यांन चरण तप
 मुक्ति दाता सदा वंछितपाइये ॥१॥ अरिहंत
 दर्शन ग्यान चारित्र तपस उज्जल कह्या । लाल
 सिद्धे श्री सूरि पीलो हरया उवझाय सरदह्या
 इयाम चरण सुजान साधू चरणएह वामे थुण्या
 जे जिनन्द हुवावलिय होस्ये । संति प्रभाये ते
 भरया ॥२॥ चैत्र आश्विनसुदीसातम पूर्णिमा
 तप शुभकरो आठे थुइयेदेव वंदी वर्णनआंबिल
 शुद्ध वरो । सहस्त्र वै वे जोप जपिये उभय
 आवश्यक अरू । तेजदार विचार आगम भोभ
 वियण सुख करू ॥३॥ इम च्यार बर्ष छ मास
 ऊपर एहनो तप जै करे विमलादि वे देव चके-
 श्वरी ए विघन दुःख दरे हरे गच्छ खरतर
 भविक सुखकर श्रीअखय सूरि स्वरू तस चरण
 सेवक चदंप भणे चंद सम नित सुख करू ॥४॥

इति ।

॥ पुनः स्तुति ॥

जग नायक दायक सिद्ध चक्र सुख कंद ।
 जेह नाज पथी भाजे भय भव कंद श्री पाल ने
 मैणा विधि सेये तप कीध नवपद थी थासे अष्ट
 सिद्धि नवनिद्धि ॥१॥ जिन सिद्ध आचारज
 पाठक श्री मुनि राय । दरशणे ज्ञान चारित्र
 नवमो तप कह वाय । एक एक पद ध्याता
 जीव तरघ्या संसार चोवीसी प्रणमूं कीधो भवि
 उपगार ॥२॥ ओसू वलि चैत्रे सुदी सातम
 थी जान । ओलीकी जे शुभ भावे आंवल कर
 पचखाण । पद पद नो गुणनोकी जेमन सुज
 गीस । आगम माहे वोल्यो ध्यावो तुम निस
 दीस ॥३॥ विमलादिक देवो देवि चक्केसरी
 मात सिद्ध चक्र ना सेवक आपे वांछित दान
 खर तर गछ दिन कर श्री जिन अखय सुरिंद
 तासु चरण पसायें भाखें श्री जिन चन्द ॥४॥

इति ।

॥ सिद्ध चक्र स्तुति ॥

सुख संपत्ति दायक समरुं वीर जिणन्द ॥
 जिन नव पद महिमा लखी ग्यान दिणंद ॥
 आसु मध उज्वल सातम थी नव दीस । नव
 आंचिल करिये मन धरई अधिक जगीस ॥१॥
 अरिहंत बलीं सिद्ध आचारज उवझाय । मुनि
 दंसणं पद तिमं नाणं चरेण तव पोय ॥ प्रति
 पद नो गुणणो गुणिये दोय हजारं । सहं जिन
 नी पूजा कीजे अष्ट प्रकार ॥२॥ दुवालसं
 अंडं छत्रीसपचवीस सगवीसं सारं । सठ सट्टई
 कावन सित्तरं पचास प्रकार ॥ इम संख्या
 काउस्सग प्रदक्षिणाय प्रमाण आगमतासितं
 विधईम कीजे नित अभिरामं ॥३॥ चक्केसरि
 देवी तिम विमलेसरयक्ष । श्रीपाल तणी परेपूरे
 वंच्छित्त दक्ष । इण आराधो सिद्धचक्रं तपप्राणी
 जिम हर्ष वंधे नित श्री जिन चन्द्र नीवांणी ॥
 ॥४॥ इति ॥

॥ सिद्ध चक्रजी स्तवन ॥

नव पद नां गुण गावो ॥ तेमः अनोपमा
संपत्ति चाहो रे । भविका श्री सिद्ध चक्र आ-
राधो । श्री सिद्ध चक्र आराधो मत्तः वञ्छितः
कारज साधोरे ॥ भवियाः ॥ १ ॥ पद पहिले
अरिहंत ध्यावो ॥ जिम अरिहत पदवीं पावोरे ॥
भवि० ॥२॥ पददूजे सिद्ध मत्तावो ॥ जिम सिद्ध
स्वरूप होय जावो रे ॥ भ० ॥३॥ सूरि तीजे
गुग वंता ॥ गच्छ नोयक जगज्जय वंता रे ॥ भ० ॥
॥४॥ चौथे पद उवझाया । जिन मारण
आण वनाया रे ॥ भ० ॥५॥ साधु सकल
गुण धारी । पद पांचमें जग हितकारी रे ॥ भ० ॥
॥६॥ दरशन पद छठो वंदो । जिम चिर-
जीवो चिरनन्दो रे ॥ भ० ॥७॥ ग्यान पद
सातमो दाख्यो । चारित्र पद अठमो
॥८॥ रे ॥ भ० ॥८॥ तप नवमो पद साचो ।
६ ग वचने राघो रे ॥ भ० ९ ॥

तप उज मणो करे सुविशाल ॥ तेल है भोग
 सदा गुण माल ॥ जिम मैना श्री पाल ॥ छांडी
 आत्मको आल जंजाल । नित नित आराधो
 त्रिण काल ॥ श्री सिद्ध गुण माल ॥३॥ उते
 गज गामिनी चंपक दल काय चाले जगने उर
 ठम काय हियडे हरसन माय ॥ कुंकुम चंदन
 तिल कर वाय । पेहरी पीत पटोली वनाय ॥
 लीलाई ललकाय ॥ वाली भोली चक्के सरि
 माय ॥ जेसेवें श्री सिद्ध चक्र राय दे तेहने
 सुसहाय ॥ श्री विजै प्रभु सूरी तप गळ राय ।
 प्रेमी जै गुरु सेवा पोय ॥ कांति विजय गुण
 गाय ॥४॥ इति ॥

गंधारे श्रीवीर जिणंद । जेहने सेवे सुरनर
 इन्द्र दीठे परमा नंद ॥ आसू चैत्र सुदि ।
 सातम थी आंबिल थी दिल धार नव पद
 ध्यान धरो सदा शुभ मन सूख कार
 ॥५॥ अरिहंत सिद्ध आचारज उवझाय उदार

॥न०॥१॥ साहू नाणदसण चरित्रं तप नवपद
 सारं । एं नव'पद अराधतां पामे भव जलपार
 ॥'न० ॥२॥ श्री २' पाल तणी पर रोग सोग
 पुंलोय' । एह भव सौहग संपदा एह थी सव
 भय मिट जाय ॥ न० ॥३॥ चक्केसरी पमुहा
 सुरा ध्यावो मन'वचकाय । भाव भूप सहित
 भणो दे द विजय गुण गाय ॥४॥ इति ॥

॥ नवपद प्राकृत स्तवनम् ॥

सें सति भवेहि मणु एहि जेहि विहि आ-
 रिहा इटाणोहि अज्जिज्जह जिणगुण'ते अरिहते
 पणी' वयामि । जे जग भव तरिया राय कुले
 उज्जमै'अव तरंति' महासुनि सुइय गुणा ते० ॥२॥
 जे सि जम्मपि' महियं दिसा कुमारय सुख
 रिदा ॥ कुब्जति यहा वेण ते० ॥ ३ ॥ आज-
 म्मधि हुजेसिं दे हे चत्तारि अडसया ह्ति लोग
 गच्छे'रय भूया ते० । ४॥ जेतिहु नांण समग्गा

खीण नाऊण भोग कम्म फलं पड़िक उजंति
 चरित्तं ते० ॥५॥ उवमत्ता अय भत्ता सि ज्ञाण
 खवग सेणि ह्यमोहा पावंति केवलं जेते० ॥६॥
 कम्मर कइया तह सुर कयाय जे शिव अहसया
 हुंति एगार सगुण वीसं । ते० ॥७॥ जे अठ
 पाडि हारेहिं सोहिया सेविया सुर वरिं देहि
 विहर तिसया कालं । ते० ॥८॥ ते पणापा
 सगुण गिराये जेय विवोहं कुणंति भव्वाणं ।
 महिवीठे विहरंता । ते० ॥९॥ अरिहंता वासा
 मन्नके बली अकय कयस मुग्धाया सैसेसी करं
 लेणं होऊणं अजोगि के वलिणो ॥१०॥

जेदु चर मर्स मपेसु दुस परि पयड़ी उतरे
 सपवरेमें खवि ऊण शिवं पत्ताते सिद्धा दितुमें
 सिद्धि ॥१॥ वरम गति भागोणा वगाहणा जेग
 समयं मि संयत्ता लोगगं तेसि० ॥२॥ युधप
 उग असंगा बंधच्छे या सही वउवो विजोसिं
 उट्टा हुगई तेसि० ॥३॥ ईसियब्भाराये उवीरं

खलु जो यण मिलो गते जे सिठि ईय सिद्धा
 तेसि० ॥४॥ जेय अणता अपुण व्भावाय अ-
 सरीरया अणे हरा दंसण नाणु व उत्ता तेसि०
 ॥५॥ जह नगर गुणो मिच्छो जाणतो विहु
 कहेउ मस मत्थो तह जेसि मुण ई नाणी ॥ते०
 ॥७॥ जे पंच विहा ओया रे आयरमाण सयाय
 यासति लोयाण पुग्ग हणत्थं ते आपरि एनमं
 सामि ॥१॥ देस कुल जाई रूवाड एहि वहु
 गुण गणेहि सजुत्ता । जे हुति 'युगे पचरा । ते
 आ० ॥२॥ जे निव्व मप्प मत्ता विगह वित्था
 कसाय परि वत्ता वम्मो वए समत्ता ॥ते०॥३॥
 जे सारण वारण चोयणाहि पडिवो यणाहि
 निव्वपि सारंति नियं गच्छं ॥ ते० ॥४॥ जे
 म्णिय सुत सारा । परोवयारि क्तप्परा दिति
 तसो वयेस दाणे ते० ॥५॥ अत्थ मिये जिण
 सूरे केवल वडे विजे पई उव्वप पडति इह पयत्थे
 त० ॥६॥ जे पाव भर ववते निवडंते भव महं

धकूवं मिनिथार पंति जीवे ते० ॥७॥ जे वार
 संग सिञ्जाय वर रगा धारे गात यथांणं तदु
 भय विथार रया तेहंज्जाये मिउञ्जाए ॥१॥
 पाहाण समोणे विहु कुणंति जे सुत्त धारया-
 सीसे सयल जण पूयणिज्जे ते० ॥२॥ मोहाहि
 दह नट्टप्प नाणजी वाण वेयणं दिति जेके विन
 रिंदा इव । ते० ॥३॥ अन्नाण वाहि विहुरयाणं
 पाणीणं सय रसायण सारं जे दिति महा
 विजा ते० ॥४॥ गुण भंजत मण गय दमणं
 उस सरिस नाण दाणं जे दिति सया भवि-
 याणं अन्नाणं धेव लोयाणं लोयणे जे पसत्य
 सत्य मुहा उग्घाडयंति सम्मं तेहं पद वा वन्न
 वन्न वंदणा सेणजे लोय पावता वाइ उवसा
 मथंति सहसा ॥ तेहं ॥७॥ जे राय कुमर तेछा
 गणपति पराय सूरिपप जुग्ग वायं तिसी सावग्गं
 ते० ॥६॥ जे दंसण नाण चारित्तरू वर यणत्त
 ण्ण इक्केण साहंति मुख मग्गं ते सब्बे सा-

हुणो वदे गय तुविह दहज्ज्ञाणा जेज्ज्ञाइय धम्म
 सुक्कज्ज्ञाण सिरकतिदु विह सिरकते० ॥ २ ॥
 गुत्तिज्ज्ञाण गुत्तेतिसल्ल रहियाति गारवविमुक्का
 जेया लयंति तियई ते० ॥३॥ चउ विह विगह
 विरत्ता जे वउ विह क्रसाय परिवत्ता वउ हादि
 सति धम्मं ते० ॥४॥ निज्जिप पन्न पमाया नि-
 ज्जिय पचेदि पाव पालंति पचे वयस इऊ ते०
 ॥५॥ छज्जीवका पर रक्खण निउणा दीसाह
 छक्क विमुक्खा जे धारं तिय वयछक्क ते सव्वे
 साहुणे वदे ॥६॥ जे जिय सत्त भया गय अट्ट
 मया नव विम्ब भगुत्तउ पालति अपमत्ता ते०
 ॥७॥ वस विह धम्मं तह वार सेव पडिमाओ
 जेउ कुव्वति वारस विहत्त वो विद ॥ते०॥८॥
 जे सतर सय मंगाउ वूढा हार सहस सी लांगा
 विह र ति कम्म भूमि सूते० ॥९॥ जं सुद्ध देव
 गुण धम्म तत्त सपत्ति सद हणरु वं वान्नज्जह
 सम्मत्त तसम्म वंसणं नमियो ॥१॥ सव्वन्नु-

पणा यागम भणि याणजहट्टियांणं भावाणी जो
 सुद्धो अव ओही ते सन्नाणं महय माणी ॥२॥
 जदेश विरद रूवां सव्व विरई रूवयं व अणु कम
 सो होइ गिहीण जईणं तं चारित्तं जये जण्ड
 उवाहि रमब्भि तरयं वारस भेयं जहुत्तर गुणं
 चजं वाणिज्जइ समयं मित तव पय मेस वंदामि
 ॥४॥ एवां चरां थुणं तो सो जाऊ नव पयेसु
 लाण मणो तह कह विज हापिरकई अप्पाण ।
 तम्मयं वे व इति प्राकृत गाथाबन्ध नवपद स्तुति॥

स्तवन

सिरि सिद्ध चक्र नव पय महल्ल पढ मिल्ल
 पय भय जिणंद असुरिंद सुरिंद चिय पय पंक
 पनाह तुज्झ नमो ॥१॥ सिरि रिस हे सरसा
 मिय कामिय फल दाण कप्प तरू कप्प कंदप्प
 दप्प गंजण भव भंजण तुज्झ नमो ॥२॥ सिरि
 नाभि नाम । कुलगर कुलकुल कम लुल्लास

परम हंस सम असम तम तमो भर हरणिक्र-
 पईव तुज्झ नमो ॥३॥ सिरिमरु देवा सामिणि
 उदर दरी दरीय केसरि कितोर घोर भुय दंड
 खंडित पयडभो हस्स तुज्झ नमो ॥४॥ इक्खागु
 वंश भूषण गय दूषण दुरि यम यगल मयद चद
 सम वयण विय सिय नीलुप्पल नाह तुज्झ नमो
 ॥५॥ आई सर जोई सर लय गय मण लक्ख
 लरि कय सरूव भव कूव पडिय जतू तारण
 जिण नाह तुज्झ नमो ॥६॥ कल्लाण कारणु-
 त्तम त्त कणाय कलस सरिस संठाण कंठद्विय
 कलकु तल नीलुप्पल कलिय तुज्झ नमो ॥७॥
 सिरि सिद्ध सेल मडण दुख संडण खयर राय
 नय पाय सयल मह सिद्धि दायक जिण नायक
 होउ तुज्झ नमो तुज्झ नमो तुज्झ देव वेव तुज्झ
 नमो ॥ इति स्तवन् ॥

अथ नव पद जी के मंडलका ध्यान चित्त
 मे करे उसको सूत्र गाथावांध नवपद महिमा

रूप लिखते हैं । गयण मक लिया यं तं उद्धो
 हसरं सणाय विन्दु कलं सयण वच्छीयाण हय
 मंत सरं सरह पीठीम का यह अडदि शिवलये
 सयण वमायाई सुवा एसु काहंतं सिद्धा इये
 दिशा सुदंसणा ईय ॥२॥ वाय वलयं नि अडद्वि
 सि दले सुसाण हए सरहवग्गे अंनर दले सुअट्ट
 सुझा यह पामेद्विय ठमपये ॥३॥ तइय वलयं
 अड दिसि द्विपांत अणाह येहि अंतरिये पायहि
 णेण तिहिं पंति याहि ज्ञाये एह लीद्ध पये ॥४॥
 ते पणव वीय चारिहं नमो जिणोणं ति एव
 महियां अड याली संनेया सम्मं सुगुरु वएसेणं
 ॥५॥ तंति गुणेणं मांयां विएणं सुद्धसेय वन्नेणं
 परि एडि अण परि हीए तस्स गुरु पाउए नमह
 ॥७॥ रेहा दुग कप कलसा गणमय मंडलं वतं
 सरह चउदिसि विदिस कमेणं जया हत्थं लाह
 कयं सेवं ॥८॥ च सिरि विमल सामिप गुहा
 ल देव देवीणं सह गुरु मुहाउ

जाणियनाण पयाणं कुणह ज्ञाणं ॥९॥ तं विज्जा
 देवि सासणं सुर सासणं देवि से विय दुयासं
 मूल गहं कट निहिच्च उण्डि होय उवारं ॥१०॥
 दिसि वाल खित्त वालहि से त्रियं धरणि मंडल
 पइट्टं पूयं ताण नराणं नूणं पूरे हमण इट्टं
 ॥११॥ एवं च सिद्धि चक्कं कहियं विज्जाणु
 वाय पर मत्थं नायण जेण सहसा सिज्जन्ति
 महंत सिद्धिउ ॥१२॥ इति गाथा बन्ध नवपद
 स्त्रोत्र सम्पूर्णम् ।

॥ नव पद स्तवन ॥

जिया चतुर सुजान । नव पदके गुणगाय
 रे ॥ नव पद महिमा जगमे मोटी ।
 गण धर पार न पाय रे ॥ निहाली जो आपरे ।
 आतम सुख चाहे तो इकंचित ध्यान लगाय रे
 ॥ जि० ॥ रकमीने का चित्त दूरकर करत हू ।
 सुन्दर शुद्धउ पाय रे ॥ जि० ॥ जपू इनका

इष्ट आलंबन करतां । अजर अमर सुख थाय
 ॥ जि० ॥ यह जिन भये आगामी होयगे नव
 पद संग पसाय रे ॥ जि० ॥ इति श्री नव पद
 स्तवनम् ॥ समाप्तम् ॥

॥ समस्त तपस्या ग्रहण करनेकी विधि ॥

प्रथम शुभ दिन शुभ घड़ी शुभमुहूर्त देखके ।
 अच्छा वस्त्र आभूषण पहरे । मस्तकमें तिलक
 करे ॥ हाथके मोली बांधके । अक्षत सुपारी
 श्रीफल नैवेद्य । यथा शक्तिरोक नकदी लेके ।
 नव कार गुण के । गुरु के पास जावे वंदण
 कर के । ग्यान पूजा करे । पीछे बहुत प्रसन्न-
 तापूर्वक गुरुके मुखसे ओली तप ग्रहण करे ।
 प्रथम साथिया करें (नमंत सामंत०) यह
 गाथा पढ़के । इरिया वही पड़िक्क में । एक
 लोगस्सको काउसग करे ॥ (पारके) प्रगट

लोगस्स कहे । नीचा बैठ के । तप आराधन कर वा निमित्त मुहपत्ति पडिलेहे । दो वांदण देवे । स्थोपना जीको खमा सण दे (भगवन्) ओली तप गहणार्थं चेइयं वंदा वेह । (ऐसा कहके) चैत्य वंदन करे । नमोत्थुणं (इत्यादि) अरिहंत चेइयाणं (अन्न-त्थु०) एक एक नवकार का ध्यान करनेके वाद (४) थुई कहे । थूई कह के । नीचा बैठे । नमोत्थुणं कहे । (खड़ाहोके) (श्री शान्ति नाथ स्वामी आराधनार्थं करेमि काउसग्ग) । अनत्थु कहके १ लोगस्स का काउसग्ग करे । (पारके) नमोऽर्हत् सिद्धा । कहके ॥ श्री भते शान्तिनाथाय । नमः शान्ति विधायिने । स्त्रैलोक्य स्यामराधीस । मुकुटा भ्यर्चितांहये ॥१॥ यह थुई कहे (शान्ति देवता आराधनार्थं करेमि का उसग्गं) अनत्थु० कहे ॥ एक नवकारका का उसग्ग कर निम्न थुई कहे

[थुई] शान्तिः शान्ति करः भ्रामान्
 शान्ति दिशतुमे गुरुः । शान्ति रेव सदा तेषां ।
 येषां शान्ति गृहेगृहे ॥ पीछे श्रुत देवता आरा-
 धनार्थ करेमि का उसगं एक नवकार को का-
 उसग कर थुई कहे । क्षेत्र देवता आराध-
 नार्थ करेमि का उसगं एक नवकारका काउ-
 ग कह कर थुई कहे । भुवन देवता आराध-
 नार्थ करेमि काउगं एक नवकार का काउसग
 कह कर थुई कहे ॥ साशन देवतो आराधनार्थ
 करेमि का उसगं एक नव कार का काउसग
 करके निम्न थुई कहे ।

(थुई) या पाति शासनं जैनं । सद्य प्रत्यूह
 नासनी । सामि प्रेत समृध्यर्थ । भूयाच्छासन
 देवता ॥१॥ यह थुई कहके [समस्त वेया वृत्ति
 देव आराधनार्थ करेमि काउसगं] अनत्थ०
 एक नवकार का काउसग करे । [पारके] श्री
 शक्र प्रमुखा यक्षाः । जिन शासन संस्थिताः ।

देवान् देव्य स्तद न्येपि । संघर क्षंत्व पायतः
 ॥१॥ यह थुई कह के नीचा बैठे । नमोत्थुणं
 कहेके । जयवीराय तक । चैत्य वंदन करे ।
 समासमण देके । भगवन् [अमुक तप ग्रहणत्थं
 करेमि काउसग्गं] एक लोगस्स को काउसग्ग
 करे । (पारके) लोगस्स कहे । खमासमण देके ।
 ३ नवकार गुणे फिर खमासमण देके । [इच्छा
 कोर भगवन् [नव पद ओली तप ग्रहण दंडक
 उच्चरावोजी] गुरु कहे उच्चरावेमो [ऐसा
 कह ॥ अहण्ह भते । तुह्माणं समीवे । अमुक
 तवं उव संपज्जत्ताण विहरामि । [तजहा] दब्बओ
 खित्तओकालओ । भावओ । दब्बओणं । अमुक
 तवं । खित्त ओण इत्थवा अन्नत्थवा कालओणं
 जाव परिमाणं । भावओण जाव गहेण नगहि
 ज्जामि छलेणं न छलिज्जामि । सन्नि वाएण न
 भविज्जामि । जाव अणेण वा । केणइ रोगायं
 कोदि परिणाम वसेण । एसो में परिणा सोण

परि वज्जइ । ताव मे एसतवो (अन्नत्थ)
 रायाभियोगेणं । गणाभि योगेणं । वलाभियो
 गेणं । देवाभियोगेणं गुरु निग्गहेणं वित्तिकंता-
 रेणं । अन्नत्थणा भोगेण । सहसा गारेणं ।
 महत्त रागारेणं सब्वसमाहि वत्तिया गारेणं वोस
 रामि । जो तप ग्रहण करे उसी तपका नाम
 लेके । गुरुके पास ३ बैर यह पाठ पढ़े (पीछे
 गुरु कहे) हत्थेणं । सुत्थेणं । अत्थेणं । तदुभ
 ण्णं । सम्मं धारिणीयं । गुरु गुणेहिं बुद्धाहि
 नित्यारग पार गाहोहि । (ऐसा गुरु कहे)
 पीछे खमासमण देके (गुरु मुखे) पच्चक्खाण
 करे (अथवा)गुरु न होयतो आपस्वयं मुखे करे ।

॥ इति सर्व तपस्या ग्रहण विधि ॥

॥ सर्व तप पारण विधि ॥

प्रथम ग्यान पूजा करके इरिया वही पड़िक
 में । (ओली तप) पारिवा० मुह पत्ति पड़िले

हूं । २ वांदण देवे । इच्छा कारेण संदिसह भगवन् तुब्भे अह्मं ओली तप पारा वेह (गुरु कहे 'पारा वेमो) इच्छामि खभासमणो० । इच्छा कारेण संदिसह भगवन् । अमुक तप निक्खवणत्थं काउसग्गं कारा वेह । (गुरु कहे कारा वेमो) पीछे देव वंदन करके । ओली तप पारणार्थं करेमि काउसग्गं । अन्नत्थु कहके १ नव कारको काउसग्ग करे । थूई कहे । पीछे नमोत्थुणं कहे । (बैठके) भगवन् ओली तप करते अविधि आसातनायें करीहों । औरजोकोईदूषणलगोहोय । सो मनवचनकायार्थे मिच्छामि दुक्कडं । (और) ग्यान भक्ति द्रव्यसे । भाव से किया होय (सो) प्रमाण फलदायक हो जाँ । (गुरु कहे नित्था रग पारगा होइ) । पीछे पच्चखोण करे (अमुक तप आलोयण नि-निमित्तं करेमि काउस्सग्ग) अन्नत्थु कहे । ४ लोगस्स का काउसग्ग करे । प्रगट लोगस्स

कहे । पीछे उप गरण पात्र भात पानादिक से
 सांधु भक्ति करे । अपनी शक्ति माफक । जैन
 विद्या भ्यास करणे वाले । विद्या गुरुकी
 भक्ति करे ॥ साहमी वच्छल करे । पहरावणी
 करे । पीछे याचकां को दान दे सन्मान करे ।
 ॥ इति सर्व तपस्या पोरण विधि सम्पूर्णम् ॥

॥ चेतन शिक्षा स्तवन ॥

मत धरोदोष औरन पर चेतन आप किया
 सो उदय आया । तू उलझो जंजाल जगत में
 इसी बात से दुख पाया ॥ म० ॥ टेक ॥ काल
 अनंत भ्रमत मोहि बीत्यो चहूं गति दुःख बहुत
 पाया । मनुष्य अनारज मांहि भयो जदि धर्म
 रती नहीं बनआया ॥ म० ॥ ॥१॥ पूरन पुण्य
 प्रभाव जग्यो जद आर्य्य क्षेत्र नर भव आया ।
 जैन धर्म और कुल श्रावण का बहुत कठिनता
 से पाया ॥ म० ॥२॥ सब जीवन पर दयाजो

रखो धर्म मूलए घतलायो । वीत रागकेचरण
चित्त लाकर और देव सब छट काया ॥ म० ॥
॥३॥ जिनवर आन धरो शिर उपर समकित
मूल रूप पाया । दुगेत भ्रमणा सब मिट जावे
सत गुरु याही फर माया ॥ म० ॥४॥ वारह
व्रत श्रावण का धारो पच महा व्रत मुनिराया ।
व्रण आवे सोही तुमकरलो शिव रमणी का है
पाया ॥ म० ॥५॥ सम्प्रत उन्नीस से ऊपर
तेइस पौष दशमीदिन हरखाया । शहर आगरा
वीच माहिने सेवक प्रभुजी का गुण गाया ॥ म०
॥६॥ इति ॥

जिया तूं दुःखसे काहे ढरे । जिया तूं
दुख से काहे ढरे रे ॥ पहिली पाप करत नहिं
सोचो अत्र क्यों सांस भरे रे ॥ जि० ॥१॥ कर्म
भोग सों भुगति पाई वनसी सीतल ध्यान सर
रे ॥ जि० ॥२॥ करत दोनता जन जन आगे
सों कौण सहाय करे रे ॥ जि० ॥३॥ धीरज

पुर में करिये । भेलुपुर में पास प्रभू का नित
 दरशण करिये । घाट भदेनी सत्तम जिनको
 पद पंकज वरिये । चवन जनम दीक्षा और
 केवल इन पद को समरण करिये । भावसहित
 प्रभु पूजन करके भवसागर तरिये । मुक्त धाम
 समेत सिखरपर चलतीरथ करिये । दुःख
 दोहण सब दूर नसा कर शिव रमणी वरिये ।
 सेवक की अरजी सुन साहव अब मरजी करिये
 नेक नजर कर नाथ हमारो दुरित तिमिर
 हरिये । श्री श्रोयांस नाथ स्वामी का दर्शन
 नित करिये ॥ इति ॥

॥ श्री ब्रह्म बावनी लिख्यते ॥

ओं कोर परमेश्वर परम योगी अगम अगोचर
 अलख रूप गायो है ॥ द्रव्य में अनेक भेद प-
 रजै मैं जाको जस वास मंत्र छहुंनि मैं छायो
 है । त्रिगुण त्रिकाल भेद तीनों लोक तीन देव

अष्ट सिद्धि नव निधि दायक कहायो है ॥
 अक्षर के रूप में स्वरूप हुआ लोकहु कौ ऐसो
 ओंकार हर्ष चन्द्र मुनि ध्यायो है ॥१॥ नमत
 सुरा सुर सुरिंद्र धरणिद्र जाको मुनिन के वृन्द
 धैर्य रूप करि ध्यायो है ॥ जैनी कहें जिन ।
 शिव मता शिव रूप माने । वेद पाठी ब्रह्मबोध
 रूप गायो है ॥ कोउ कहे अलख अल्ला है वो
 अथाह रूप ओंकार ऐसो जिन जैसोई बतायो
 है ॥ धरनको इन्द्र जाकी महिमा अमंड ताहि
 वदत हर्ष चन्द्र सर्व सुख पायो है ॥२॥ मत्र
 हू में तत्व हू में योगकी जुगति हू में मुगति
 मुगति हू में जाको विस्तार है । वेद में कित्ताव
 में अवेद हू के भेद में सुथापना उच्छेद हू में
 कीयो निरवार है ॥ जंतरमें मंतर में चड़े वड़े
 तंतर में शब्द निरंतर में होवत उच्चार है ॥
 ओंकार प्रणव प्रसिद्ध ऋद्धि वृद्धि सुख दायक
 है जपज हर्ष चन्द्र ऐसो ओंकार है ॥ ३ ॥

सिद्धि नि कों सिद्ध ऋद्धि वृद्धि देहिसंतति कों
 महिमा महंतनि कों देव छिन मांही हैं ॥ योगी
 को युगति ओ सुगति देत मुनिन को भोगीको
 भुगति गति मति उन मांहीं है ॥ चिंतां मनि
 रत्न कल्प वृक्ष कामधेनु सुखके समाज सब
 याकी पर छांही है ॥ कहै मुनि हर्ष निरख
 देख ग्यांन दृष्टि ओंकार मंत्र सम और मंत्र
 नाही हैं ॥४॥ द्वंद्व भाव को सो यह जगको
 स्वभावता में अधिक अज्ञान भाव अंधकार
 भारी है ॥ मोहकी वयार सेती उड़त मिथ्या
 तरज जिन्हें ग्यांन दृष्टिकों मलिन कर डारी
 है ॥ काम क्रोध लोभ मोह प्रगट पलाद वसे
 राग दोष जोर हूं की भांति जहां भारी है ॥
 ऐसे भव वासतें उदास हूँकै ग्यानी जीव सा-
 धत सुगति ताकों वंदना हमारी है ॥५॥ अगम
 अगोचर अलख अविनासी ब्रह्म मोहके मिलाय
 देखो कैसा नाच नाचा है ॥ कबहूं एकेन्द्री

विकलेन्द्री सकलेन्द्री भयो गयो नरकादि गन
जहां दुख सांचा है ॥ कचहु नरेन्द्र धरिणेन्द्र
हू खर्गेन्द्र इंद्र दिव्य देह पाय स्वाद विषय के
राचा है ॥ जौलौ ज्ञान भाव को स्वभाव घट
प्रगटै न तौ लौ यह चिदानंद सबै खेल काचा
है ॥६॥ आदिहै अनादिहै अखंडित अबाधि है न
कमी है न ज्यादा है सुव्यापक सरव है ॥ एक
है अनेक अलेख भेख रेख है परजे विसैप ही
मों जाही को परव है ॥ तोही में है मोहीमें
जहां देखो जोहों में है सत्राकी समोही मांहि
चेतन जरव है ॥ परजे प्रवीन है अनंत ग्यांन
वांन है सोमोप को निदान ऐसो आत्म दरव
है ॥७॥ इनही के ध्यांन निरवांन पद पाईय तू
इनही के ध्यांन ग्यांन केवल लहतु है ॥ इनही
के ध्यांन किये मिटत करम मल अमल विमल
गुन आत्मां गहतु है ॥ इनहीके ध्यांन सुरलोक
नर लोक हू में पावे प्रभुताई भव पातिक दहतु

है ॥ सोहे घट मंदिरमें आतमां प्रगट देवताकी
 करि सेव मुनि हर्ष कहतु है ॥ ८ ॥ ईश जग
 दीश औ अधीश सीस अनीस करत मुनीस
 सब याहीकी ऊपासनां ॥ वही चिदानंद प्रभु
 पूरन परम ब्रह्म पुगलमें मिल्यो जैसे पुहय में
 सुवासनां ॥ भेद ग्यांन दृष्टि सों विच छिन्न
 भिन्न करे जैसे मथि काढीय तू काठ में हूं ता-
 सनां ॥ कहत हर्ष चंद्र तीन हूं त्रिलोक मांहि
 आत्म प्रकाश सम दूसरी प्रकाशनां ॥ ९ ॥
 उपजे न उपजत विनसे न विनसत आत्म
 अखंड ब्रह्मंडको विकाशी है ॥ परजेके भेद
 सो भयो अनेक वेद तो हूं द्रव्यतां में एक यह
 अज अविनाशी है ॥ वरनादि वीस भेद भाखे
 प्रभु पुगलके तिन हूं ते भिन्न निज सत्राको
 उपासी है ॥१०॥ ऊरध सप्त राज सांत राज
 अधो लोक तीन सौ तयाल राज तिरछे प्रमा-
 निये ॥ तामे षट दरवरसव नवतत्व भेद ऐसे

भरे जैसें घट छून हार जानिये ॥ ताही कों
 कहत गेय गेय पर मान ग्यांन ग्यांन परमान
 शुद्ध आत्मां वखानिये ॥ व्यापित अखिल
 ब्रह्मंड में अखंड जोति ताते यह आत्मां
 सरव गति मानिये ॥११॥ ऋद्धि है अपार अ-
 विकार तेरे निकट ही प्रगटे कपट पट खुले जो
 अग्यांन के ॥ तेरे ही भडार मांहि भरे ग्यांन
 रतत सौं यतन के कीन्हे विना भए वसि आंन
 के ॥ तेरो प्रभुताई पहिचान वे को मुनि गन
 होइके मगन अधिकारी भये ध्यांन के ॥ अहो
 प्रभु चेतन अचेतनता भाव त्यागि आपकों सं-
 भारो भ्रम दर म्यांन के ॥१२॥ रीति विपरीति
 गही शुद्धताको छाड़ि दई तातें दुति मद भई
 राजा चिदानंदकी ॥ भग्गो भव वास एक
 सास में सतर वेर जनम मरन करि सहीद
 सानंदकी ॥ मोहकी मलीनता सौं हीनताभई
 अनेक राहके गरासें जैसें घटे कला घटकी ॥

अनुभव अभ्यास शुद्ध आत्म प्रकाश भयो तम
 के मिटे तैं कला प्रगटी दिनंद की ॥१३॥ लिख
 देख्यो सिख देख्यो सिख न सिखाय देख्यो
 रह्यो न परेखो कहूं वेद हूं की वातमां ॥ ग्रंथ
 देखे पंथ देखे कुमति कुपंथ देखे नगननि ग्रंथ
 देखे मुनि औ महानमा ॥ सिद्ध देखे सती देखे
 जोगी अरू जती देखे लेखे अनलेखे देखे पंडित
 द्विजातिमां ॥ गुनीदेखे ग्यानी देखे तीरथ स्था-
 नीदेखे इते सब देखे पे न देख्यो एक आतमा
 ॥१४॥ लीन्हों कहां जोग जो तो भोग सों
 न मुड़यो मन लोगके रिझायवे कों धूम्र पान
 गटके ॥ कोऊ शीस धारेजटा कोऊतो उपारै
 लटा कोऊ कन फटा कोऊ कृयाही में अटके ॥
 कोऊ तो सन्यासी मठ वासी वन वासी कोऊ
 होतके उदासी परे तीरथ कों भटके ॥ ब्रम्ह
 हूं को चीन्हों नांहि मन वस कीन्हों नांहि एते
 पर होत कहा थोथे कन फटके ॥१५॥ एकही

सिलोक पढो पढो क्यों न कोटि ग्रंथ पथकूं
 कुपंधनि में जेतो जेता कथा है ॥ वेद निर्वेद
 भेद पढ़ो सबही कितेव पोथी हूं पुरोनन में
 भाख्यो जैसे यथा है ॥ तुरुफहे ग्यांनी कहे बडे
 मति मांनी कहे ब्रम्ह ही के जानिवेको श्रुतसिध
 मथा है ॥ आपा पहिचानो सब तंत विरतंत
 जान्यों और जांनिवेकी अब रही कौन तथा है
 ॥१६॥ एही प्रभू आतमां अलख अविनासी
 ब्रम्ह कर्मके भरम बसि कैसे रूप ड्र रह्यो ॥
 र जो परभाव पै सुभावकी न लीन्ही सोध आ-
 तम प्रबोध विनु जड़ता को छुवै रह्यो ॥ मान
 की मगनता सो क्रोधकी जगनता सो लोभकी
 लगनतासो मोहनाद खै रह्यो ॥ सुगुरुचित्तोवै
 जिन वांनी समुझावै तह आप निधि पावै जो
 अनादि ही सो खोयरह्यो ॥१७॥ उही यहब्रम्ह
 जाको वेद मति ब्रम्ह मानै न्यायके पढ़डया
 मानै करता करमको ॥ बोध कहे बोध और

सब सों करें विरोध जैनी कहै शुद्धय है धरता
 धरमको ॥ ऐसे मतवारे मतवारे मतवारे डोले
 करै पछतात पाट खुल्यो न भरमको ॥ वहतो
 है एक ए अनेक भांति भांति कहे बिनां भ्रांति
 मिटै पेडी पावो क्युं परमको ॥१८॥ उर नहीं
 जान्यो कहूं अंत न बखान्यो काहूं ऐसो प्र-
 मान्यों कौन रूपकों न रंग है ॥ काहूं नहीं
 देख्यो कहूं चित्रमैन रेख्यो ताते आवत परेखो
 को बनावै कौन ढंग है ॥ नाहीं तो कह्यो न
 जाय हे कहे गह्यो न जायकैसे हूं लह्यो न जाय
 आतमां अभंग है ॥ और मत वादी बक वादी
 कहे एक अंग जैनी स्याद वादी कहे ब्रम्ह सर
 वंग है ॥१९॥ कोऊ शिष्य सुगुरु सो कहे कर
 जोड़ि कर स्वामी मोही ब्रम्हको स्वरूप सम-
 झाइये ॥ कौन भांति जान्यों जाय काहे ते
 प्रमान्यों जाय कैसे कर मान्यों जाय कैसे
 ठहराईए ॥ गुरु कहे तेरो ब्रम्ह तेरेघट बीचता

तै निपट नगीच दूर कहां लें बताइए ॥ पूरन
 प्रधान बस्यो तेरे घट आंन सो तो परजै प्रमान
 ग्यांन चेत नातें पाइए ॥२०॥ खट गुनी हांनि
 वृद्धि कही विवहार मांहि निहचै मैं एक हूं इहां
 भेद नांही है ॥ वरन विकार औ अकार सब
 पुगल में वहे निराकार ब्रह्म जहां देखो तांही
 है ॥ रूप है न रेख नांही वरनविसेप भेखणसो
 है अलेख जानो धूप है न छांही है ॥ अरे मन
 कूर काहे खोजत फिरत दूर तेरेई हजूर नूर
 तेरो तुझ मांही है ॥२१॥ गुरु ए भये ते कछु
 गरुओ कह्यौ न जांत हरुअै भये तै कछु हरुओ
 नहीं भयो ॥ जब देह धारी तवभयो नर नारी
 फिर जब देह टारी तव जैसे को तैसो रह्यो ॥
 लिये भेष नाना भयो बालक जुवानां वह पुरुष
 प्रधानां वृध बालक नहो कह्यो ॥ नभ ज्यो अ-
 पार पारा वारं कोसो विस्तार वड़े मत धार
 हू नैयां ग्वा को नां लह्यो ॥२२॥ घट में है

निकट प्रगट ब्रम्ह तेरे तू तो मोह के अंधेरे
 मांहि खोजत जहान में ॥ अपने ही पास मृग
 मदकी सुपास मृग संघत फिरत घास जैसे रांन
 रांन में ॥ तू तो भूमि रह्यो गमि रह्यो वह
 नांही कहूं तो मैं रमि रह्यो जैसे पावक पाषांन
 में ॥ दही मांहि घीव जैसे देही मांहि जीव
 ऐसे देखत सदैव ब्रम्ह ग्यांनी ब्रम्ह ग्यांन में
 ॥२३॥ ग्यान द्रष्टि वेद सों अभेद यह आतमां
 है यद्यपि त्रिवेद पै तथापि एक कहिये ॥ जैसे
 ऋण काठ घास ईधन सो भिन्न वं हि दाहक
 स्वरूप करि ए कै भांति लहिये ॥ तैसे देहधारी
 देह देहमें अनेक भांति भयो नानां भांति पै
 अलेप भेष सहीये ॥ तीन हूं त्रिकाल मांहि
 ग्यांन तैं विभिन्न नांहि अपनी सकति छांड़ि पर
 की न गही हे ॥२४॥ चंचल तरंग उठै पवन
 प्रसंग सेती अपने स्वभाव जल अमल अडोल
 है ॥ तैसें ग्यांन चेतनां सों आतमां धिर सदा

परके प्रभाव सेती नानां झक झोल है ॥ देवनर
 नारी पशु पक्षी जल थल चारी पुन्य पाप दुख
 सुख करम कलोल है ॥ मेटे परभाव शुद्ध
 आत्म स्वभाव आवे पावे निज संपदा जो अ-
 खग अमोल है ॥२५॥ छिनकहे जीव छिनछिन
 आवे जावे जल में तरंग ऐसे अंग मांहि आ-
 तमां ॥ दर व के सरव सभेद कौन पावे सठ
 करै हठ वाद ठानै घात बात मां ॥ नहीं पहि-
 चांन सुद्ध ग्यांनकी भई है तात मनके कलोल
 कां कहत है त्रिधातमां ॥ जैन मती जीव कहै
 ग्यांन मई है सदा व कोमल अखंड जैसे जात
 रूप जातमां ॥२६॥ जल में है थलमें है अनिल
 अनल में है सबल निबल में समाय कै रह्यौ
 वही ॥ ज्ञान हूं में ध्यान हूं में निखिल निदान
 हूं में बडे मति मान में प्रमांन कीयो सही ॥
 रूप में रचा है में सचा है घट कौन
 धों वचा है रूप है नही ॥ साहिव

के भोरे तू तो दूढ़त है औरे औरेमें ढंढो रे
तो तो घटमें छतो अही ॥२७॥ झगड़ते फिरत
अनाहक अग्यानी जीव कोऊ कहे आतमां है
कोऊ कहे नांहीं है ॥ कोऊ कहे व्यापक अ-
व्यापक वतावै कोऊकोऊ कहे ईश्वरकी ज्योत
हू की झाई है ॥ कोऊ सुन्य ठानै कोऊ पंच
तत्व मानै तातैं जैनी कहे जीव तो सदैव ज्ञान
मांही है ॥ चेतन स्वरूप है अखांडित अरूप है
सुतत्वनि को भूप ऐसो ब्रम्ह घट मांही है ॥
॥२८॥ नांही रूप रंग अंग वचन प्रसंग संग
अकल अभंग टंक कहां लौ कहीजिये ॥ नांही
कछु मूरत न सूरत गरूर तन ग्यांन की जहूरत
सो पूरत लहीजिए ॥ ऐसो है अलख जो लौं
आपमें लखौ न तौ लौं पर केवता कहो कैसें
कैपतीजिये ॥ काहे कौ करत वाद अनुभवकौं
पायो स्वाद गूंगे को सो गुड़ खाय घुप ह
रहिये ॥२९॥ टरत न टारे निज सत्राको स्व-

भाव जीव परके विमान में कदाचि काल नां मिले ॥ जैसे शुद्ध कचन कुघात में मिलत तऊ निज गुन छांडि पर गुन में नही मिले ॥ ज्यौ ही यह आतमां अलख अविनासी ब्रह्म परके मिलाप गति च्याहं मै सदांरुले ॥ परजे प्रसग भयो नाना विधि रंग तऊ आतमां अभंग शुद्ध चेतनां सोनां टलौ ॥३०॥ ठांम ठांम गांम गांम धाम देवी देव हूं के करै सठ सेव पै न भेद कौन पावही ॥ फूल फल पाती तोरै दीप धूप चाती जोरे वड़े उतपोती के ते जीवकों सता वही ॥ आप हैं सचेत पै अचेत भूत प्रेत पूजे आपको न सजे मूढ़ और रमा ही ॥ घटमें प्रगट परमात्मा प्रगट देवना की करै सेव तो तो समें फल पावही ॥३१॥ डुले न डुलाई जैसे उपल अटल खंभ जलके समीप ठाढो अपन स्वभाव सों ॥ (तैसे ही अनादि) पौनके हिलोल उठै जल में कलोलता नैठुलतो सोदी

सौ सो तो परकेकुभाव सों ॥ तैसेही अनादि
 अविकार निरोकार ब्रम्ह आपतो अडोल डोलै
 कुमति कुभाव सों ॥ मिटै तें अग्यान घट प्रगटे
 परम ग्यांन पावे निर्वाण पद कर्मके अभाव सों
 ॥३२॥ ढरत ढरत नीर ज्यों ज्यों नीचे जात
 त्यों त्यों विमल स्वभाव मिटे भई है मलीनता
 कहूं झक झोर कहूं धीरकी मरोर कहूं उठत
 हिलोर कहूं वृद्ध कहूं हीनता ॥ तैसें यह ब्रम्ह
 परचो करम भरम मांहि परम धरम विनु भई
 छवि छीनता ॥ जब भूमि मेटै तब आपही में
 आप भेटै बिनां ताहि भेटे नांही मिटै भव
 दीनता ॥३३॥ नांहा कहै नांही नांही है कहे
 तो है ही सही नांही है ए दोऊ स्याद वाद रूप
 है ॥ व्योम में कुसुम जैसे अस्ति नोस्ति उभे
 रूप कैसें ठहरावे घन घटा मध्य धूप है ॥ एसें
 सप्त भंग नय साधी सरवंग अंग वचन प्रसंग
 भाखी निज मत धूप है ॥ जाने स्याद वादी

और वादी जानें मोनें नांही अकल अलख रूपी
 ब्रह्मको स्वरूप है ॥३४॥ तन में तिहारें पर-
 मेउवर वसत तूं तो तो लौं न निहारें जो लौं
 पड़ल अग्यांन के ॥ उगे हूं विरोचन विलोचन
 खुलत नांही कौशिक के बाल चाल पागे न
 विहान के ॥ करि ग्यांन अंजन निर जन नजरि
 आवे सुगुरु वतावै उपचार जो जो ध्यान के ॥
 तजि मति फैन गही जिन मत वैन, एन ताही
 तें विमल नैन होत ब्रह्म ग्यांन के ॥३५॥ थिर
 चर देहधारी जेते है संसारी ताकी करम प्रकृत
 न्यारी न्यारी गति टेक है ॥ वरन विहार औ
 आकार हूं तै न्यारे सवै न्यारे न्यारे कर्म बंध
 फल व्यती रेक है ॥ जनम तें नरनतें घरण तें
 कग्न तें न्यारे न्यारे सत्र जीव द्रव्यते अनेक है
 परजै प्रवांन सत्र दीसतु है आंन आंन निहचे
 समांन ग्यांन चैननां मै एक है ॥३६॥ द्रव्यत
 स्वरूप कल धौत एक रूप जैसें कुंडल कटक

पर जे तें बहु रूप है ॥ परजे की हांनि वृद्धि
द्रव्य घटै वटै नांहि अपनै स्वभाव लिये अचल
स्वरूप है ॥ तैसें जीव द्रव्यताके ग्यान चेतनादि
गुन नर नारकादि गत परजे निरूप है ॥ घटै
ते घटत नांही बढ़े तें बढ़त नांही ऐसें अवि-
नासी ब्रम्ह घट में अनूप है ॥३७॥ धरे बहु
भेख पै अलेख की न लखी रेख ग्यान द्रष्टि
देखि अन भेख में लख्यो परै ॥ तजिकै भग्न
पर ब्रम्ह को पचान लेहु आप ही में जानि
करे हृदय में न क्युं धरे ॥ जप तप ध्यान दान
तीरथ सनान व्रत विविध विधान जो जो नीके
तूं करे ॥ परे सब लेखौ जो तूं आपही में
आप देखे ताके अनदेखे विना कछु काज नां
सरै ॥३८॥ नयको निवास न प्रकाश है प्रमाण
हूं को ध्यान धेय धारणां की मुख्यता सवे
मिटी ॥ जात रहे बाद ऊ विवाद के फिदाद
सब थांपना उथांपना की चोह चित्त तें हटी ॥

सुख की इच्छा अनइच्छा दुख हूं की नाहि उदै
 कर्म बध तिथि हु की घटना घटी ॥ पायो
 निज धाम तब क्रिया को काम सुख विश्राम
 सोह सोह रटनां रटी ॥३९॥ पढ्यो तूं पुरांन
 पै पुरांन को न पहिचान्यो आगम ते अगम अ-
 लख की न लखी गति वेद हु पढ़े तें भेद पायो
 न निरजन को करम के अंजन नें मेली करी
 राखी मति ॥ नहि पहिचानि ब्रह्म ग्यान ते भई
 है जातें जप तप ध्यान व्रत पूजा नफलति अति
 भरम के टारे विनु आतमां निहारै नाहि आ-
 तमा निहारे विनु कैसे हूं न हूं सुगति ॥४०॥
 फैल्यो चिहु ओर आर पार कोऊ पावै नाहि
 मोह की झकोर भोर देखत लगत डर ॥
 क्रोध बडवा नल जलन रहै आठों जाम राग
 दोष कछ मछनिको ड्योहै घर ॥ जनम मरन
 तें भयां न कल गन जामें आपदा मिलत नदी
 लोभ की उटै लहर ॥ ऐसो भवसागर दुरका

कर बखान्यों जिन विना ब्रम्ह ज्ञान ज्यांन कैसे
 हूं नगपोतर ॥४१॥ वगधरै ध्यान मौन फणिय
 अहारै पौन मच्छ कच्छ जल गौन स्नान करते
 रहै ॥ बटसी सुधारै जटा भंडहूं लुचावै लटा
 पसू अन पटाभ सम सदाव है ॥ वालपैं अहारी
 कष्ट भूरूह सहत भारी पिंजर में परयो शुक
 राम राम ही कहै ॥ किये कर्म आंनआंन सिद्ध
 न भई निदांन विना ब्रम्ह ग्यांस निर्वाण कोऊ
 नांल है ॥४२॥ भरम में भूलै मूढ़ फिरत है
 फूले फूले खाय के भतूले जैसे उवटन वाटके ॥
 आप को न बोध पर सोध करै लोगनि कौं
 भोगनि के लिये ठानै भगल कुठाटके ॥ कोऊ
 तो महंत कोऊ आपको कहावै संत माया में
 लपटि रहे कीड़ा जैसे पाटके ॥ इत धरन ज्यों
 उत ब्रम्ह हूं को नांही भज्यौ धोवी कैसे कूकरा
 है धरके न घाटके ॥४३॥ मान से महोधर
 उत्रंग अति ऊंचे तहां माया सी सरित जामें

पाप जल है अथग ॥ क्रोध से दावानल जलत
 रहे आठौं जाम काल से । मृगाधिप के डर सों
 डरात जग ॥ काम से कुचालि भील छीन लेत
 सत्य शील, राग द्वेष चोर जहां मोहसे रहत
 ठग ॥ ऐसो भव वन महा दुखको निवास घन
 तहां यह जनको तो गुरुही बतावे मग ॥४४॥
 योगकी युगति करि साधत सुगतिमुनि औ पवन
 की निरूंधे गति गहरी ॥ भेडे, पट्ट चक्रको
 अवक्र गति अनिल की त्रिकुटी त्रिवाटके कपाट
 खोले कहरी ॥ पावे सुधासर जहां अष्ट दल
 है कमल तहां यह हंस वसे निज ठाम ठहरी
 अखय अडोल सुख सिंधु में करे कलोल ऐसो
 परमात्मां परम ब्रम्ह लहरी ॥४५॥ रमि रह्यो
 घट घटता नीतें कहायो रामव्यापित सकल
 विश्वता तें विह सुहे सही ॥ आप है अनादि
 ब्रम्ह ताही तें कहायो ब्रह्म शिव पद साधे
 ताते शिव रूप है यही ॥ जीत सब राग द्वेष

सिद्ध सकसूदावाद वंग देश जहां जैन धर्म
 दयो पतित की पावनी ॥ पास गच्छ स्वच्छ
 वाचक हरपचंद कीरत प्रसिद्ध जाकी साधु मन
 भावनी ॥ ताके चरणारविन्द पुन्य ते निहाल-
 चंद कीन्ही निज मति तैं पुनीत ब्रूहवावनी ॥
 ॥५१॥ हम पे दयाल हूँके सज्जन विशाल
 चित्र मेरी मति हीन ताते कीन्हौं वाल ख्याल
 अपनी सुबुद्धि तैं सुधारि तुम दीजियो ॥ पौन
 के स्वभाव तैं प्रसिद्ध कीज्यो ठौर ठौर पन्नग
 स्वभाव एक चित्र तैं सुरीजियो ॥ अलि के स्व-
 भाव तैं सुगंध लीज्यो अरथ की हंस के स्वभाव
 हूँके गुन कों गहीजियो ॥५२॥

॥इति श्री ब्रूह स्वरूप निरूपण ब्रूहवावनी

॥ सम्पूर्णम् ॥

॥ पुस्तक समाप्त ॥

॥ कृष्ण-निवास ॥



यहचित्र लाला किशनचदजी धनराजजी कोचर के
मकान नं० २४ रसरोड साउथ, टालीगज
कलकत्तेका है ।

मामसे विदा होनेका सुदुर्त सुदी वदी एक जाननी

फल

मास तिथि	पौष माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख जेष्ठ आषाढ श्रावण मादक अश्विन कार्तिक मगसिन	पूर्व दिशा अग्नि कोण
उत्तम	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२	कुण्डले आवे
मध्यम	२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १	पूर्व नेष्ट
उ०	३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १ २	अर्थलाम
उ०	४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १ २ ३	तत्कालसिद्ध
उ०	५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १ २ ३ ४	तत्कालमलो होय
म०	६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १ २ ३ ४ ५	भय उपजे
उ०	७ ८ ९ १० ११ १२ १ २ ३ ४ ५ ६	अर्थलाम
म०	८ ९ १० ११ १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७	जल्दी कारजहोय
उ०	९ १० ११ १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८	कल्याण होय
उ०	१० ११ १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९	कलेज उपजे
म०	११ १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०	मृत्यु उपजे
म०	१२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११	पूर्वनेष्ट
	जोगणी दिशाशूल घातिक चद्रमा इत्याधिक का कुल दोष नहीं ॥	तीज तम का फल एक

प्रवेश करने कामुहूर्त

दक्षिण दिशा नईकृत कोण	पश्चिम दिशा वायु कोण	उत्तर दिशा ईशान कोण
क्लेश होय	पीडा नहीं होय	मनोरथसिद्ध
क्लेश होय	संतान उपजे	दुख होय
मनोवांछित फल	कारजसिद्ध	शुभकारज होय
विनाश होय	दुख उपजे	घर में जय
मित्रमिलाप	क्लेश टले	सुख होय
मित्रमिलाप	संकट उपजे	मध्यमकारज
रत्न उपजे	शुभ होय	उत्तावलो आवे
नेष्ट	अशुभ होय	अशुभ जाणवो
कारजसिद्ध	मनोरथफल	भलो होय
मनोरथफल	कारजसिद्ध होय	शम होय
भय उपजे	कायाकष्ट	विनाश होय
बंधन में पड़े	महादुख उपजे	घर में सुख उपजे
चौथ चौदस का एक फल	पांचम पृनम का एक फल	आठम अमावस्था का एक फल

॥ श्री ॥

श्री गणपति गोरख पत्रका अष्ट

पौष माघ फाल्गुण चैत्र वैशाख जेष्ठ आषाढ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक मगहन	पहले पक्ष का फल
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२	अर्थलाभ
२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १	भय उपजे
३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १ २	अर्थलाभ
४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १ २ ३	क्लेश उपजे
५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १ २ ३ ४	अर्थलाभ
६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १ २ ३ ४ ५	कार्यसिद्धि
७ ८ ९ १० ११ १२ १ २ ३ ४ ५ ६	कार्यसिद्धि
८ ९ १० ११ १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७	ॐ ॐ ॐ ॐ
९ १० ११ १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८	अर्थलाभ
१० ११ १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९	क्लेश उपजे
११ १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०	सर्वसुख
१२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११	सकट पावे

पहरिया सुदी वदी एक जाननी

दूसरे पहर का फल	तीसरे पहर का फल	चौथे पहर का फल
महादुःख होय	सर्वमान होय	राज में आदर होय
क्लेश उपजे	कार्यसिद्धि	सर्वसुख होय
राजसुख होय	सर्वसुख होय	क्लेश उपजे
संकट उपजे	नेष्ट करे	कार्यसिद्धि होय
मित्रलाभ होय	सर्वसुख उपजे	सर्वसुख होय
क्लेश उपजे	मित्रलाभ होय	अर्थलाभ
अर्थलाभ	सर्वसुख उपजे	अर्थलाभ
ॐ	ॐ	ॐ
कार्यसिद्धि	मित्रलाभ	संकट उपजे
कार्यसिद्धि	क्लेश उपजे	संकट पावे
मनोरथफल	क्लेश उपजे	मित्रमिलाप होय
अर्थलाभ	मित्रमिलाप	सर्वसुख

वारवेला कालवेला जोगिनी आदिका कुछ दोष नहीं ।

पाचवें पहर का फल	छठ पहर का फल	सातवें पहर का फल	आठवें पहर का फल
सर्वसुख होय	क्लेश उपजे	सुख उपजे	सर्व सुख उपजे
लाभ होय	सुख उपजे	सुखी होय	सर्व सुख उपजे
मोटालाभ होय	सुख उपजे	मनोरथ फल	सर्व चिन्ता नाश
घणालाभ होय	मनचिन्ता पाये	क्लेश उरजे	धनलाभ होय
भय उपजे	मनोरथ सिद्धि	अर्थ लाभ	क्लेश उपजे
अतिलाभ होय	अर्थलाभ होय	मृत्यु उपजे	सुख पाये
मोटालाभ होय	भय उपजे	तत्काल सिद्ध	सुख उपजे
०	शुभ होय	क्लेश उपजे	सुख उपजे अर्थलाभ
क्लेश उपजे	तत्काल सिद्धि	कष्ट पाये	क्लेश उपजे
भय उपजे	अतिलाभ होय	अर्थलाभ	लाभ होय
सर्वसुख	घणा लाभ होय	भय होय	प्राण घात
सर्वसुख	हर्ष उपजे	मृत्यु होय	नेष्ट